

आत्मकान्तिप्रकाश ।



जेमां

विविधतीर्थस्तवन-स्तुति-सञ्ज्ञायोनो संग्रह
करवामां आवेल छे.



छयावी प्रसिद्ध करनार,

संगीत-पूजा प्रेमी-भास्तर,

माणकलाल नानजी भावनगरीना

प्रयासथी-

श्री जैन आत्मानंद-सभा-भावनगर.



वीरसंवत् २४४४ }
आत्मसंवत् २३ }

{ विक्रमसंवत् १९७४
{ ईसवी सन १९१८



किंमत ४ आना

Published by Vallabhadas Tribhuvandas Gandhi, Secretary,
Jaina Atmananda Sabha, Bhavanagar

Printer — Ramchandra Yesu Shedge, Nirnaya-sagar Press,
23, Kolbhat Lane, Bombay

आ शुभकार्यमां मदद आपनार सद्वृहस्थोनां शुभनाम.

रूपीया

- ७१ झवेरी दलीचद फूलचद.
 ५१ झवेरी नगीनदास कपूरचद, ह. घाई रक्मिणीबाई
 ५१ शेट गोविंदजी रगनाथ
 ५१ झवेरी हेमचद मोहनलाल
 ५१ मारवाडी लखमीचद वेद
 ५० श्रीमुवाई श्रीशान्तिनाथना देरासरना आठिका उपाश्रय तरफथी
 ५० श्रीमुवाई श्रीनमिनाथजीना देरासरउपाश्रयमाथी श्रीजामनगरना
 सध तरफथी
 ५० मारवाडी चादमलजी मारफत
 ५० पाटणवाला सूरचद नगीनदास
 ३१ वाई सेजु ते शेट प्रेमजी लीलाधरना पत्नी, ह शेट देवकरण

५१ शेट साकरचंद मोतीलालना मरहूम
 पत्नी जीवीवाईना स्मरणार्थ.


१५ शेट चतुरजुज हेमराज.

१५ „ पोपटलाल मूलजी.

१५ „ हंसराज कपूरचंद.

११ „ खीमचद मूलजी

आत्मकान्तिप्रकाश-अनुक्रमणिका.



श्रीमद्विजयानदसूरि (आत्मारामजी) महाराज विरचित बारा

| | | | |
|----------------------------|---|----|---------|
| भावनाके सर्वये | . | .. | १ ते १७ |
| वद्वभविजयजीकृत पचतीर्थपूजा | . | | १ ते १६ |

प्रवर्त्तकजी महाराज श्रीकातिविजयजीविरचित-

| | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----|-----|----|
| १ महावीर तेरे पदपकजमें | हुमरी | . | . | . | १ |
| २ पडवे प्रथम जिनेश्वरो सातवारनी देशी | | . | ... | ... | २ |
| ३ जनम सफल अब हमरो मानु-मुबई-वटम | | | | | ३ |
| ४ पास गोडीजी मत्योरे-मुबई-रामकली | | | | . | ४ |
| ५ ले चल मोहे सिद्ध गिरिराज | वढस | | | . | ४ |
| ६ आधिकुन नाव तुमचीकडे आला-मराठी भाषा-चरवा | | . | | | ६ |
| ७ अरजिनवरजीरे अरजी | अरणिकमुनित्रर-देशी- | | | ... | ७ |
| ८ अरजिनवरमुजमनवसो | अजितजिनदसु- | „ | | | ७ |
| ९ जीयारे शीतल जिनपति | माढ | ... | . | | ८ |
| १० पासप्रभुतेरे चरण कमलमें | लावणी | . | | | ८ |
| ११ जिनपति विमल विमल पद भागी | „ | | . | | ९ |
| १२ चिंतामणिचित चिंताचूरो | „ | ... | | | १० |
| १३ मेरे तो जाना शीतल रायण छाय | आसाउरी | | | | १० |
| १४ मेरे तो जिना तेरोही चरण आधार | „ | | . | | ११ |
| १५ अजित जिनेश्वर चरणको | प्रभाति | | | | ११ |
| १६ जीरे मारे दरसन दिनमणि आज-देशी, जीरेजी- | | . | | | १२ |
| १७ चरणनको सरण हमारे | वणजारानी देशी- | . | | | १३ |
| १८ जिनवरश्रुपभपियारो-आवू-देशी जिनवरपासपियारो- | | . | | | १४ |
| १९ तीरथ वीरानेरनी | देशी-पणिहारी- | . | . | . | १४ |
| २० आवू अचल निर्मल- | „ | „ | | | १५ |
| २१ नयने अचलगिरि निरखियो | प्रभाति | . | . | | १६ |

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------|----|
| २० | प्रजुर्नीते प्रीति लगाइ . . . | तिरोही- | १७ |
| २३ | नवपदजी चंलवदन . . . | | १७ |
| २४ | छिद्रचक्रस्तुति . . . | | १८ |
| २५ | नवपद-उज्ज्वलप्रसन्न | | १९ |
| २६ | कना छवि लागत प्यारी . गोषा | क्षितोटी . | २० |
| २७ | जगन्नाथकी होषाम . . . | प्यारापास .. | २१ |
| २८ | ममनारस शीतल छाया . . . | बणजारा | २१ |
| २९ | चंद्रप्रभुमहागज . . . | अटलछुद .. | २२ |
| ३० | कृपभ चिःद अवधारी | भीरुटी-देशी | २३ |
| ३१ | धविगानोनदमत्तगोरी . . . | रामरुगी . | २४ |
| ३२ | कचनगिरि दर्शनपाई | होरी . | २५ |
| ३३ | जामानर तीरथ नमू | प्रभाति | २६ |
| ३४ | परियामफलभई | प्रभातपाटण | २७ |
| ३५ | वीरमुनोमोरी विनीति | महुवा . | २८ |

सझाय-सप्रह-अनुक्रमणिका-

| | | | |
|----|----------------------------|-------------------|----|
| १ | गना मत जात पुछ अपना . . . | रेखता | २९ |
| २ | नदी गावकामेलारे . . . | सोजोगी-देशी . . . | २० |
| ३ | ए सत्तार मुपनकी माया | पीछ | ३० |
| ४ | दिन चार मुमापर डेग | गोरठ | ३१ |
| ५ | ममझडियो मय नाररे | काफी . | ३२ |
| ६ | गह नुरी उलट्टेजु | धनाधी | ३३ |
| ७ | गागु काय तुला प्राणी . . . | टुमरी | ३३ |
| ८ | जयजय हेमचद्रमहाराज . . . | वरयाण | ३४ |
| ९ | झानी गुरु मोराहे | माड | ३६ |
| १० | यशोविजय गुरुझानी . . . | विहाग | ३६ |
| ११ | सूरे श्रीयुत विजयानदो | सोरठ . . . | ३७ |
| १२ | जीरे मारे विजयानदमृगीश | | ३७ |
| १३ | आतमराम आधार . . . | | ३९ |
| १४ | जीरगी जाना है जरर | गजल . | ३९ |

मुनिश्रीवल्लभविजयजी विरचित ।

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----|
| १ | मगल पढिये | भगलाचरण-नाटक | | ४१ |
| २ | पार्श्व प्रभु जिन अतर्यामी . | | ” | ४१ |
| ३ | जिनगुणगाल | (नारोवाल) | कानडा | ४२ |
| ४ | चितामणिस्वामीरे | मुवई-लालबाग | वालावेगे | ४३ |
| ५ | आदिजिनेश्वरस्वामी | देशी-रामनामरसपीजे | | ४४ |
| ६ | वारीजाउरे | . मुजतस्वामीस्तवन | देशी वारणा | ४५ |
| ७ | प्रभु आदीश्वर | (श्मगटियातीर्थ) | ” | ४५ |
| ८ | शातिनाथ शातिकेकर्ता | . देशी-अशरणशरण | | ४६ |
| ९ | प्रभु आदि जिनदा | (कठोर) | . भाट | ४६ |
| १० | वीरजी तारी पावन करनारी | चाल-नाटक | | ४७ |
| ११ | प्रभु पास जिन सामलिया | देशी-थई प्रेम वश- | | ४८ |
| १२ | प्रभु शाति जिन सुराकारी (विलीमोरा) | पातलिया | | ४९ |
| १३ | आदिजिनस्वामीरे | (दम्मण) | चालावेगे | ५० |
| १४ | तारो श्रीजिन अजितजिनद | (वगवाडा) | मातामरुदेवा . | ५१ |
| १५ | त्राताज गजीवन अरिहत | | ” | ५२ |
| १६ | तू मेरे मनमे तू मेरे दिलमे | (वगवाडा) | | ५३ |
| १७ | श्रीनेमिनाथ (गिरनारतीर्थ) | . हरिर्गात | | ५४ |
| १८ | नजाने कि गत भावि | सस्कृत . कव्वाली | | ५५ |
| १९ | देवस्त्वमेव भगवन् . | ” | ” | ५६ |
| २० | करुणासुधाभिभरित | ” | ” | ५७ |
| २१ | प्रभुश्रीनेमिजिनदर्शन (गिरनारतीर्थ) | कव्वाली | | ५७ |
| २२ | अर्ज है हे प्रभु नेमिनाथ | ” | ” | ५८ |
| २३ | प्रभु आदिजिन महाराया . | (सिद्धाचल) | देशी पातलिया | ५९ |
| २४ | प्रभु आदिनाथ स्वामी | | ” कव्वाली | ६० |
| २५ | गिरिराजदर्शपावेरे | | ” चाल-इतना सदेशा | ६१ |
| २६ | प्रभुमोहे अपना मनाना होगा . | देशी-प्यारेमोहनिया | | ६२ |
| २७ | प्रभुवीरजिनद . | (जुनागढ) | देशी-मुणो चदाजी | ६३ |
| २८ | पार्श्व प्रभु दिलमें निल्य धरिए | . समाच | | ६४ |

| | | |
|----|---|-----|
| २९ | प्रभुपार्श्वनाथजगस्वामी (मुवई-) देशी-लेलीलेली | ६४ |
| ३० | जिनदातोरे चरण .(मुवई चैत्यपरिपाटी) जगलो | ६५ |
| ३१ | तीर्थकरगुणगान-(मुवई यात्रापचीसी) लावणी | ६७ |
| ३२ | सपेसरस्वामीरे चाल-वालावेगे . | ६९ |
| | चलिहारी हितकारी (दूमरीडाल) . | ७१ |
| ३३ | हितकारी सुराकारी-गोडी पार्श्वनाथ- मुवई- | ७२ |
| ३४ | सेवोरे जिनदाप्यारा-शातिनाथपायधोनी मुवई | ७३ |
| ३५ | समथ जिन नाथजी (करचलिया) . . . | ७४ |
| ३६ | आदिनाथ जिनेसर-(क्षगडियातीर्थ) | ७५ |
| ३७ | सुमतिनाथ प्रभु (वैरावल) लावणी . . . | ७६ |
| ३८ | शोतलजिननाथजी (वनथली-सोरठ) . . . | ७६ |
| ३९ | मगलपुरमडन-(मागरोल) माढ . | ७७ |
| ४० | जिनदा तोरे चरण कमलकीरे (प्रभासपाटण) | ७८ |
| ४१ | ” (ऊना-सोरठ) | ८० |
| ४२ | सरणा धार लीया (अजारा-सोरठ) सुदरसामलिया | ८१ |
| ४३ | दीववदरमे श्रीजिनमदर (दीव वदर) लावणी | ८२ |
| ४४ | चिंतामणिपासजी नित्यवदोरे (टेलवाडा) | ८३ |
| ४५ | प्रभु दर्शन कोई भविजनपावे (महुवा) . . . | ८४ |
| ४६ | प्रभुगातिजिनसुखकारी (दाठा) | ८४ |
| ४७ | कररे कररे (तलाजा) शिंदकाफी-होरी . . . | ८५ |
| ४८ | सरणेतुम आयारे (अगासी) वालावेगे- | ८६ |
| ४९ | मुनिसुव्रत जिन तीर्थ सुहकर (अगासी) | ८७ |
| ५० | पासगोडी दरवाररे होरी | ८८ |
| ५१ | जिनदातोरे चरणकमलकीरे (सुरत-सगरामपुरा) | ८९ |
| ५२ | प्रभु आदिनाथ जगतार-मालकोश- | ९० |
| ५३ | वृपानाथअर्हन् (मातरतीर्थ) भैरवी-कव्वाली | ९२० |

सहाय सग्रह ।

| | | |
|---|-------------------------------|-----------|
| १ | जवूस्वामीसहाय-तीन डालमे . . . | ९१ से ९६ |
| २ | मनकमुनिसज्हाय | ९६ से १०० |

| | |
|-------------------------|-----|
| ३ वैराग्यपद | १०० |
| ४ गुह्यमुनि | १०१ |
| ५ फलदारस्वरूप | १०२ |

१०८ श्रीहंसविजयजी महाराज विरचित ।

| | | |
|--|-------------------------|------------|
| १ कावीतीर्थमन्वन | देशी-तीर्थघनी | १०४ से १०७ |
| २ श्रीशातिनाथ महाराया (मामरगोड) देशी पातर्नीया | | १०७ |

मुनिश्रीचतुरविजयजी विरचित ।

| | | |
|--|-------------------|-----|
| १ महाराीरन्वागीचैलयदन-संस्कृत | | १०९ |
| २ श्रीपार्श्वनाथस्वावन | ” | १०९ |
| ३ पार्श्वनाथ मुनि | प्राकृत | ११० |
| ४ श्रीवीरप्रभुमुनि | ” | १११ |
| ५ | संस्कृत | १११ |
| ६ सिद्धचक्रमुनि | ” | ११२ |
| ७ पशुपणापयमुनि | ” | ११३ |
| ८ श्रीपद्माश्रितामुनि | ” | ११४ |
| ९ मंगलाष्टक | ” | ११५ |
| १० हंसाश्रितानामयना | ” | ११६ |
| ११ मुनिमुद्रनम्हानीनामन-देशी-अरणािक | | ११७ |
| १२ महात्मारन्वागीनामन-देशी-अतिनविवादसु | | ११९ |

नवैया प्राणमुग्र विरचित ।

| | | |
|--|---------------------------|-----|
| १ महातीर जिनवर मेहरवानी | पहाडी-लावणी | १२२ |
| २ मोरे मदिमारे जाथो आओ महाराज | विहान-ताल अस्ता | १२२ |
| ३ श्रीगांगीजिनेश्वरसाहिबनी | पील्-कहना | १२३ |
| ४ मोहे प्याराप्रभुगे विगार लियारे | पील्-नीमटा | १२४ |
| ५ नापुवाके विशदा | गोरठ-दादरा | १२४ |
| ६ ज्येपरी ताए प्रभुके प्यारामे-पहाडी-लावणी | | १२५ |
| ७ ताणे मानो मेरी दाता परत-सिजोटी दादरा | | १२५ |
| ८ हीगनाथ अर्पके | भरनी-पचना | १२६ |
| ९ भग श्रीभग मोहे | गोमपटागो-दादरा | १२७ |
| १० वैराग्यपद | प.प.डी-श्रीगरी | १२८ |

ॐ

महामुनिराज श्रीमद्विजयानन्दस्वरि^१
प्रसिद्धनाम—श्री आत्मारामजी—महाराजजी विरचित
द्वादश भावना स्वरूप ।

दोहरा ।

पावन भावन मन वसी, सत्र दु ख भेटनहार ।
श्रवण सुनत सुख होतहै, भवजल तारनहार ॥ १ ॥

१ अथ अनित्य भावना

(सवैया-इकतीसा)

सध्यारग छिनभंग सजन सनेही सग
उडत पतंगरग चंद रविसगमे ।
तन कन धन जन उदधितरग मन
सुपनेकी सपतमें राक रमे रगमे ।
देखते ही तोरे भोरे रकको रे तोरे भये
राजन भिखारी भये हीन दीन नंगमें ।
वादरकी छाया माया देखते विनस जात ।
भोरे चिदानंद भूलो काहेकी तरगमें ॥ १ ॥
इंद चंद सुर विद आनन आनंद चंद
नरनको इंद सोहे नीके नीके वेसमें ।
उत्तम उत्तंग जोध जगमें अभंग मोध
घूमत मतंग रग राजत हमेसमे ।
रभा तरुखंभा जैसी माननी अनुप ऐसी
रसक दसक दिन माने सुख एसमें ।

परले पवन तृण उडत गगन जैसे
खबर न काहु वाहु गये काहु देसमें ॥ २ ॥

२ अथ दूसरी अशरण भावना ।

मात तात दारा भ्रात सजन सनेही जात
कोड नही त्रात भ्रात नीके देख जोयके ।
तन धन जोवन अनंगरग सग रसे
करम भरम बीज गये मूढ वीयके ।
नाम न निशान थान रान खान लेखियत
दरव गरव भरे जरे नंगे होयके ।
त्राता नही कोड ऐसे बलवंत जंत संत
अंतकाल हाथ मल गये सब रोयके ॥ १ ॥
साजन सुहाये लाख प्रेमके सदनबीच
हसे मोह फसे कसे नीके रंग लसे है ।
माननीके प्रेम लसे फसे धसे कीच बीच
मीचके हिडोले हीच मूढ रग रसे है ।
चपलासी झमक अनित वाजी जगतकी
रुंखनमे वास रात पंखी चहचसे है ।
मोहकी मरोर मोर ठानत अधिक ओर
छोर सब जोर सिर काल बली हसे है ॥ २ ॥

३ अथ तीसरी ससार भावना ।

राजा रक सुर कंक सुंदर सरूप भंक
रतिपतिरूप भूप कुष्ठ सरवंग है ।

अरि मरी मित धरी तात मात नारी करी
 रामा मात खरी करी धूआ वरी रग है ।
 उलट पलट नटवटकेसो खेल रच्यो
 मच्यो जगजालमे निहाल बहु रग है ।
 एते माहे तेरो जेरो कोउ नही भ्रम फेरो
 गेरो चिदानंद मेरो तूही सरवंग है ॥ १ ॥

रग चग सुस मंग रागलाग मोहे सोहे
 छिनकमें दोहे जोहे मौतही मरदके ।
 नीके वाजे गाजे साजे राजे दरवारहीमे
 छिनकमें कृक हूक सुनीये दरदके ।
 जगमें विहाल लाल फिरत अनादि काल
 सारमेय थाल जैसे चाटत छरदके ।
 मद भरे मरे खरे जगरमे परे जरे
 देखत नजरे धरे छरे है गरदके ॥ २ ॥

४ अथ चौथी एकत्व भावना ।

एक टेक पकर फकर मत मान मन
 जगतसरूप सब मिथ्या अंधकूप हे ।
 चारो गत भटक पटक सब रूप रग
 यति मति सति रति छति एकरूप है ।
 करमको घेरो गेरो नाना कछु नही तेरो
 मात तात भ्रात तेरो नाही कर चूप है ।
 चिदानंद सुखकंद राकाके पूरन चंद
 आतमसरूप मेरे तूही निज भूप है ॥ १ ॥

राग देस ठगभेस नारी राज भक्त देस
 कथन करन कर्म भ्रमका स हेतु है ।
 चंचल तरंग अंग भामनीके रग चंग
 उडत विहंग मन अति गरभेतु है ।
 मोहमें मगन जग आतम धरमठग
 चले जग मग जिय ऐसे दुःख लेतु है ॥ १ ॥
 नाक कान रान काट वाटमें उचाट ताट
 सहे गहे वंदी रहे दुःख भय मानने ।
 जोग रोग सोग भोग वेदना अनेक थोग
 परे विललाये दुःख लीये पीये जानने ।
 अपने कमाये पाप भोगनमें आये आप
 अंग जरे कुष्ट भरे इंदुवत आनने ।
 आपने करम करी दुःख रोग पीर परी
 मिथ्यामति कहे एतो किये भगवानने ॥ २ ॥

८ अथ आठमी सवर भावना ।

हिरदेमें ज्ञान धर पाप पत्र परिहर
 निहचे सरूप कर डर जर करसे ।
 आवत महान अध रोध कर हो अनघ
 आपने विकार तज भज कर भरसे ।
 करम पटल ढग तिनमांही देइ अग
 निकसत गुनदग आप पर ठरसे ।
 करम भरम जावे मोद मन बोध पावे
 ऐसा रस रसीया ते आरसकूं परमे । १ ॥

सत मत नव तत भेदाभेद वितहित
मीत जीत तीन नित तीन तेरे बोधके ।
तीन चीन मीन लीन उदक प्रवीन पीन
खीन दीन हीन तज रजकसुं सोधके ।
सत्ताको सरूप जान परणत भ्रम मान
निजगुन तान जेही महानंद सोधके ।
भ्रमजाल परहरे काहुकी न भीत करे
सजमके वारे मारे कर्म सारे रोधके ॥ २ ॥

९ अथ नवमी निर्जरा भावना ।

जैसे न्यारी सुध रीत छानत कनक पीत
डारत असुध लीत मोद मन कख्यो है ।
तैसेही सुधार यार करम पहार डार
मार मार चार यार लार तेरे पख्यो है ।
जौलो चित रीत नाही तौलो मिटे भीत नाही
कुगर डगर बीच लूटवेको खख्यो है ।
आत्म सियाने वीर करमकी मिटे पीर
परम अजीत जीत सिवगढ चख्यो है ॥ १ ॥

सत जत सील तप करम भरम कप
वासना सनेह गेह चितमें न धरीये ।
नरक निगोद रोग भोगत अनंत काल
माया भ्रमजाल लाल भवदधि तरीये ।
संकटमें पख्यो दुःख भख्यो मख्यो वसुधामें
चख्यो जग छोर भोर अब मन डरीये ।

चारत कंकन धर दोस दृष्ट दूर कर
अरहत ध्यान कर मोख वधू वरीये ॥ २ ॥

१० अथ दशमी लोक स्वरूप भावना ।

जामाधार नराकार भामरी करत यार
लोकाकार रूप धार कह्या करतारने ।
राज दस चार जान ऊच ताको परिमान
अधो विसतार राज सात है पतारने ।
घटत घटत मृत मंडलमें एक राज
पंचम सुरग मध्य पांच राज धारने
आदि अंत नही सत स्वयंसिद्ध रूप एतो
पट द्रव्य वास एही आपत उचारने ॥ १ ॥
नरक भवन खिति तनु वात धन मिति
वसत पतारवार करमके दोषमें ।
खिति आप तेज वात वन रन त्रस धन
विगल तिगल पसु पंखी अहि रोपमें ।
नर नारी भेसधारी धरमविहारी सारी
वीतराग ब्रह्मचारी नारी धन तोपमें ।
सुरगन सुख मन नाटक करत धन
धन धन प्रभु सिद्ध पूरे सुख मोपमें ॥ २ ॥

अथ ग्यारहमीधर्म भावना ।

खिमा कर तोप कर कपट लपट हर
मान अरि मारकर भार सब छोरके ।

सत परिमान कर पाप सब छारकर'
 करम इंधन जर तपधूनी जोरके ।
 तपोधन दान कर सील मीत चित्त धर
 निजगुन वासकर दस धम्म दोरके ।
 आत्म सियाने माने एह धम्मरूप जाने
 पाने जाने दोरे भोरे कलमल तोरके ॥ १ ॥
 असी चार लाख जोन खाली तिहा रही कोन
 वार ही अनंत जंत जिहां नही जाया है ।
 नवे नवे भेष धार रांक ढाक नर नार
 दुःख भुख मूक घूक ऊंच नीच पाया है ।
 राजा राना दाना माना सूरवीर धीर छाना
 अंतकाल रोया सब काल वाज खाया है ।
 तोहे समझाया अब औसर पुनीत पाया
 निजगुन धाया सोइ वीरप्रभु गाया है ॥ २ ॥

१२ अथ चारमी बोधिदुर्लभ भावना ।

सुदर रसीली नार नाककी वसनहार
 आप अवतार मार सुंदर दिदार रे ।
 इंद चंद धरणिद माधव नरिंद चंद
 वसन भूपन वृंद पाए बहु वाररे ।
 जगतके ख्याल रग वदरंग लालमाल
 मुगता ऊजाल डाल रिदेवीच हाररे ।
 एतो सब पाये मन भाये काम जगतके
 एक नहीं पाये विभु वीरवच ताररे ॥ १ ॥

सुंदर सिंगार करे चार चार मोती भरे
 पति विन फीकी नीकी निंदा करे लोकरे ।
 वदन रदन सित हृग विन फीके नित
 पग रित रित कित भूपनके थोकरे ।
 जीव विन काया माया दान विन सूम गाया
 सील विन वाया खाया तोष विन लोकरे ।
 तप जप ज्ञान ध्यान मान सनमान सब
 सम्यक दरस विन जाने सब फोकरे ॥ २ ॥

॥ इति द्वादशभावना विचार सम्पूर्ण ।



॥ अर्हम् ॥

॥ पंचतीर्थपूजा ॥



॥ दोहरा ॥

वीरजिनंद नमी करी, सिमरी सारदमाय ।
पंचतीर्थ पूजा रचुं, दर्शन शुद्धि उपाय ॥ १ ॥
तरना होवे जीवका, तीरथ कहिये तेह ।
पूजन करिये सुधकरी, मन वाणी अरु देह ॥ २ ॥
तीरथ नहि जग एक है, मै तो एक हि एक ।
भक्ति शक्ति पूजन करूं, तीरथ पांच विवेक ॥ ३ ॥
जंगम थावर भेदसे, तीरथ दो सुखकार ।
जगम तीरथ जानिए, विचरे उग्र विहार ॥ ४ ॥
जंगम तीरथ तारते, घर अंगण पद धार ।
नमन करो शुभभावसे, धन्य साधु अनगार ॥ ५ ॥
थावर तीरथ थिर रहे, आवे नहि चल आप ।
तिसकारण तीरथ भवी, जाय खपावे पाप ॥ ६ ॥
तीर्थकर गणधर यती, फरसी भूमी जेह ।
उत्तम उत्तम संगसे, कहिये तीरथ एह ॥ ७ ॥
अष्टापद सिधगिरि नमू, आवू अरु उज्जंत ।
तीर्थ समेतशिखर नमू, होय कर्मको अंत ॥ ८ ॥
पंच तीर्थके आदिके, अक्षर साथ मिलाय ।
करिये जाप सदा भवी, नमः असिआउसाय ॥ ९ ॥

(१)

पंचतीर्थपूजा ।

अट्टावय आईगिरी, आवू तह उज्जंत ।

मोक्खगिरी मिल आदिवर्ण, भवि ॐकार सुमंत ॥ १० ॥

उत्कृष्टी सब द्रव्यसु, आठ जघन परिमान ।

भविजन भावे कीजिये, पूजा श्रीभगवान ॥ ११ ॥

(१) अष्टापदतीर्थपूजा ।

दोहरा ।

अष्टापद कैलास है, जास धवलगिरि नाम ।

ऋषभदेव जस मंडनो, पूरण सुखको धाम ॥ १ ॥

सारग-केहरवा ।

(हमे दम देके सोतन घर जाना-चाल)

मेरे मन तीर्थ अष्टापद माना ।

अष्टापद माना अष्टापद माना मेरे मन तीर्थ-अंचली ॥

समवसरे प्रभु ऋषभ जिनदा ।

पूछा भरत प्रभुजीने वखाना-मेरे० १ ॥

अवसरपिणीमे मुझ सम होसी ।

वीस तीन जिन और सयाना-मेरे० २ ॥

भरते मणिमय विंव बनाये ।

निज निज देहरु रूप सुहाना-मेरे० ३ ॥

सुंदर मंदिर कांति मनोहर ।

देख सुनत भविजन मन माना-मेरे० ४ ॥

आदि जिनेश्वर मोक्ष सधारे ।

देव किया ओच्छव निरवाना-मेरे० ५ ॥

आतमलक्ष्मी तीर्थ अनुपम ।

वल्लभ हर्ष प्रभुगुण गाना-मेरे० ६ ॥

(२)

पंचतीर्थपूजा

दोहरा ।

संभवजिनवर आदि ले, चार आठ दंस दौय ।
दक्षिणदिशि आदि क्रमे, चउपासे जिन जोय ॥ १ ॥

झांझोटी-दादरा ।

(जाओ जाओ सैया मोसे न बोलो)

पूजो पूजो प्रभु तीर्थपति जग तारक भाव धरी ।
और नहीं जग कोई विना प्रभु वारक भाव अरि० पू०
पूजा प्रभुकी करी, सफल वो ही धरी ।
नाणुं मिले पिण टाणुं मिलेनहीं वात कही ए खरी पू० १ ॥
आतमशक्ति वरी, तिस भव मुक्ति ठरी,
यात्रा करे जो अष्टापद तीरथ भूचर आप चरी । पू० २ ॥
प्रभु तारण तरण तरी, तुम तीरथ भाव धरी ।
चक्री सगरसुत रक्षा निजातम कारण तीर्थ करी-पू० ३ ॥
केवली मुख उचरी, करुं आदर पाव परी ।
सूत्र वसुदेव हिडी आवश्यक पाठको अनुसरी । पू० ४ ॥
आतम लक्ष्मी भरी, खोट न आवे जरी ।
हर्ष अनुपम बल्लभ तीरथ तीर्थपति सिमरी-पू० ५ ॥

काव्य ।

ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः सम्मेतशैलाभिधः,
श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमा शत्रुञ्जयो मण्डपः ।
वैभारः कनकाचलोऽर्बुदगिरिः श्रीचित्रकूटादय-
स्तत्र श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ १ ॥

मत्र ।

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृत्यु-

(३)

पंचतीर्थपूजा ।

निवारणाय श्रीमते अष्टापदतीर्थमंडनाय श्रीऋषभादि-
चतुर्विंशतिजिनेन्द्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

गीत ।

पञ्जाबीटिका ठुमरी । रागिणी सरपरदा ।

(गोपाल मेरी करुणा क्यों नहीं आवे-चाल)

महावीरग्रभु मुखसे थूं फरमावे-महावीर-अंचली ।
अष्टापद तीरथ करे यात्रा रे । तिस भवमोक्षे जावे-म० १ ॥
गौतमस्वामी सुनकर आए रे । यात्रासे सुख पावे-म० २ ॥
पन्नरसो तापस प्रतिबोधे रे । शिवपुर वो भी जावे-म० ३ ॥
दर्शन शुद्धिकारण भवियां रे । तीरथ भेटो भावे-म० ४ ॥
आत्मलक्ष्मी निजगुण प्रगटे रे । बल्लभ हर्ष मनावे-म० ५ ॥

(२) श्रीसिद्धाचलतीर्थपूजा ।

दोहरा ।

विमलाचल विमला करे, सिद्धाचल भवि सिद्ध ।
शत्रुंजय अरि जयकरे, प्रगटे आत्म सिद्ध ॥ १ ॥

देश-त्रिताल-लावणी ।

(कर पकर प्रीतयुत बोलत नार सयानी । चाल)

शत्रुंजय तीरथनाथ नमो भविप्रानी,
नहीं तीरथ जगमें और कोई इस सानी । श-अं० ॥
जस महिमाका नहीं पार जाउं बलिहारी,
आदिजिन आए पूर्व नवाणु वारी ।
हुए सिद्ध प्रथम जिनराज प्रथम गणधारी,

पंचतीर्थपूजा ।

तिस कारण पुंडरिक नाम जपे नर नारी ।
महिमा सीमंधर देवने जास वखानी—नहीं० १ ॥
पांडव पट्ट देवकी पुत्र भरत बलवंता,
श्रीरामचंद्र निर्वाण ध्यान भगवंता ।
नारद शुक सेलक पुत्र थावच्चा संता,
हुआ सिद्ध अनंता जीव करी भव अंता ।
सिद्धाचल साचा नाम प्रभुकी वानी—नहीं० २ ॥
सुंदर नव तत्वस्वरूप टूंक नव जानो,
उत्तमगुण श्रीब्रह्मचर्य वाड नव मानो ।
नवपद महिमा नहीं पार ध्यान मन आनो,
आतमलक्ष्मी निजरूप हर्षको टानो ।
मुक्तिवल्लभ जिनदेव तीर्थ फरमानी—नहीं० ३ ॥

दोहरा ।

शाश्वत शिवसुख संपजे, तिण शाश्वत गिरि नाम ।
चंदन पूजन भावसे, लीजे पद अभिराम ॥ १ ॥

(काफी—प्रिताल—प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो)

भविजन अर्चन तीर्थ करो ।
समता सुमति धार हिये निज, भवभव पाप हरो—भ०अं०
तीरथयात्रा मनमल धोवा, निर्मल नीर झरो ।
पुरुषोत्तमगुण सिमरन करके, पुण्यभंडार भरो—भ० १ ॥
तनसे नीचा मनसे ऊचा, इसविध तीर्थ चरो ।
ऋषभ जिनंद जुहारी धारी, मन भवसिंधु तरौ । भ० २ ॥
तीर्थकर गणधर मुनि पुंगव, फरसे तीर्थ बरो ।

(५)

पंचतीर्थपूजा ।

सुर सुरपति नर नरपति सम्यग-दृष्टि माने खरो । भ० ३ ॥
कंचनगिरि कंचनसम निर्मल, आतमरूप धरो ।
शत्रुंजय शत्रुको जीती, फिर भवमें न फरो । भ० ४ ॥
जिनपूजन तीरथ सेवासे, आतम लक्ष्मी वरो ।
हर्ष अनुपम बल्लभ प्रभुके, चरनन नित्य परो । भ० ५ ॥

काव्य ।

ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः सम्मेतशैलाभिधः,
श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमा शत्रुञ्जयो मण्डपः ।
वैभारः कनकाचलोऽर्बुदगिरिः श्रीचित्रकूटादय-
स्तत्र श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ १ ॥

मंत्र ।

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृत्यु-
निवारणाय श्रीसिद्धगिरितीर्थमंडनाय श्रीमते श्रीऋषभदेव-
जिनेंद्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

गीत ।

(दरवारी कानडा-ताल दादरा ठुमक चलत रामचद्र)

पुजन करत तीर्थराज आनके सुमतियां-पु० अं० ॥
हिल मिलकर मिलत भाय, शुद्ध धर्म मन मनाय,
गावो गावो जिनंदराय, गुणगणकी वतियां-पु० १ ॥
ठुमक ठुमक नाच नाच, एक चित्त तान राच,
एक एही प्रभुसे जाच, न फिरुं चउगतियां-पु० २ ॥
संघसाथ भरतराय, छैः री पारी तीरथ आय,
औरभी यही ठाठ बनाय, आवत संघ ततियां-पु० ३ ॥

(६)

पंचतीर्थपूजा ।

आतम लक्ष्मी कारण ईस, तीर्थ पूजे अहरनीस,
हर्ष पामी नामी सीस, बल्लभ प्रभु नतियां-पु० ४ ॥

(३) अर्बुदाचलतीर्थपूजा ।

दोहरा ।

अर्बुदगिरि तीरथ नमू, आदिजिनंद दयाल ।
विमलसाह मंत्री कियो, मंदिर अति हि रसाल ॥ १ ॥

(पहाडी-लावणी-जो घरि जावे प्रभुके ध्यानमें)

जो दिन जावे भविका तीर्थमें उत्तम वो मानी ।
सारमें सार यही सागारमें अनगारमें आचारमें
परमार्थ पिछानी-जो दिन० अंचली ॥
गाम आवू देलवारे, अनुपम मंदिर चारे,
करन यात्रा पुण्यवारे, समकितदृष्टि होवे जो
सागारमें अनगारमें आचारमें परमार्थ पिछानी-जो० १ ॥
विमल मंत्री बनवाया, मंदिर आदि जिन राया,
नेमि मंदिर सुखदाया, वस्तुपाल तेजपाल होया
सागारमें आचारमें विचारमें परमार्थ पिछानी-जो० २ ॥
चतुर्मुख दर्शन पामी, दर्श करो महावीरस्वामी,
मिले पद आतमरामी, बल्लभ हर्षे लक्ष्मी ज्ञानागारमें
अनगारमें आचारमें परमार्थ पिछानी-जो० ३ ॥

दोहरा ।

मनमोहन जिनघर खरो, मन मोहन जिनदेव ।
मनमोहन पूजा रची, मनमोहन फल लेव ॥ १ ॥

(७)

पंचतीर्थपूजा ।

(गजल-कन्नाली । चाहे बोलो या न बोलो)

पूजन तो कर रहाहूँ, चाहे तारो या न तारो-अं० ॥
प्रभु तीर्थस्वामी तुम हो, निज तीर्थ आदि तुम हो ।
तुम तीर्थ आ रहाहूँ, चाहे तारो या न तारो-पू० १ ॥
प्रभु ध्येय नाम तुमरा, ध्याता है नाम हमरा ।
तुम ध्यान ला रहाहूँ, चाहे तारो या न तारो-पू० २ ॥
मंत्री विमलको कीनो, विमलात्मरूप पीनो ।
मैं भी वो चा रहाहूँ, चाहे तारो या न तारो-पू० ३ ॥
मंत्रीजी वस्तुपाला, लघु भाई तेजपाला ।
तस नेमि गा रहाहूँ, चाहे तारो या न तारो-पू० ४ ॥
सुख चार सुख वर्षे, प्रभु आत्मलक्ष्मी हर्षे ।
वल्लभ तो पा रहाहूँ, चाहे तारो या न तारो-पू० ५ ॥

काव्य ।

ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः सम्मत्तशैलाभिधः,
श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमा शत्रुञ्जयो मण्डपः ।
वैभारः कनकाचलोऽर्बुदगिरिः श्रीचित्रकूटादय-
स्तत्र श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ १ ॥

मत्र ।

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृत्यु-
निवारणाय श्रीअर्बुदाचलतीर्थमंडनाय श्रीमते श्रीऋषभादि-
जिनेन्द्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

गीत ।

(मालकोस-त्रिताल-मुखमोरमोर-)

जिन पूज पूज सुख पाय जात ।

(८)

पंचतीर्थपूजा ।

मन शुद्ध साफ कर अपनो गात-जिन० अंचली ॥
तीर्थकी महिमा मेरे मन भाई, देख देख मनुवा हुलसाई ।
किये जात करमनको घात-जिन० १ ॥
मूर्ति प्रभुकी रसीली दश चारी, चौद राज ऊपर आधारी ।
चले जात भवि दिनन रात-जिन० २ ॥
कुमारपाल सुंदर जिनमंदर, मूलनायक शांतिजिन अंदर ।
धन नर नार जो करत जात-जिन० ॥ ३ ॥
पदवी अचल अचलगढ पावे, आतमलक्ष्मी अति हर्षावे ।
वल्लभ ए जिनमतकी वात-जिन० ३ ॥

(४) उज्जयंततीर्थपूजा ।

दोहरा ।

उज्जयंत गिरनार है, रैवतकाचल नाम ।

नेमिनाथ भगवानका, धाम परमपदधाम ॥ १ ॥

(पीछ-रवा-ताल केहरवा, नाथ निज नगर देखाडोरे ।)

नाथ गिरनारके पूजोरे । सरण है अनाथ-

करो तुम साथ नाथ गिरनारके पूजोरे । अंचली ॥

दीक्षा केवल मोक्ष ए तीनो, कल्याणक जिन कहियेरे ।

तीर्थकर श्रीनेमिनाथ, वर्तमान सिमरियेरे-सरण० १ ॥

आठ नमीश्वर आदि जिनवर, गत चोवीसी भजियेरे ।

भव्य अनेक गिरिसेवासे, शिवपुर सजियेरे-सरण० २ ॥

मूर्ति रत्नमयी प्रभुनेमि, इंद्र पाससे लइयेरे ।

चैत्य वनावी विधिसे भरते, स्थापन करियेरे-सरण० ३ ॥

वल्लभी भंगे शक्र आदेशे, काति अंबिका हरियेरे ।

पंचम आरा अंते सुरपति, स्वर्गमें धरियेरे-सरण० ४ ॥

(९)

पंचतीर्थपूजा ।

कल्याणक ही अनंता इण गिरि, त्रय त्रय पाठ उचरियेरे ।
आतम लक्ष्मी हर्ष चरण जिन, वल्लभ परियेरे—सरण० ५ ॥
दोहरा ।

पाठ कल्प गिरनारका, आगामी बावीस ।
पद्मनाभादि जिनवरा, होंगे सिद्ध जगीस ॥ १ ॥
दीक्षा केवल मोक्ष ए, कल्याणक तिग सार ।
होंगे रैवतकाचले, दो जिनके सुखकार ॥ २ ॥
सोरठ—दादरा

दीनके दयाल नेमिनाथ सरन चाउं—दी० अंचली ॥
एक ही नाम जिनवरका, दूसरा न गाउं ।
नाथके तीरथ पर तो, एक चित्त आउं—दी० १ ॥
पूजिये रंग गरव हरी, भावसे जनाउं ।
संपदा वंदन फल हो, आत्मरूप पाउं । दी० २ ॥
ध्यान है सार अरहनका, चित्तमें समाउं ।
आत्मलक्ष्मी वल्लभ सीस, हर्षसे नमाउं—दी० ३ ॥
काव्य ।

ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः सम्मत्तशैलाभिधः,
श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमा शत्रुञ्जयो मण्डपः ।
वैभारः कनकाचलोऽर्बुदगिरिः श्रीचित्रकूटादय-
स्तत्र श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ १ ॥
मन्त्र ।

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृत्यु-
निवारणाय श्रीमते श्रीउज्जयंततीर्थमंडनाय श्रीनेमिनाथ-
जिनेन्द्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

पंचतीर्थपूजा ।

गीत ।

(धरवा-कहेरवा धन धन वो जगमें नरनार-)

धन धन नेमिनाथ भगवान

भवोदधिपार लगानेवाले-धन० अंचली ॥

रैवतकाचल सिरदार, तुमे त्यागी राजुल नार ।

झट त्याग दियो संसार, पशुगण जान वचानेवाले-ध० १ ॥

प्रभु नेमि बालकुमार, लियो वचपनसे ब्रह्म धार ।

दियो आवागमन निवार, तरण तारण पद पाने वाले-ध० २ ॥

दीक्षा अरु केवल ज्ञान, हुओ सहसावन मैदान ।

उज्जितशिखर निर्वाण, तीर्थ गिरनार वसानेवाले-ध० ३ ॥

तीरथयात्रा गुणखान, आतमलक्ष्मीको निदान ।

पूजो हर्षे भगवान, प्रभु बल्लभ गुण गानेवाले-ध० ४ ॥

(५) श्रीसम्मेतशिखरतीर्थपूजा ।

दोहरा ।

पार्श्वनाथके नामसे, ए गिरि जग परसिद्ध ।

तीर्थकर अनजन करी, वीस हुए है सिद्ध ॥ १ ॥

(माळ-रूपभजी धाने मनरी बातं-)

चेतनजी प्यारा पूजनहारा समेतशिखर गिरिराज-अं० ॥

वीसे टूके वीस जिनेश्वर सोहेजी म्हाराराज रे

काइ चरण सुहंकर भविजनके मन मोहेजी म्हारा० १ ॥

तीनसो आठके संगजी म्हाराराज रे काइ

पद्मप्रभुजी शिववधु वरिया रंगजी म्हारा० २ ॥

(११)

पंचतीर्थपूजा ।

- पांचसो मुनि परिवरियाजी म्हाराराज रे कांइ
महि सुपारस शिवमुख इणगिरि चरियाजी म्हारा०
एकसो आठसु धर्मजी म्हाराराज रे कांइ
नवसो साथे शांतिनाथ शिव शर्मजी म्हारा० ४ ॥
पारस तेत्तीस साथजी म्हाराराज रे कांइ
आतम लक्ष्मी हर्ष बल्लभ जगनाथजी म्हारा० ५ ॥

दोहरा ।

तीर्थकर मोक्षे गए, मोक्ष गिरि तिणे नाम ।
कारण कारज नीपजे, आलंवन विसराम ॥ १ ॥

(सोहनी-सिद्धगिरि तीर्थपर जानाजी)

सम्मेद शिखर गुण गानाजी । गानाजी सुख
पानाजी सम्मेद शिखर गुण गानाजी । अंचली ॥
चालु चोवीसी वीस सुहंकर ।
तीर्थकर निर्वानाजी-सम्मेद० १ ॥
अजित संभव अभिनंदन सुमति ।
चंद्र सुविधि नमि मानाजी-सम्मेद० २ ॥
कुंथु अर शीतल श्रेयांसा ।
सुव्रत सहस प्रमानाजी-सम्मेद० ३ ॥
रस मुँनि सहसके साथे मुक्ति ।
विमल अनंत जिन रानाजी-सम्मेद० ४ ॥
आतमलक्ष्मी हर्ष धरीने ।

पंचतीर्थपूजा ।

काव्य ।

ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः नम्भेतर्गैलाभिधः,
श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमा शत्रुञ्जयो मण्डपः ।
वैभारः कनकाचलोऽर्जुदगिरिः श्रीचित्रकूटादय-
स्तत्र श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मद्गल्म ॥ १ ॥

मय ।

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृत्यु-
निवारणाय श्रीमते श्रीसम्भेतर्गैलामंडनाय त्रिगुण-
जिनेन्द्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

गीत ।

(कल्याण-चिदानंद विदारोने कृति श्रीं श्रीं)

प्रभुपद पूजो भविजन हितकारी-अंशुश्री ॥

वामा नंदन वंदन पूजन, भयोदधि पार उवागी । प्र० १ ॥

सामलापारस तीर यन्वामी, समेत शिखर बलिहारी-प्र० २ ॥

वदन कमल पर वीरता सोढे, शशिसम कांति निहारी-प्र० ३ ॥

निर्मल हंस समा प्रभु गजे, संपन्न निजसमकारी-प्र० ४ ॥

आत्मलक्ष्मी प्रभुता प्रगटे, गदम ह्य अपारी-प्र० ५ ॥

कलश ॥

(मंत्रा)

तीर्थ गुण गाओ आनंदे, तीर्थ भवित्रीय
तीर्थ दोय भेदमे जाओ, शत्रुञ्जय अना
कहे नहीं पार जम शत्रु, भयो भवि

पंचतीर्थपूजा ।

केसरीया भोयणी चंगा, शंखेश्वरापास तारंगा ।
 पंचासरा पार्श्व गंधारा, कावी अंतरिक्ष अंजारा ॥ २ ॥
 झगडिया पानसर ऊना, राणकपुर मक्षीजी जूना ।
 नाडोल नाडलाई वरकाणा, मूछाला वीरजी नाणा ॥ ३ ॥
 राजग्रही काशी श्री चंपा, पावापुरी वीर दुःख कंपा ।
 मांडव गजपुर माणकस्वामी, चारुप वैभारगिरि नामी ॥ ४ ॥
 स्तंभन नवखंडा पल्लविया, नवलकखा पास सामलिया ।
 इत्यादि तीर्थ नहीं पारा, गावो गुण शक्ति अनुसार ॥ ५ ॥
 तपागच्छ नाम दीपाया, श्रीविजयानंद सूरिराया ।
 न्यायाभोनिधि विरुद पाया, श्रीआत्माराम जग गाया ॥ ६ ॥
 विजयलक्ष्मी गुरुदादा, विजय श्री हर्ष गुरुपादा ।
 लघु तस शिष्य सुखदाया, वल्लभ पंचतीर्थ गुण गाया ॥ ७ ॥
 युग युग वेद केर थाया, संवत महावीर जिनराया ।
 आत्म चौबीस छबीसी, कमी विक्रम सय ^{३००} धीसा ॥ ८ ॥
 एकादशी दिन गुरुवारे, मास माघ पक्ष उजियारे ।
 मुंबई श्रीसंघ जयकारी, हुई प्रेरणा मंगलकारी ॥ ९ ॥
 मुनि कांति विजय राया, प्रवर्तक पदको दीपाया ।
 रही इनके चरण छाया, तीर्थगुण लेश दरसाया ॥ १० ॥
 सुधारी भूलचुक लेना, सज्जन मोहे जान करदेना ।
 मिच्छामिदुक्कडं भाखे, वल्लभ गोडी पार्श्वकी साखे ॥ ११ ॥

॥ इति ॥



उपाध्याय श्रीयशोविजयजी महाराज विरचित पार्श्वजिन स्तवन

पूजा विधि माहे भावियेजी, अंतरंग जे भाव ।
ते सवि तुज आगल कहंजी, साहेव सरल स्वभाव ।

सुहंकर अवधारो प्रभु पास सु० १ ॥

दातण करतां भाविएजी, प्रभु गुण जल मुख सुद्ध ।
उल उतारी प्रमत्तताजी, हो मुज निर्मल बुद्ध । सु० २ ॥

जतना स्नान करीजीएजी, काढो मेल मिथ्यात्व ।
अंगुछो अंग शोपवीजी, जाणुं हुं अवदात । सु० ३ ॥

क्षीरोदकना धोतियाजी, चिंतवो चित्त संतोष ।
अष्टकर्म संवर भणेजी, आठ पडो मुख कोप । सु० ४ ॥

ओरसीओ एकाग्रताजी, केसर भक्ति कळोल ।
श्रद्धा चंदन चितवोजी, ध्यान घोल रंगरोल । सु० ५ ॥

भाल वहुं आणा भलीजी, तिलक तणो तेह भाव ।
जे आभरण उतारिएजी, ते उतारो परभाव । सु० ६ ॥

जे निर्माल्य उतारीए जी, ते तो चित्त उपाधि ।
पखाल करता चिंतवोजी, निर्मल चित्त समाधि । सु० ७ ॥

अंगलूहणां वे धर्मनाजी, आत्म स्वभाव जे अंग ।
जे आभरण पहेराविएजी, ते स्वभाव निज अंग । ८ ॥

जे नव वाड विशुद्धता जी, ते पूजा नव अंग ।
पंचाचार विशुद्धताजी, तेह फूल पंचरंग । सु० ९ ।

दीवो करतां चितवोजी, ज्ञान दीपक सुप्रकाश ।
(१५)

नय चिंता घृत पूरियुंजी, तत्व पात्र सुविशाल । सु० १० ।
 धूप रूप अति कार्यताजी, कृष्णागरुनो जोग ।
 शुद्धवासना महमहेजी, ते तो अनुभव योग । सु० ११ ॥
 मद स्थानक अड छांडवाजी, तेह अष्ट मंगलीक ।
 जे नैवेद्य निवेदीएजी, ते मन निश्चय ठीक । सु० १२ ॥
 लवण उतारी भाविएजी, कृत्रिम धर्मनो त्याग ।
 मंगल दीवो अति भलोजी, शुद्ध धर्म पर भाग । सु० १३ ॥
 गीत नृत्य वाजिंत्रनोजी, नाद अनाहद सार ।
 शम रति रमणी जे करीजी, ते साचो थेइकार । सु० १४ ।
 भाव पूजा एम साचवीजी, सत्य बजावो रे घंट ।
 त्रिभुवन माहे विस्तरेजी, टाले कर्मनो कंट । सु० १५ ॥
 एणीपरे भावना भावतांजी, साहेव जस सुप्रसन्न ।
 जन्म सफल जग तेहनो जी, तेह पुरुष धन धन्य । सु० १६ ।
 परम पुरुष प्रभु शामलाजी, मानो ए मुज सेव ।
 दूर करो भव आमलाजी, वाचक जस कहे देव । सु० १७ ।



॥ अहम् ॥

न्यायांभोनिधि जैनाचार्य श्री १०८ श्रीमद्विजया-
नन्दसूरि (आत्मारामजी) महाराज शिष्य
प्रवर्तकश्री १०८ श्रीकांतिविजयजी
महाराज विरचित
स्तवन तथा सज्जाय संग्रह ।

॥ श्रीमहावीरस्वामीनु स्तवन ॥

॥ हुमरी ॥

महावीर तेरे पदपंकजमें, मनमधुकर मेरो अटक रह्योरी १
काल अनत जग झुरत झुरत, ए रस पानसँ रोग गयोरी २

दशदिशि भावतिमिर दुख दायक,

दस नख रवि उदयमें दूर गयोरी ॥ ३ ॥

भवि जन मागण मनोवांछित पूरक,

सुरद्रुम समझके स्वरगी ययोरी ॥ ४ ॥

चौसठसुरपति नमनके मिससँ, भालकलंकको भूस गयोरी ५
समवसरण शोभा पूरणको, चितामणि ज्युं चमक रह्योरी ६
मुक्तिरमणी मुख इनमे देख्या, हाससँ हीरोने सान गह्योरी ७
जनम जरामरण मरुतपमें, कांतिसुधारस कुंड भयोरी ॥ ८ ॥

॥ इति ॥

नय चिंता घृत पूरियुंजी, तत्व पात्र सुविशाल । सु० १० ।
 धूप रूप अति कार्यताजी, कृष्णागरुनो जोग ।
 शुद्धवासना महमहेजी, ते तो अनुभव योग । सु० ११ ।
 मद स्थानक अड छांडवाजी, तेह अष्ट मंगलीक ।
 जे नैवेद्य निवेदीएजी, ते मन निश्चय ठीक । सु० १२ ॥
 लवण उतारी भाविएजी, कृत्रिम धर्मनो त्याग ।
 मंगल दीवो अति भलोजी, शुद्ध धर्म पर भाग । सु० १३ ।
 गीत नृत्य वाजित्रनोजी, नाद अनाहद सार ।
 शम रति रमणी जे करीजी, ते साचो थेइकार । सु० १४
 भाव पूजा एम साचवीजी, सत्य वजावो रे घंट ।
 त्रिभुवन माहे विस्तरेजी, टाले कर्मनो कंट । सु० १५ ॥
 एणीपरे भावना भावतांजी, साहेव जस सुप्रसन्न ।
 जन्म सफल जग तेहनो जी, तेह पुरुष धन धन्य । सु० १६
 परम पुरुष प्रभु शामलाजी, मानो ए मुज सेव ।
 दूर करो भव आमलाजी, वाचक जस कहे देव । सु० १७



॥ अहम् ॥

न्यायांभोनिधि जैनाचार्य श्री १०८ श्रीमद्विजया-
नन्दसूरि (आत्मारामजी) महाराज शिष्य
प्रवर्तकश्री १०८ श्रीकांतिविजयजी
महाराज विरचित
स्तवन तथा सज्ज्ञाय संग्रह ।

॥ श्रीमहावीरस्वामीनु स्तवन ॥

॥ हुमरी ॥

महावीर तेरे पदपंकजमें, मनमधुकर मेरो अटक रह्योरी १
काल अनत जग झुरत झुरत, ए रस पानसँ रोग गयोरी २

दशदिशि भावतिमिर दुख दायक,

दस नख रवि उदयसे दूर गयोरी ॥ ३ ॥

भवि जन मागण मनोवाछित पूरक,

सुरद्रुम समझके स्वरगी थयोरी ॥ ४ ॥

चौसठसुरपति नमनके मिससँ, भालकलंकको भूस गयोरी ५

समवसरण शोभा पूरणको, चितामणि ज्युं चमक रह्योरी ६

मुक्तिरमणी मुख इनमे देख्या, हाससँ हीरोने सान गह्योरी ७

जनम जरामरण भरुतपमें, कातिसुधारस कुंड भख्योरी ॥८॥

॥ इति ॥

॥ चौवीस जिनस्तवन ॥

(आदित्ये अरिहत—सातवारनी देशी)

- पडवे प्रथम जिनेश्वरो भवि भावोरे,
 आ नाभि मरुदेवीनो नंद प्रभु चित्त लावोरे ॥ १ ॥
- वीजे ते बहु बलवान अजित जिन राथारे,
 जेना काम क्रोध कलि कूड कपट ते पलायारे ॥ २ ॥
- त्रीजे त्रिभुवन नाथता प्रभु पामीरे,
 संभव सुखकारी आज कहुं शिर नामीरे ॥ ३ ॥
- चोथे चित्र चरित्र स्वमुखथी सुनावोरे,
 जेथी अभिनंदन पद आश मनने मनावोरे ॥ ४ ॥
- पंचमीए प्रेमे करी प्रभु सेवो रे,
 आ सुमतिनाथ शिवसाथ जनमनो मेवोरे ॥ ५ ॥
- छठे छजीवनी कायनी करे जतनारे,
 आ पद्मप्रभु जिनराज नमे बहु मतनारे ॥ ६ ॥
- सातमे भयनां स्थान सात निचारोरे,
 नमे भक्तिभावे भविलोक तेहने तारोरे ॥ ७ ॥
- आठम आठ जे कर्म दुःख देनारारे
 आ चंद्रप्रभु मुखचंद्र दिठे न रहेनारारे ॥ ८ ॥
- नवमे नवमंगल मुनिमंडल शिर सोहेरे,
 आ सुविधि सुविधि भगवान जगत मन मोहेरे ॥ ९ ॥
- दसमे दसदस स्थान समाधि आपोरे,
 आ शीतल करो भवि लोक शीतल उल्लापोरे ॥ १० ॥
- अगीआरसे अंग अगीआरनी प्रभुवाणीरे,
 श्रेयासे श्रेयसकामी सभामां वखाणीरे ॥ ११ ॥

वारसे वार उपांग प्रभुजी भणावोरे,
 आ वालुपूज्य भगवान आगम ते गणावोरे ॥ १२ ॥
 तेरसे त्रिभुवन नाथ विमल मति दातारे,
 आ अनंत धर्म ने शाति कुंधु विख्यातारे ॥ १३ ॥
 चउदसे चउदस पूर्वधरोना स्वामीरे,
 अर मल्लि सुव्रत नमिनाथ अंतरजामीरे ॥ १४ ॥
 पूनमे पूरणानंद नेमी अविकारीरे,
 परमेसर पारसनाथ जगत हितकारीरे ॥ १५ ॥
 अमासे अंतिम वीर वचन सतकारीरे,
 गुरु गौतम ज्ञान भंडार काति सारीरे ॥ १६ ॥

॥ इति ॥

॥ मुंढई चैत्यपरिपाटी स्तवन ॥

(बढस—हम क्यों छोड चले वन माधो—चाल)

जनमसफलअवहमरोमानुं, मुंवापुरीतीरथमनआनुं-अंचली ।
 गोडीपांस निरास न कीजे, आश धरि तोरे पास पख्यो रे ।
 शरणागत शरणो तोहे दीनो, इतनो कहो मन ठाण ठख्योरे १
 वीर धीर मोहे धीरज दीजो, कर पकडो शिर हाथ धरोरे ।
 नयन निहारो नैभिके नंदन, शातिजिनंदं मोहे शात करोरे २
 नेमि निरजन जनमन रंजन, भवभजन प्रभु पंच खरोरे ।
 पच जिनालय पायधोनी पर, पाप हरे जिन पाय परो रे ॥ ३ ॥
 गुलालवाडी चिंतामणि मलियो, धर्म चितामणि सहज थयोरे
 लालवाग चितामणि पामी, दुरगति दिनडो दूर गयो रे ॥ ४ ॥
 गोडीपांस सुपांस ऋपभप्रभु, दर्श करी मन हर्ष भयो रे ।
 वालकेश्वर जिन चैत्य जुहारी, जनम मरण जंजाल गयो रे ॥ ५ ॥

कोट कोलावे अचिरानंदन, अचिरानंदन नंद वखोरे ।
 वर्धमान वली वामानंदन, झौहरी वजारे समाधि भखोरे ॥ ६
 मांडवी वंदर शोभे सुंदर, अनंत जिनंद अरि अंत करोरे ।
 वृपलांछन लांछन नहि तुमरे, लांछन विनु मोहे दान वरोरे ७
 भांयखले निर्मले अति सुंदर, आदिजिनंदजीको ढरज लियोरे ।
 युग-ऋषि-निधि-शशी-वर्षे हर्षे, कार्तिक पूनम स्तवन कियोरे ८
 विजयानन्द सूरि महाराजा, सेवक पद् दश अरज करेरे ।
 कांतिविजय वल्लभपरिवारा, मास चतुर हृदि ध्यान धरेरे ॥ ९

॥ इति ॥

॥ मुंबई पायधोनी मंडन श्रीगोडीपार्श्वनाथ जिन स्तवन ॥

(रामकली-आगणे कल्प फल्योरे-देशी)

पास गोडीजी मल्योरे मारे तो प्रभु पास गोडीजी मल्यो रे
 कांति मनोहर वल्लभ जगने, चतुर ने लाभ फल्योरे-मारे १
 सोहन विमल कस्तूर सुगंधी, उमंग कुरंग गल्यो रे-मारे २
 मेघ विज्ञान जिन विद्या विचारो, पुण्य समुद्र छल्योरे मा ३
 गुण सागर भवसागर तारक, आत्म कांति कल्यो रे-मारे ४
 वेद मुनि निधि शशी दर्शन पामी, मोहको जोर टल्योरे-मा ५

॥ इति ॥

॥ श्रीसिद्धाचल तीर्थ

(वढस-नाथ कैसे गजको फ

लेचल मोहे मिलन
 सख होवत तर् ॥ २

चाहत चित्त न औरकछु हमरो, छोर तीरथ अरचनको ।
 कुमति कुटिल वस हो रह्यो आतम, सुमति पुकारे नाथनको १
 द्राविड वारिखिल्ल दश कोटि, मुगति कातिक पूनमको ।
 नमि विनमि कोटि दो गये मुगति, दशमी श्वेत फागुणको २
 अजित शांती जिन कियोरी चउमासो, तपसि अनेक श्रमणको
 मुनिगण शिव सुख रसभर भरियो, आतमराम मगनको ३
 पूर्वनवाणु सित अष्टमी फागुण, विचरणो आदि जिनंदको ।
 पुंडरिक गणकोटि पंचको लेकर, छडदियो अरिके वतनको ४
 पारंगत पद आसो पूनमको, पांडव आदि कोटि विशनको ।
 जाव प्रद्युम्न शुक शैलक नारद, गये मुगति राज्य लेननको ५
 राम भरत सुभद्र शमीश्वर, नरपति ऋषभ कुलनको ।
 केवल रत्न यत्न कर लीनो, तप करी त्यज दियो तनको ६
 पाति सहस वसुदेवकी नारी, शिव वधु साथ खेलनको ।
 गिरिवर गुणको पार न पावे, केवली करेजो कथनको ॥ ७
 उभयलोक आराधक साधक, सुख संपत त्रिभुवनको ।
 इहलोके लोकेश धनेश्वर, परमेश्वर तपोधनको ले० ॥ ८ ॥
 गोपुर नगर कियो है चउमासो, चिंतामणि पास चरणको ।
 आतमराम रमण फल दीजो, काति विजयके भजनको ॥ ९

॥ इति ॥

१ सवत् १९४९-नु चोमासु गुजरावाला (पजाव) मां कयुं हतु सारे
 आ स्तवन यनाव्यु हतु ॥

॥ गुजरांवालामंडन श्रीपार्श्वजिन स्तवन ॥

(वरदा-अथवा पीढ)

आयिकुन नांव तुमची कडे आला,
घेउन दर्श पसंद मन झाला ।

मुलगा जानुन वोळव प्रभु माला,
चिंतामणि सोडुन मि सांगु कोनाला ॥ आ० १ ॥

पाहयला सर्प वीस्तुमदि नाहि मेला,
मंत्र दिला चांगली गति गेला ।

बोधि देउन तुमि कमठ पाठिवला,
फार अपराध मूरख यानी केला ॥ आ० २ ॥

पूरण त्याचे मनोरथ झाले,
वार्षिकदान यानी मांगितले ।

दयानिधि दान देउन दाखिवला,
चिंतामणि चिंतामणि लाजिवला ॥ आ० ३ ॥

कर वर कल्प तरुवर तुमचा,
सेवा केली त्याच्या फल दे सेवकला ।

माजेवेलि मौन करुन का तु वसला,
गुणलेस आस माला नका देउ सगला ॥ आ० ४ ॥

फार फिरुन मि इकडे आला,
नांव नगर आहे गुजरांवाला ।

राहिलो सेजारी निजगुण देउ माला,
आत्म कांति अमंद रसाला ॥ आ० ५ ॥

॥ इति ॥

॥ अमृतसर मंडन श्रीअरनाथ जिन स्तवन ॥

(अरणिक मुनिवर चाल्या गोचरी-देशी)

अर जिनवरजीरे अरजी उर धरो, सेवक कहे शिर नामी रे ।
 तुज विना मुजनेरे अवर न आसरो, शिवदो भव शिवस्वामीरे
 तुज मुज मननी रे धइगइ एकता, वचने अति स्वीकार रे ।
 जाति एकेरे व्यक्ति विभिन्नता, भेदान्वय द्यो प्रहार रे ॥ २
 पुद्गलरसियोरे वसियो वेगलो, गतिगति गरता कूप रे ।
 तुज करुणा गुण ग्रही इहां आवियो, द्यो दर्शन निजरूप रे ३
 अंतरजामिरे अंतर किम करो, अंतर कारक वारो रे ।
 निरंतरतारे शुद्ध विरागता, तारक आपी तारो रे । अ० ४
 अमृतसर मंडन तुज अंगणे, हठ करी बेठो आज रे ।
 अमृतवाक्येरे रजो आतमा, कातिविजय जयराज रे ॥५॥
 ॥ इति ॥

॥ अमृतसर मंडन श्रीअरनाथ जिन स्तवन ॥

(अजित जिनदसु प्रीतडी-देशी)

अरजिनवर मुज मन वसो, नवि जाजो हो पलभर परधामके ।
 अंतरअरि तुम वारजो, ज्युं प्रगटे हो निज आतम रामके । १
 भावतीर्थपति तीर्थमें, तीर्थोदक हो किधा जे स्नानके ।
 ते पण तुम सरिखा थया, मुजने पण होजो नाथ निदानके २
 हरि हर ब्रह्म पुरंदरा, वळी रवि शशी हो पडिया जस पायके ।
 ते रतिपति तुम मारियो, तुम वसतां हो मनमथ मम जायके ३
 तुममुख देखी भीतिभरे, ते अरिगण हो अंतर समुदायके-४
 काल अनादि केडे पड्यो, दृग देज्यो हो जेहयी ते पलायके-४

आ कारण प्रभु आवियो, मत करजो हो ज्युं लागे वारके ।
अमृतसरपति दीजियो, कांतिने हो विजयानंद सारके ।५।

॥ इति ॥

॥ अमृतसर मंडन श्रीशीतलनाथ जिन स्तवन ॥

(माढ)

जीयारे शीतल जिनपति मूर्ति मनहर लागीरे,
सुखकारी महाराज शीतल ।

जिनपति मूर्ति मनहर लागीरे मना-अंचली-

जीयारे मानुं हूं चंदन नंदनवन वैरागी रे सुख० ॥ १ ॥

जीयारे मानुं कपूरे स्थिरपनो दियो त्यागी रे सुख० ॥ २ ॥

जीयारे मानुं कमलदल शीतलजल वडभागी रे सुख० ॥ ३ ॥

जीयारे मानुं मुछित हिमगिरि गंगा लागी रे सुख० ॥ ४ ॥

जीयारे मानुं स्नानोदक स्पर्शी शशी भागी रे सुख० ॥ ५ ॥

जीयारे मानुं ऋतु ग्रीष्मादिक एकता जागी रे सुख० ॥ ६ ॥

जीयारे मानुं अमृतसर पदपंकज रागी रे सुख० ॥ ७ ॥

जीयारे मानुं काति आत्म पद अनुरागी रे सुख० ॥ ८ ॥

॥ इति ॥

॥ पट्टीनगरमंडन श्रीमनमोहन पार्श्वजिन स्तवन ॥

(लावणी-अपने पदको तजकर-देशी)

पासप्रभु तेरे चरण कमलमें, मन भमरो मेरो लिपटगयो ।

उडता नहीं छडके करें क्या, और कमलरस निकलगयो १

तुमगुण मकराकर मनमेरो, मछलीरूप हो गमन करे ।

कछु पार न पावे, करो कुछ करुणा तो नेडे आवे पा० ॥ २ ॥

चामानंदन नामहै चंदन, वंदकजन मन ताप हरो ।

अजरामरदाता, करो क्युं देर कर्मको दूर करो पा० ॥ ३ ॥
 सेवकको अपनो पद दाता, तू माता भ्राता ताता ।
 सबजीवनके हो, मुझेभी जगगुरुका तुमसे नाता पा० ॥ ४ ॥
 पट्टी नगर महाराज विराजे, वाजतहै गाजेवाजे ।
 उडरहे निसानो, छनाछन छेने वजे दुर्मति लाजे पा० ॥ ५ ॥
 मनमोहन कामन तुम कीनो, औरनसे मन हरलीनो ।
 आगमरस पाई, करो ज्युं आनंदघन होवे पीनो पा० ॥ ६ ॥
 तपगच्छमंडन दुर्मतिखंडन, मुनि मंडल युत नमन करे ।
 आत्म गुरुराया, दियो गुण कांतिविजय भंडार भरे ॥ ७ ॥

॥ इति ॥

॥ पट्टी नगरमंडन श्रीविमलनाथजिनस्तवन ॥

(लावणी-अपने पदको तजकर चेतन-देशी)

जिनपति विमल विमल पद भागी, विमल नामपर है रागी ।
 जस सुमति जागी, करे सो पूजन जो है वडभागी ॥ १ ॥
 गंगाजल निर्मल तुम वाणी, स्नान करत ज्ञानी प्राणी ।
 अतरगुणखानी, सुने नहीं जो झूठे हैं अभिमानी ॥ २ ॥
 शांत सूरत मूरत अति नीकी, चंदकी ज्योत पडी फिकी ।
 विच काली लिकी, आप हो मुगतिराणी शिर टिकी ॥ ३ ॥
 तुंही हमारो अंतरजामी, जगविसरामी गुणधामी ।
 निर्नामी स्वामी, पूजें जो होवतहै मुगतिगामी ॥ ४ ॥
 करुं ध्यान दिनरात तुमारो, पकड हाथ मुझको तारो ।
 आत्मपदधारो, कांतिको करदीजो अपनो प्यारो ॥ ६ ॥

॥ इति ॥

॥ जीरामंडन श्रीचिंतामणिपार्श्वजिन स्तवन ॥

(लावणी-अपने पदों तजकर चेतन-देशी)

चिंतामणि चित चिंता चूरो, मनवंचित हमरो पूरो ।
 तूं दानी शूरो, कल्पतरु दूरगयो जानी वूरो ॥ १ ॥
 दृग दीजे करुणा कुछ कीजे, ज्यूं कारज हमरो सीजे ।
 खुशमुख बोलीजे, और कछु दाम धाम नहीं मंगीजे ॥ २ ॥
 तूं दिनकर तमहर भविजनको, नंदनवन चंदन घनको ।
 रसकस है तनको, इनीसे शीतलता सज्जनमनको ॥ ३ ॥
 शीलसुभट खटपटियो जानी, पंचवाण आयो तानी ।
 मदनो मदमानी, काटदियो अंग अनंगपदवी मानी ॥ ४ ॥
 दुंदुत दुंदुफिरत अव पायो, जीरा नगरमें जव आयो ।
 तनमन वच गायो, वने ज्यूं करलीजो अव गत कायो ॥ ५ ॥
 घूमें चंद्र वदनपर तोरे, गगन गयो अमृत चोरे ।
 किरणोंसे कोरे, लोककी अखियोंको अंजन जोरे ॥ ६ ॥
 विजयानंद विजयपदआसा, चरननमें है चौमासा ।
 मुनिमंडलपामा, दीजिए कांतिविजयको निज वासा ॥ ७ ॥

॥ इति ॥

॥ श्रीसिद्धाचलजी तीर्थ रायण वृक्ष ऋषभचरण स्तवन ॥

(आसावरी-कहेरवा-देशी-मधुर स्वर क्याधी आ सभलय)

मेरेतो जाना शीतल रायणछाय ॥ अंचली ॥
 मरुदेवीनंदन शीतलचंदन, रजीत ऋषभना पाय मे० ॥१॥
 नीलवरण दल निर्मल माला, गिववधु खडीरही आय मे०२॥
 क्यारी कपूर सुधारस सींची, मानुं हिमगिरिराय मे० ॥३॥

सुरतरु सुरसम भोगको दाता, यह निजगुण समुदाय मे०॥
आत्म अनुभव रस इहा प्रगटी, काति सुरनदी काय मे०॥

॥ इति ॥

॥ श्रीपुंडरिक गणधर स्तवन ॥

(असाजरी-वहेरवा-देशी-मधुरस्वर क्याधी आ सभलाय)

मेरेतो जिना तेरोही चरण आधार ॥ मे० अंचली ॥

पुंडरिक गणधर पुंडरिकपद धर, पुंडरिकपद करनार ॥१॥

पुंडरिक गिरिपर पुंडरिक पावन, पुंडरिक प्रभुको विहार २

पुंडरिक कमलासन प्रभु राजत, पुंडरिक कमलको हार ॥३॥

पुंडरिक ध्यावुं पुंडरिक गावुं, पुंडरिक पोवुं हृदि मार ॥४॥

पुंडरिक आत्मराम स्वरूपी, पुंडरिक काति जयकार ॥५॥

॥ इति ॥

॥ वीकानेरमंडन श्रीअजितनाथजिनस्तवन ॥

(प्रभाति-देशी-विमलाचल नितु बदिए)

अजित जिनेश्वर चरणको, शरणो है हमारे ।

मंगलमाला मौलिमें, मोरी कौन निवारे ॥ अ० १ ॥

मुगति रमणी रमणता, रसरसियो विराजे ।

नीरागी रागी भयो, ईश नाम न लाजे ॥ अ० २ ॥

करुणाकर करुणा करी, मुज निजगुण दीजो ।

त्रिभुवन तारक तारीने, जरा जग जस लीजो ॥ अ० ३ ॥

धर्मी धर्म धुरधरो, परधर्म निवारो ।

धर्म सुधारस पाइने, भवपार उतारो ॥ अ० ४ ॥

संवत दश नव चौवने, आसो कृष्ण उदारा ।

काति वीकानेर वंदीयो, तृतीया शनिवारा ॥ अ० ५ ॥

॥ इति ॥

॥ श्रीआदि जिनस्त्वन ॥

(देखी-जीरे मारे)

जीरे मारे दरशन दिनमणि आज,

मरुदेवी नंदन मन रम्यो जीरेजी ।

जीरे मारे अंतर तिमिर निवार,

तिमिरारि तिमिरने ना गम्यो जी० ॥ १ ॥

जीरे मारे तूं गुणमणि भंडार,

सुरमणि मृन्मणि धड गयो जीरेजी ।

जीरे मारे तूं निजपद दातार,

देखी सुरतरु तरु थयो जीरेजी ॥ २ ॥

जीरे मारे समवसरणनी सीख,

भगवती भगवती दिल धरूं जीरेजी ।

जीरे मारे ताच्या प्राणी अनेक,

हूं पण आशा ए करूं जीरेजी ॥ ३ ॥

जीरे मारे भरतादिक संतान,

शिव सपत सरिखा कख्या जीरेजी ।

जीरे मारे तुम आगम परिमाण,

भाव भजन भगति भख्या जीरेजी ॥ ४ ॥

जीरे मारे हूं रे अनाथी जीव,

नाथ निहारो नयणथी जीरेजी ।

॥ श्रीआवूजी तीर्थस्तवन ॥

(देशी-जिनवर पास पियारो फलोधी वालोरे,)

जिनवर ऋपभ पियारो, ऋपभ पियारो मोहनगारो
आवू वारोरे के जिनवर० ॥ अंचली ॥

चमत्कार चंद्रोदयेरे, वारी पडियो गगन सतारोरेके ॥ १ ॥

हीरा लाल मोतीलडीरे, वारी छत्र करत छनकारोरेके ॥ २ ॥

मणिमंडल मंडित कस्योरे, वारी मुगट करत झलकारोरेके ३

चंद्र सूर कर्पूरकोरे, वारी रसकस मुखपर सारोरेके ॥ ४ ॥

संवत् निधि शशी वावनेरे, कांइ फागण शुक्ल जुहारोरेके ॥ ५

कांतिविजय पद दीजिएरे, कांइ नाथ न होनो न्यारो रेके ६

॥ इति ॥

॥ श्रीवीकानेर चैत्यपरिपाटीस्तवन ॥

(देशी-पनीहारीनी-भारवाही)

तीरथ वीकानेरनी मारा वालाजीरे,

वंदू तीरथमाल हृदयरसाल वालाजी ।

संमैतशिखर गोडीश्वरो मारा०,

नाभिनंद दयाल वामालाल वालाजी ॥ १ ॥

भांडासर सुमैतीश्वरो मारा०,

चौमुख प्रतिमा चार गोख विहार वालाजी ।

रवि शशी तीहां दर्शन करी मारा०,

भूमंडल करे सार जगत उजार वालाजी ॥ २ ॥

श्रीसिमंधर नेमिनी मारा०,

चैत्य अतिमनोहार त्रिभुवनतार वालाजी ।

वासुपूज्य महावीरजी मारा०,
 शांति चिंतामणि सार जगदाधार वालाजी ॥ ३ ॥
 जिनघर पच पंकज समो मारा०,
 विचमे श्रीमहावीर मेरुधीर वालाजी ।
 पद्मप्रभु सखेश्वरो मारा०,
 ऋपेभजी शांतिशरीर मानुं खीर वालाजी ॥ ४ ॥
 संसम प्रभुने नित्य नमुं मारा०,
 कुंथु धरम नो नाथ धरज्यो हाथ वालाजी ।
 चंद्रप्रभु चंदनसमो मारा०,
 ऋपभे अजितनी गाथ शिवसुखसाथ वालाजी ॥ ५ ॥
 पौंसप्रभु वृषलाछनो मारा०,
 शांति सुधारस सार दुरगतिवार वालाजी ।
 कातिविजय करजोडीने मारा०,
 नवदेशे वावन धार नमो निरधार वालाजी ॥ ६ ॥
 ॥ इति ॥

॥ श्रीआवू तीर्थस्तवन ॥

(देशी पनीहारी-मारवाही)

आवू अचल निर्मल भलो मारा वालाजीरे,
 देलवाडो दिलदार स्वर्ग विसार वालाजी ।
 नेमि निरंजन नाथनुं मारा०,
 चैत्य अति मनोहार वोधिकार वालाजी ॥ १ ॥
 मृगपति आसन शोभतो मारा०,
 त्रिभुवन तारणहार गिरिशृंगार वालाजी ।

शांत समाधि रसे भख्यो मारा०,
 समरसनो दातार धर्माधार वालाजी ॥ २ ॥
 पूरण पुण्ये पामीयो मारा०,
 कर करुणा महाराज शिवपुरसाज वालाजी ।
 पंचम आरे प्राणीनां मारा०,
 क्युंकर सरसे काज राखो लाज वालाजी ॥ ३ ॥
 राजिमती रथनेमिजी मारा०,
 ज्युं दीधो आधार त्युं मुझ तार वालाजी ।
 पशुपर तुमे करुणा करी मारा०,
 मुजपर क्युं न लगार टलवलुं द्वार वालाजी ॥ ४ ॥
 यदुपतिनंदन वंदना मारा०,
 चंदनशीत शरीर योगी वीर वालाजी ।
 कांतिविजय करदीजिए मारा०,
 जावे जंगम पीर भांगे भीर वालाजी ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

॥ श्रीअचलगढतीर्थ स्तवन ॥

(प्रभाति-देशी-विमलाचल नितु वदिए)

नयने अचलगिरि निरखियो, मन अति हरखायो ।
 मानुं परमाणु पुण्यनो, ए पुंज रचायो न० ॥ १ ॥
 मरुदेवीनंदन मंडनो, जस शिरसि सुहायो ।
 मेरु चतुर्दश रूपथी, मानुं मिलनको आयो ॥ २ ॥
 ऊर्ध्वगति ध्वज दाखवे, जो वंदन आवे ।
 मुगतिपुरि आरोहवा, सोपान सोहावे न० ॥ ३ ॥

सिद्धिवधुवरमंडपे, घट कंचनकेरो ।

चउ गतिचूरण चौमुखो, टाले भवफेरो न० ॥ ४ ॥

दुर्गति दुर्मति दुष्कृति, करुणा कर वारो ।

सुरतरु आगणमें फल्यो, जरा कांति निहारो न० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

॥ सिरोहीचैत्यपरिपाटी स्तवन ॥

(होरी, सामरा सुखदाई-देशी)

प्रभुजीसे प्रीति लगाई, सुमति मोरी अतिहरखाई अंचली ॥
पास आस पूरे भविजनकी, जीराबलो जग भाई ।

चितामणि चित चिंता चूरे, इन विच क्या है नवाई ॥१॥

शातिजिनेश्वर मूर्ति मनोहर, जगगुरु पदवी पाई ।

नांभिनरेश्वरनंदन निरख्यो, मुगति वधुकी वधाई प्र० ॥२॥

गोडीपास सखेश्वर साहब, कीर्ति जगमें गवाई ।

कुंथु कल्पतरु वीर जिनेश्वर, शीतल ऋंपभ सवाई ॥ ३ ॥

पद्मप्रभ जिन सुमति सुहंकर, अजित चितामणि पाई ।

सभवे नेमिजिनंद दयालु, ऋंपभ श्रीवीर दुहाई प्र० ॥४॥

नगर सिरोही सुरपुरी मानुं, जिनघर हार हीराई ।

कातिविजय प्रभुचरणकमलको, दर्शन जगत वडाई ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

॥ श्रीनवपदजीनुं चैत्यवंदन ॥

महामंत्र अधिराजना, धूरिपदे अरिहंत ।

अतिशय गुणगण गुंफिता, महिमंडल विचरत ॥१॥

भेद भूभृत भेदीने, सिद्ध थया भगवान ।
 लोकालोक प्रकाशवा, लखलोचन अतिभान ॥ २ ॥
 तीरथपति तीरथतणा, तीर्थ चलावन हार ।
 गणधर गुरुगम ज्ञानना, सूरीश्वर भंडार ॥ ३ ॥
 वाचक वाणी रसभरी, वाचंयम आधार ।
 पंचम पदपंकज नमुं, करणत्रिक अणगार ॥ ४ ॥
 दर्शन ज्ञान संयम तप, सुरमणि सम दातार ।
 निरंतर नवपद नमुं, कांतिविजय शृंगार ॥ ५ ॥
 ॥ इति ॥

॥ श्रीसिद्धचक्र स्तुति ॥

अरिहंत महंता, सिद्ध सिद्ध भगवंत,
 सूरीश्वर वाचक, मुनिगुण भर नहीं अंत,
 दरसन पद पूजो, ज्ञान भान अति सार,
 संयम तप तरणी, अंतरतिमिर निवार ॥ १ ॥
 शासनपति सोहे, तीरथना करनार,
 वंदन पडिक्कमणुं, कीजे करिय विचार,
 पडिलेहण पूजन, जपमालानो जाप,
 निधि नवनी संपद, आवे आपोआप ॥ २ ॥
 तीर्थकर गणधर, समवसरण मोजार,
 नवपद वर्णननो, कहे न आवे पार,
 नवपदरसलीनो, नवपदरूपी थाय,
 भव नवमे मुक्ति, मयणानो पति जाय ॥ ३ ॥

गण सुरवर केरो, विघ्न निवारे दूर,
 एकाशी आंविल, जे करसे भरपूर,
 तस डाकण साकण, भूत पिशाच निवारे,
 आधि ने व्याधि, दुर्जन दूर विदारे ॥ ४ ॥
 ॥ इति ॥

॥ श्रीनवपदजी स्तवन ॥

(देशी-प्रथम जिनेश्वर प्रणमीए)

अरिहंतपद मन ध्याइये, ध्याता ध्येयस्वरूप ।
 वेधक वेधविशेषधी वरणनी एकता, ध्याता कंचनरूप ॥१॥

पारगत परमेसरो, परमानंद अमंद ।

तुजगुण एकनी संतति सतति सुखकरे,

जनम मरण नहीं कंद ॥ २ ॥

गुणरत्नाकर गणधरा, दिनमणि सम जस रूप ।

चरणसरोरुहे मनमधुकर मारो लगरह्यो,

दीजो दिल मुनिभूप ॥ ३ ॥

पाठक अंग उपागना, नानाभंग विचार ।

नय निक्षेप सुधारस सींची शिष्यने,

जड करे जलजाकार ॥ ४ ॥

अरिमह्य मोहने मारवा, महाव्रत असि अतिधार ।

तेज दिवाकर तमहर निरखीने नाशियो,

मुनि करे उग्र विहार ॥ ५ ॥

दर्शन धर्मतुं मूल छे, दर्शन धर्म आधार ।

श्रद्धादिक सत साठ विभेदे प्रणामिये,

जस विना करणी विकार ॥ ६ ॥

दिनमणि दश शत शतगुणे, जस सम कदीय न थाय ।

सो श्रुतज्ञान प्रमाण जगतगुरु मानियो,

प्रणमो भवि दिल लाय ॥ ७ ॥

संयमपद सुरगविसमो, तस रस पीवनहार ।

परपुद्गल दल वमन विरेचन विरची,

मुनि कियो मुगति प्रचार ॥ ८ ॥

शिववधुमेलक मेलको, तपपद सेव सुसेव ।

धारक धर्मनुं धाम निवारक कर्मनो,

सेवे देव सदेव ॥ ९ ॥

ए नव पद ऋद्धि नव निधि, विधि श्रीपाल नरेश ।

आतमराम विराम सुधाम धनीश्वरो,

कीजो कांति शिवेश ॥ १० ॥

॥ इति ॥

॥ गोधामंडन श्रीनेमिनाथ जिन स्तवन ॥

(क्षिप्रोटी-जिला)

क्या छवी लागत प्यारी, शिवादेवी नंदनकी,

शिवतरुकंदनकी, क्या छवी लागत प्यारी ॥ अं० ॥

झुलरह्यो चंद्र वदनपर प्रभुके,

अमीरस भरदीनी क्यारी ॥ क्या० ॥ १ ॥

त्रिभुवन तिलकको तिलक सुनेरी,

विच मोतियनकी किनारी ॥ क्या० ॥ २ ॥

मणिमय मुकुट सकुंडल राजत,
 अंजन अखीयां कारी ॥ क्या० ॥ ३ ॥
 पंचरतन रची अंगीयां नीकी,
 फूलपगर भरी झारी ॥ क्या० ॥ ४ ॥
 गोघा नगर प्रभु चरणकी छाया,
 कातिविजय चलकारी ॥ क्या० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

॥ गोघामंडन श्रीनवखंडा पार्श्वजिन स्तवन ॥

(देशी-प्यारा पासजी हो राज)

नवखंडाजी हो पास, मनडुं लोभावी वेठा आप उदान ॥ अं०
 तारे तो अनेक छे ने मारे तो तूं एक ।
 कामी क्रोधी देव जोड़, कहाडीनांखी टेक ॥ न० १ ॥
 कोई देवी देवतानो, झाली उभी हाथ ।
 मोहडे मांडे मूरलीने, नाचे राधानाथ ॥ न० २ ॥
 जटाजूटा शिर धारे, वली चोले राख ।
 गलेतो गिरिजाने राखे, जोगीपनो खाख ॥ न० ३ ॥
 पीरने फकीर जोया, निरगुणी देव ।
 काचकणी मणि गणी, आतो खोटी देव ॥ न० ४ ॥
 देव देखी झूठडाने, आव्योछुं हजूर ।
 गुण आपो आपना तो, कांति भरपूर ॥ न० ५ ॥

॥ इति ॥

॥ गोघामंडन श्रीनवखंडा पार्श्वजिन स्तवन ॥

(वणजारानी देशी)

समतारस शीतल छाया, गोघा मंडन जिनराया,

चामा उदरे प्रभु जाया, सुरगिरिपर सुरपति लाया,
तति सब मिल स्नान कराया, पूजा करी दिल हर्पाया,
जब मंगल शोर मचाया ॥ गोघा० ॥ १ ॥

शची सखीयां मिल गुण गाया, तली तालमें तान बनाया
करकंकण फूल उडाया, घुमरही कटीकृति काया,
नृत्य नयनसे नयन मिलाया ॥ गोघा० ॥ २ ॥

जोवन मद मदन हराया, व्रत ले जिनमत उलसाया,
तीरथपति नाम धराया, जो सरणागत प्रभु आया,
मुग्तिका पंथ दिखाया ॥ गोघा० ॥ ३ ॥

तारक तुझको सुण आया, शिर चरण सरण मैं पाया,
कछु वोलत नाही बुलाया, रुसिये मत मुनिपतिराया,
मुझको तुझसे है माया ॥ गोघा० ॥ ४ ॥

जिनराज तुमे नही माया, चित कैसे आप चुराया,
मत औरनसे भरमाया, चिदघनरस अंतर आया,
कहे कांतिविजय सुख पाया ॥ गोघा० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

॥ गोघामंडन श्रीचंद्रप्रभस्वामी स्तवन ॥

(अडल-छंदनी चाल)

चंद्रप्रभु महाराज सुनो मोरी विनती,
जानो दीनदयाल तथापि कहुं कृति ।

प्राणी प्राण प्रपात मृषा मुखे उचछुं,

विन दीधे पिन लीध सुशील न दिल धछुं ॥ १ ॥

परिग्रह बलग्यो पिशाच क्रोधानलं गुण दह्यो,
 आठ शिखरी अभिमान कुटिल अजगर ग्रह्यो ।
 लोभ पयोनिधि धूर राग पासे पड्यो,
 द्वेष कुक्केश कृपाणी कटारी लडथड्यो ॥ २ ॥
 कूडं दीधुं आल पिशुनता न परिहरी,
 सुख दुख हर्ष ने शोक निंदा परनी करी ।
 मायामृषा धरी वाद शरीरी भोलव्यो,
 सेवी विपर्यय तत्त्व सुतत्त्वने ओलव्यो ॥ ३ ॥
 कहाड्यो काल अनंत ए थानक आदरी,
 निज करी कर्मनी जाल गुंथाणो फरी फरी ।
 कर करुणा करुणाकर जालथी नीसरुं,
 मान धरी वेठा आप हवे हुं शुं करू ॥ ४ ॥
 तारो तेहने नाथ गुणे जे वरोवरी,
 निर्गुणी करीए सनाथ बडाई तो खरी ।
 रडवडु चरणहजूर दया नथी आवती,
 कातिविजय पूरो आश दिलासो गोघापति ॥ ५ ॥
 ॥ इति ॥

॥ श्रीऋषभदेवजिन स्तवन ॥

(देशी-बीदडी-तुमे सिद्ध चक्र पदप्यावोरे)

ऋषभजिनंद अवधारो,
 मुझे भवजलपार उतारो रे जिनजी ऋषभ० अंचलि॥
 प्रभु सेवक सुखीयो कीजो,
 जगगुरु गुरुपदवी दीजोरे जिनजी ॥ १ ॥

चामा उदरे प्रभु जाया, सुरगिरिपर सुरपति लाया,
 तति सब मिल स्नान कराया, पूजा करी दिल हर्पाया,
 जब मंगल शोर मचाया ॥ गोघा० ॥ १ ॥

शची सखीयां मिल गुण गाया, तली तालमें तान बनाया
 करकंकण फूल उडाया, घुमरही कटीकृति काया,
 नृत्य नयनसे नयन मिलाया ॥ गोघा० ॥ २ ॥

जोवन मद मदन हराया, व्रत ले जिनमत उलसाया,
 तीरथपति नाम धराया, जो सरणागत प्रभु आया,
 मुगतिका पंथ दिखाया ॥ गोघा० ॥ ३ ॥

तारक तुझको सुण आया, शिर चरण सरण मै पाया,
 कछु बोलत नाही बुलाया, रुसिये मत मुनिपतिराया,
 मुझको तुझसे है माया ॥ गोघा० ॥ ४ ॥

जिनराज तुमे नही माया, चित कैसे आप चुराया,
 मत औरनसे भरमाया, चिदघनरस अंतर आया,
 कहे कांतिविजय सुख पाया ॥ गोघा० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

॥ गोघामंडन श्रीचंद्रप्रभुस्वामी स्तवन ॥

(अडल-छदनी चाल)

चंद्रप्रभु महाराज सुनो मोरी विनती,
 जानो दीनदयाल तथापि कहूं कृति ।
 प्राणी प्राण प्रपात मृपा मुखे उच्युं,
 विन दीधे पिन लीध सुशील न दिल धरुं ॥ १ ॥

परिग्रह बलग्यो पिशाच क्रोधानल गुण दह्यो,
 आठ शिखरी अभिमान कुटिल अजगर ग्रह्यो ।
 लोभ पयोनिधि धूर राग पासे पड्यो,
 द्वेष कुक्केश कृपाणी कटारी लडथड्यो ॥ २ ॥
 कूडं दीधुं आल पिशुनता न परिहरी,
 सुख दुख हर्ष ने शोक निंदा परनी करी ।
 मायामृपा धरी वाद शरीरी भोलव्यो,
 सेवी विपर्यय तत्त्व सुतत्त्वने ओलव्यो ॥ ३ ॥
 कहाड्यो काल अनंत ए थानक आदरी,
 निज करी कर्मनी जाल गुंथाणो फरी फरी ।
 कर करुणा करुणाकर जालथी नीसरुं,
 मौन धरी वेठा आप हवे हुं शुं करु ॥ ४ ॥
 तारो तेहने नाथ गुणे जे वरोवरी,
 निर्गुणी करीए सनाथ वडाई तो खरी ।
 रडवडुं चरणहजूर दया नथी आवती,
 कांतिविजय पूरो आश दिलासो गोघापति ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

॥ श्रीऋषभदेवजिन स्तवन ॥

(देशी-वीदडी-तुमे सिद्ध चक्र पदध्यावोरे)

ऋषभजिनंद अवधारो,
 मुझे भवजलपार उतारो रे जिनजी ऋषभ० अंचलि॥
 प्रभु सेवक सुखीयो कीजो,
 जगगुरु गुरूपदवी दीजोरे जिनजी ॥ १ ॥

त्रिभुवनपति नाम धरावो,
 रडवडु पण दिल न लावोरे जिनजी ॥ २ ॥
 गति गमन रमणता कीधी,
 पण नाथ नजर नवि दीधीरे जिनजी ॥ ३ ॥
 वली कुगुरु कुदेवने ध्यायो,
 मन कुमति कुधर्मे ल्यायोरे जिनजी ॥ ४ ॥
 तप परिचय सर्व निवाख्यो,
 तुम आगम अंतर धाख्योरे जिनजी ॥ ५ ॥
 करुणा करी शिरपर दीजो,
 निज अंगज ज्युं करी लीजोरे जिनजी ॥ ६ ॥
 निजवर्ग सभी तुमे ताख्यो,
 अव कांतिविजयनो वारोरे जिनजी ॥ ७ ॥

॥ इति ॥

॥ श्रीशांतिनाथ जिन स्तवन ॥

(रामवली-आगण कल्प फल्योरी देशी)

अचिरानो नंद मल्योरी हमारे आज अचिरानो ॥ अं० ॥
 सवर जल निर्मल भरी कलशे, सिंचत पाप टल्योरी ह०॥१
 चिदघन चंदन रुचि घनसारा, मृगमद भाव भल्योरी ह०२
 हार मनोहर संयमकरणी, शील सुगंध ढल्योरी ह० ॥ ३ ॥
 ध्यान सुवासित धूपकी धारा, कुमति कुगंध वल्योरी ह०॥४
 ज्योति प्रकाशी तिमिर विनाशी, ज्ञानावरणी गल्योरी ह०५

निजगुण तंदुल समरस मेवो, तपतरु सफल फल्योरी ह०॥६
आरती मंगल अनुभव दीवो, कांति स्वभाव कल्योरी ह०॥७

॥ इति ॥

॥ श्रीसिद्धाचल तीर्थराज स्तवन ॥

(होरी-सामरो मुखदाई-देशी)

कंचनगिरि दर्शन पाई, मुगति मोरी नेडे आई ॥ अंचली ॥
ऋषभादिक प्रभुचरण जुहारी, जय गिरिराज वधाई ।
मरुदेवानंदन वंदन कीनो, धनपति टूंक बनाई ॥ मु० १ ॥
सेठ मोतिशानी टूंक सुराजत, राजत रंग सवाई ।
ऋषभजिनंद दयानिधि निरख्यो, जिनसे तीर्थ वडाई ॥ २ ॥
टूंक मनोहर मनहर लीनो, नरशी केशवजीकी भाई ।
दर्श करी फरी शांति जुहारो, शिवसुख पदवी पाई ॥ ३ ॥
मोतीहार विहार विमलवसी, उर्वशी हसी हसी आई ।
धसी धसी नाथ सुनंदानो नमिये, गणधर रायण आई ४
चित्त उलसी वालावसी नमिये, भाव भलो मन लाई ।
नाभिनरेश्वर नंदन नीको, बेठो तीरथ ठाई ॥ मु० ॥ ५ ॥
गगन भगन गंगाजल गिरगयो, हेमगिरि बेठो आई ।
मरुदेवा अंगज मंदिर रचियो, साकर प्रेम कमाई ॥ ६ ॥
टूंके अजित जिनेश्वर राजा, सधपति हेमाभाई ।
नंदीश्वर आज नयने निरख्यो, धन्य तूं उजम वाई ॥ ७ ॥
सेठ मगनभाई टूंक सुरगी, पास चिंतामणि पाई ।
छीपावसी क्षण क्षण मन आवे, 'शांति अजित नवाई ॥ ८ ॥

खरतरवसी जस शशीसम छाया, परिकर किरणा छाई ।
 आदिविधाता शासनकेरो, चउविध वेठो वनाई ॥ मु० ९॥
 कातिक पूनम वेद वाण निधि, शशीवर्षे नुति गाई ।
 कांतिविजय आतमपद लीनो, कर्म काटनमें सहाई ॥१०॥

॥ इति ॥

॥ धीजामनगर चैत्यपरिपाटी स्तवन ॥

(प्रभाति-देशी-विमलाचल निवृ वदिए)

जामनगर तीरथ नमुं, अचिरासुत राजे ।
 रजतगिरि गुरुमंदिरे, वेठा धर्मसमाजे ॥ जा० ॥ १ ॥
 शाति कुंथु मणिफणीधनी, चउमुख चउदुख चूरे ।
 पास वीर नमि नेमजी, निजसंपद पूरे ॥ जा० ॥ २ ॥
 ऋपभ वीर वासुपूज्यजी, नेमि इयामदारीरा ।
 शशिधर धर्म जीरावलो, गोडी गंग सखीरा ॥ ३ ॥
 वासुपूज्य मुज भुज ग्रहो, भवदवने समावो ।
 ऋपभ पास मुख जिनवरा, क्षण क्षण मन आवो ॥ ४ ॥
 नेमि निरजनी अंजनी, मन मंजनहारी ।
 तीर्थपति नमुं वारमो, प्राणी पाप पहारी जा० ॥ ५ ॥
 धर्म जिनेश्वर वंदीने, गोडीपास जुहारुं ।
 परिकर जिनवर पूजीने, नमुं तीरथ तारुं जा० ॥ ६ ॥
 पास प्रभु गृहमंदिरे, नमी प्रणमुं वगीची ।
 अजित ऋपभ कांति वनि, मानु रविकर वीची जा०॥७॥

॥ इति ॥

॥ श्रीप्रभास पादणतीर्थ चैत्यपरिपाटी स्तवन ॥
(बढस-अमतो पारभए हम साधु-देशी)

घरिया सफल भइ अब मेरी,
जब सुरपुरी मोरे नजर परीरे ॥ अंचली ॥
शशिव्रुति शशियुत शशिप्रभु निरसी,
शशिसम आतमराम थयोरे ।
गुणनिधि सुविधि जिनंद मोहे मिलियो,
कलिमल कुविधि कलंक गयोरी ॥ घ० ॥ १ ॥
अचिरानंदन शीतलचंदन,
शीतल सेवक क्यों न करोरी ।
वामानंदन विनती मोरी,
भवतरुकंदन ख्याल धरोरी ॥ घ० ॥ २ ॥
युगलिकधर्म निवारक तारक,
ऋषभजिनंद तोरे पाय परूरी ।
करिवर अंकित कर्मनिरकित,
अजित जिनंदजीको ध्यान धरूरी ॥ घ० ॥ ३ ॥
मल्लिजिनंदको दर्श सुधारस,
पान कखो भवरोग हरोरी ।
गोयम गणहर गुरुगम दीनो,
वीरजिनंद मोहे चैरो करोरी ॥ घ० ॥ ४ ॥
नेमिनिरजन भवदुखभंजन,
कातिविजय सुख धाम धरोरी ।

पंचं वैाण निधिं शैशी महामासे,
तीर्थपति नुति पाप हरोरी ॥ घ० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

॥ महुवामंडन श्रीमहावीर जिन स्तवन ॥

वीर सुनो मोरी विनती, तुम त्रिभोवन तारणहार ।
मधुमति नगरी विराजता, सवि सेवकने आधार ॥ १ ॥
लौकिक पंथ में परिहस्यो, मारे तुमरो पंथ प्रमाण ।
मन तन वचने मानियो, दिजो सुगुणगुणावली दान ॥ २ ॥
संगम देव सुराधमे, उपसर्ग कखा विकराल ।
गोसाले निंदा करी, तुमशासननो वाचाल ॥ ३ ॥
फणिधर कौशिक आकरो, दीधो डंख सह्यो असराल ।
कर्णे कीला पोरव्या, वली चरणे पचाव्यो थाल ॥ ४ ॥
दीनदयाल दया करी, एवा क्रूर उपर महाराज ।
वली चंदनवालाने आंगणे, गया शिवसंकेतने काज ॥ ५ ॥
धर्मनुं वीज आरोपवा, भूमंडल कीध विहार ।
कर्मे कस्योरे वेगलो, अव चरण अब्याने शी वार ॥ ६ ॥
निजपद दायक सांभली, आवी उभो नाथ हजूर ।
आतमराम सुहंकरो, करो कातिविजय भरपूर ॥ ७ ॥

॥ इति ॥

अथ सज्जाय संग्रह ।

(१) । रेखता ।

मना मत जान कुछ अपना, जगतमें जीवना स्वपना । अं० ।
 तीर्थपति ज्ञानी गणधारी, चक्री अधचक्री बलकारी ।
 सुरपति सूर्य शशी सूर, रहे नहीं काल भए पूरा । म० । १
 द्वारिका दैवी मनोहारी, द्विपायन कोपने जारी ।
 बली बलभद्र वासुदेवा, मरे सब सुर करत सेवा ॥ म० ॥ २
 नेकनामदार कहे जिनको, धूमध्वज धरदियो तिनको ।
 चोवा चंदन सुगंध तैला, धूलमें मिलगया मेला ॥ म० ॥ ३
 गजघटा तुरग तरल तोरी, फोजमें जोरी नहीं धोरी ।
 काल बलि वाकुले आया, गिनतीका अंक नहीं पाया ॥ ४ ॥
 कुटुंबकला देखतो झाडी, बनी ज्युं बडी पुष्पवाडी ।
 नारीजन नेह बन्यो नीको, जल्यो जब होगयो फीको ॥ ५ ॥
 जगत वाजी बनी वूरी, किसीकी सो भी नहीं पूरी ।
 शरीरी जावते देखो, करो कुछ होत नहीं लेखो ॥ म० ॥ ६
 अधिर है सब दुनियादारी, कही गुरुगमसे ए धारी ।
 आत्मगुरु काति घट जागे, रहे नहीं भावतिमिर आगे ॥ ७

॥ इति ॥

(२) ॥ देशी-सो जोगीगुरु मेरा ॥

नदी नावका मेलारे, वावा नदी नावका मेला
 कौन गुरु कौन चेलारे । वा ० अंचली ॥

धन कण कंचन ढेर पडे रहे,
 सोचत करत न शेलारे ॥ वा० ॥ १ ॥
 पापकर्म गठडी शिर लीनी,
 दुरगति देदिया ठेलारे ॥ वा० ॥ २ ॥
 मात पिता नारी सुत बंधव,
 स्वारथमें सब गहेलारे ॥ वा० ॥ ३ ॥
 लूटण पीटण लगगई दुनिया,
 खींचत चीर फटेलारे ॥ वा० ॥ ४ ॥
 मारामारी मचरही मिलकतपर,
 आपस करत धकेलारे ॥ वा० ॥ ५ ॥
 राखनवारो वन राख विखरगयो,
 जीवनकु मिलगया जेलारे ॥ वा० ॥ ६ ॥
 धर्मी अधर्मी मरन दोननको,
 स्वर्ग नरक है गेलारे ॥ वा० ॥ ७ ॥
 तृष्णा तरंगिणी टप ले वाहुरे,
 इन विच मत कर खेलारे ॥ वा० ॥ ८ ॥
 इन देहनसे जिनराज समरले,
 आतमकांति भरेलारे ॥ वा० ॥ ९ ॥

॥ इति ॥

(३) ॥ पीढ ॥

ए संसार सुपनकी माया,
 मात पिता अरु कौन है भाया ।

वादलरंग अरु तरुवर छाया,
 पलभर मिल झटपट पलटाया ॥ ए ससार० ॥ १ ॥
 करिवर कान चपल चपकारा,
 नारीको नेह निर्झर जलधारा ।
 उदधितरंग तुरंग तरलता,
 वायुवेग हत मेघ वरसता ॥ ए ससार० ॥ २ ॥
 नारीके नयन कुमतिकि मतियां,
 कायर कंप पुराणकी बतिया ।
 साधुसमागम तथागत कहनी,
 वेदधर्ममें दया मति रहनी ॥ ए संसार० ॥ ३ ॥
 वैसी उपमा घटत है तिनमे,
 कमला कुटुंब प्रमुख ध्वजमिनमें ।
 मेल मिल्यो सो होवत न्यारो,
 विछडगयो जब क्योंकर प्यारो ॥ ए ससार० ॥ ४ ॥
 तुं नहीं किसीका कोइ नहीं तेरा,
 मूरख झूर झूर मानत मेरा ।
 विजयानंद मतिचंद सुसारो,
 पान करो होवे काति उजारो ॥ ए संसार० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

(४) ॥ सोरठ ॥

दिन चार मुसाफर डेरा, क्युं मानत मूरख मेरा ॥ अं० ॥
 मोहनिगड निगडित जवलंग जग, तबलग तरुपखेरा ।
 वाट वटाउ विछडेगा मेला, सुझत होत सवेरा ॥ दिन०१॥

राग द्वेष खडे रहे खडगी, पास करत है हेरा ।
 काम क्रोध दावानल लगरह्यो, विषय पवन दे घुमेरा ॥२॥
 मान महीधर मुगतिको वैरी, तोरत धर्मका बेरा ।
 भवोदधिपार परे अब कैसे, आत्म भविजन केरा ॥ ३ ॥
 माया नागन ममता अजगरनी, दशनको झहर झरेरा ।
 निशदिन त्रिभुवन प्राणी चावत, देवत दुर्गति नेरा ॥ ४ ॥
 आपद दूर हटेगी तेरी, तत्त्व को पान करेरा ।
 विजयानंद चरण सेवनसे, आत्मकाति जगेरा ॥ दि० ५ ॥

॥ इति ॥

(५) ॥ काफ़ी । देखा दुनिया घीच-देशी ॥

समझलियो सब साररे जगमें नहीं तेरो ॥ अंचली ॥
 जो जो मानत मूरख अपनो, सो सो होत अनेरो ।
 गिरगई काया परिरही माया, उडगयो जीव अकेरोरे ॥ १ ॥
 दुनियादारी खरीरे विमारी, नारीजनको नेरो ।
 करत पुकारा वनविच बैठे, देदियो आंचचंगेरोरे ॥ २ ॥
 माल खजानो परवश छीनो, शव टुक जुं पंखेरो ।
 घर छर परघर घरणी चाहत, निशदिन करत बखेरोरे ॥ ३ ॥
 गिरगए मंदिर गिरगए माले, फेरु फिरत चोफेरो ।
 उडरहे कागा मंगलघर पर, जानत जंगल मेरोरे ॥ ४ ॥
 गुजरगए राजा और राणा, उजरगए केइ शहेरो ।
 आत्म कांति जगे घटविचमें, नासत निशि अंधेरो रे ॥५॥

॥ इति ॥

(६) ॥ घनाश्री ॥

राह तुरी उलटेनुं वे जटडी, राह तुरी उलटेनुं ।
 संग तुसांदा खग वुरांदा, छडदे फड मत मैनुं वे जटडी १
 जेडे जेडे भेडे भेडे हुंदे थाडे नेडे, पढ पढ करन वखेडे ।
 भ्रमदी पोथी लढ लढ फिरदे, रोडे महंत न केडे ॥ २ ॥
 कन्न फडायो झुंड वढायो, अगगविच अंग सडायो ।
 गंगमे गोते झूठ खवायो, करवत काशी फडायो ॥ ३ ॥
 जट ज्युं रट रट पढ वक वकदा, वेद पुराण गीतांदा ।
 गल्ल ततवांदी नेडे न हुदी, खोतेनुं मिसरी कुजादा ॥ ४ ॥
 छडदेनी राह अव नेडे असादा, साडे कोल कि काम तुसांदा
 आनंदरग समागम सानुं, काति जगपयो है गुरादा ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

(७) ॥ दक्षणी हुमरी ॥

सांगु काय तुला ग्राणी, समझ आहे नाही रे ।
 राहयला वसुन का तु तुजा नाही काही रे ॥ सा० १ ॥
 रावणाचा राज गेला, गेला रामराजारे ।
 मोठे मोठे मेले आता, काय तुजा माजा रे ॥ सा० २ ॥
 नारायण नरपति, रघुपति राम रे ।
 नांव आहे त्याचे मात्र, कुठे आहे धाम रे ॥ सा० ३ ॥
 पड्डन गेले दंत पांडु, केश तुला आला रे ।
 पायजे प्रभुचा नाव, धर जपमाला रे ॥ सा० ४ ॥
 पाहुन आतमराम, काति शिवधाम रे ।
 करु नका कोठेतरी, विषयविराम रे ॥ सा० ५ ॥

॥ इति ॥

(८) ॥ कृत्याण ॥

जय जय हेमचंद्र महाराज,
 जय जय हेमचंद्र महाराज ।
 सफल हो दर्शन जैनसमाज ॥ जय० ॥ अंचली ॥
 कलियुग कल्पतरु मोहे मिलियो,
 दाता गरीव निवाज ॥ जय० ॥ २ ॥
 सुरमणि कहा करूं मृन्मय रंका,
 तुं श्रुतमणि भणिराज ॥ जय० ॥ ३ ॥
 निहारत नहीं कबहु सुरगवीआ,
 रसना सुरगवी आज ॥ जय० ॥ ४ ॥
 कविसम करत है सुरगुरु मुनिगुरु,
 कहो कछु नाचत लाज ॥ जय० ॥ ५ ॥
 हेमचंद्र कांति छवी पाई,
 हेमचंद्रकरे काज ॥ जय० ॥ ६ ॥
 ॥ इति ॥

(९) (माढ-गिरनारी जाता राख लीजोहे-देशी)

ज्ञानीगुरु मोरा हे हेमचंद्र भगवान,
 अरज उर लीजीये हे राज ।
 आज उदासी क्युं करो हे राज,
 सेवकने शिर हाथ दिलासो दीजीये हे राज ॥ १ ॥
 पंचम काल करालमें हे राज,
 गुरुगम विरहो नाथ मति मोहे धनी हे राज ।
 कर करुणा करुणापति हे राज,
 तुं शासन सिरदार मिल्यो मुझने धनी हे राज ॥२॥

मुगतिगया महावीरजी हे राज,
 स्वामी सुधर्मा पटधर प्रभुजी विराजिया हे राज ।
 अनुक्रमे सूरि स्वर्गे गया हे राज,
 भरत भख्यो अंधकार कुमतिमत गाजिया हे राज ३
 संवत शत एकादशे हे राज,
 कातिक पूर्णमासी निशि पेटालीयो हे राज ।
 तिमिर हख्यो तरणि चख्यो हे राज,
 जब जनम्या जिननंदन पद नेता लियो हे राज ॥४
 वर्ष नवे सयम लियो हे राज,
 इक्किसे अनगार परमपद पाइयो हे राज ।
 जानदिवाकर झलहल्यो हे राज,
 तिमिर हख्यो हृदयगत जग जश गाइयो हे राज ॥५
 कुमर नृपति प्रतिबोधियो हे राज,
 धर्मनरेंद्र सुराज थपायो भूतले हे राज ।
 रचना रची रतनावली हे राज,
 शासन होसि सनाथ जो आवेला मले हे राज ॥६॥
 सवत निधि वीश वारसो हे राज,
 सुरपुरिरो हो विहार करि फिरि आडया हे राज ।
 पांढण पावन आतमा हे राज,

१ सवत् १९५९ पाटण शहरमा श्रीपंचायत पार्श्वनाथना मंदिरमां
 फलिकाल सर्वज्ञ श्रीहेमचंद्रसूरि महाराजनी मूर्तिनी स्थापना थई ते बसते आ
 स्तुति रचाई छे । श्रीहेमचंद्रसूरिनो जन्म ११४५ कार्तिकशुद्धि पूर्णिमाए थयो
 हतो । ११५४ मा दीक्षा । ११६६ मा सूरिपद । १२२९ मा स्वर्गवास ॥

कांतिविजय दियो दान सुधारस लाइया हे राज ७
॥ इति ॥

(१०) ॥ विद्याग ॥

यशोविजय गुरु ज्ञानी,
परमगुरु यशोविजय गुरु ज्ञानी अंचली ॥
आगमपारद न्यायविशारद,
विरुद्द दियो मिल सावधानी ॥ प० १ ॥
व्याकरण छंदोलंकृति महामति,
सती सरस्वती याकी गवानी ॥ प० २ ॥
कुमति कुगति वारणके कारण,
शासन पोत सुकानी ॥ प० ३ ॥
स्यादवाद सिंहनाद साद करी,
मुखमारै मतवारै मृग मानी ॥ प० ४ ॥
व्यास प्रभाकर गदाधर कणचर,
मत लियो सर्व पिछानी ॥ प० ५ ॥
कृत ग्रंथ शत मत षटकी कथनी,
ऐंद्रपदांकित वखानी ॥ प० ६ ॥
जीरणज्वरपर झहरपान सम,
कुमति कही न सुहानी ॥ प० ७ ॥
भव परिताप तपत भविजनको,
शांतसुधारस वानी ॥ प० ८ ॥
प्रभुपदकांति मनवंछित पूरो,
चित्तामणि ज्युं चमकानी ॥ प० ९ ॥

॥ इति ॥

(११) ॥ सोरठ ॥

सूरि श्रीयुत विजयानंदो, उडुगण गगने ज्युं चंदो-अंचलि ॥
 मुनिमन मानसरोज सुहंकर, विकसित वीर जिनंदो ।
 गणधर गणपति गौतम ज्ञानी, सतति श्वेत दिनंदो ॥ १ ॥
 पट्ट परंपर आगम अर्थे, दीपक ज्योति अमंदो ।
 तिमिर रहत नहीं अंतरघटमें, काशित तेज जगंदो ॥ २ ॥
 वादि कमलदल वनराजीमें, विध्याचलज गजंदो ।
 कुमति कल्प विकल्प विहंगम, धीवर पंजर फंदो ॥ सू० ३ ॥
 गुणरत्नाकर मुनिजन मनहर, सुरजन सुरतरुकंदो ।
 मुख मलयाचल मलयज अर्थो, हिमगिरि खंड रसंदो ॥ ४ ॥
 हारी तरगिणी तरलता करती, सुनकर शब्द सुखंदो ।
 रजनीचर रजनी परिभमतो, देखी शांत शुभंदो ॥ सू० ५ ॥
 ध्यान धरतहै सुरवर जिनको, भ्रमर कमल मकरदो ।
 नाम रटे भवखेद मिटत है, हरत ताप ज्युं जलंदो ॥ ६ ॥
 आतमराम आनंद सुनंदी, जिनवाणी रसछंदो ।
 कांतिविजय कहे मन वच काया, प्रणमत अग सुचंदो ॥ ७ ॥

॥ इति ॥

(१२) ॥ देशी-जीरे मारे ॥

जीरेमारे विजयानंद सूरीश,
 विन दर्शन मन टलवले जीरेजी ।
 जीरेमारे मतमत वादविवाद,
 सुरतरुसम भविजन फले जीरेजी ॥ १ ॥
 जीरेमारे आ वली वात विशेष,
 सो तो जड स्थिरता धयो जीरेजी ।

जीरेमारे आ तो ज्ञानभंडार,
दिनमणि दिशि दिगिमें गयो जीरेजी ॥ २ ॥

जीरेमारे धन्य ए गुरुअवतार,
जन्मथी मदन निवारियो जीरेजी ।
जीरेमारे ज्यारे थया अणगार,
संयमरस जस धारियो जीरेजी ॥ ३ ॥

जीरेमारे शील रतन असमान,
गुणरत्नाकर जलहले जीरेजी ।
जीरेमारे भाग्यवली जे जीव,
तेहने ए गुरुवर मले जीरेजी ॥ ४ ॥

जीरेमारे पटकाया प्रतिपाल,
शांतसुधारस महानिधि जीरेजी ।
जीरेमारे धरमधुरधर नाथ,
जिनआगम कंठे विधि जीरेजी ॥ ५ ॥

जीरेमारे संवत्त शत ओगणीस,
जेठ अधिक वावन थया जीरेजी ।
जीरेमारे सप्तमी मगलरात,
वादे शशी गुरु सह गया जीरेजी ॥ ६ ॥

जीरेमारे पूर्वपरें धरो नेह,
कांति कहो निज वयणथी जीरेजी ।
जीरेमारे तुमंतो निरागी नाथ,
हुंतो सरागी नयणथी जीरेजी ॥ ७ ॥

(१३) ॥ महिजिनेश्वरदेव भवदधिपारकरोरे । देशी ॥
 आतमराम आधार, गुरुगम ज्ञानखरोरी ।
 जिसविध जाय अबोध, तिसविध बोध धरोरी ॥१॥
 तुमविन अवर न कोई, मुजमन भाव धरेरी ।
 स्तनपीवक जिसो वाल, स्तनविन रुदन करेरी ॥२॥
 करुणाकर गुरुदेव, करुणा क्युं न धरोरी ।
 जिसविध होय सनाथ, मुनिजन तैसो करोरी ॥ ३ ॥
 पंचमकाल कराल, जिनमत शरण कह्योरी ।
 भेदे पडीया जीव, चरण न सरण लह्योरी ॥ ४ ॥
 धर्मिजन आधार, देह विदेह गयोरी ।
 स्वर्ग निवासी देव, धर्मनो दानी थयोरी ॥ ५ ॥
 तुम कियो उर्ध्व विहार, अवधिज्ञान गह्योरी ।
 अब हम कोण आधार, आगम विरह दह्योरी ॥६॥
 जाणो सर्व घनाव, राग विराग धरोरी ।
 कातिविजय कहे नाथ, विघ्ननं दूर हरोरी ॥ ७ ॥
 ॥ इति ॥

(१४) ॥ गजल ॥

जींदगी जाना है जरूर, दिनकी खराबी हो रही ।
 अकल भी तेरी गुमगई, किताब जो कही ॥ १ ॥
 बदौलत नसीवा टुक मिला, जिनपर मिजाजी मत करो ।
 वेगक करो फुरमान है, जमी जमाना मत भरो ॥ २ ॥
 खैरात कीस्मत ने करी, खलकत गुजारा है ।
 फकीर हो या अमीर हो, आस्मान का तारा है ॥ ३ ॥

जनरल गवर्नर राव राणे, सुलतान सिकंदर फिर नये ।
 हक्दार जमीमें जा गिरे खतें, ख्याल खंतम सब हो गये ॥४
 यकीन करो नेकी करो, बुरा भी दिल डुक मतकरो ।
 आखिर खुदाका नूर होगा, आप किसीसे मतडरो ॥५॥

॥ इति ॥

॥ इति प्रवर्त्तकश्रीकान्तिविजयमहाराजकृति सम्पूर्णा ॥



श्री १०८ श्रीमद्विजयानन्दसूरि (आत्मारामजी) महाराज
 शिष्य महोपाध्याय श्रीलक्ष्मीविजयजी शिष्य
 मुनिमहाराज श्रीहर्षविजयजी शिष्य मुनि
 श्रीवल्लभविजयजी कृत

स्तवन तथा सज्ज्ञाय संग्रह ।



(१) (भावनासु मंगलाचरण)

मंगल पढिये प्रथमही भावना समे ॥ मं० ॥
 आनंद धार विघ्न विकार सकल उपशमे ॥ मं० ॥
 ॐ, ह्रीं, श्रीं, अर्हम् उत्तम जाप, जपे खपे पाप,
 वने रूप आप, भव नहीं भमे ॥ मं० १ ॥
 निर्विकार, निष्कलंक, निर्दोष, प्रभु शांतिनाथ,
 भवी नामी माथ, जोडी दोनो हाथ, भावसे नमे ॥२
 गावो ध्यावो, भावो, आतम लक्ष्मी काज,
 हर्षे जिन राज, वल्लभ शिरताज, नमो तमे हमे ॥मं०३
 ॥ इति ॥

(२) (चालो सखीजिन दर्शन करिये चाल नाटक)

पार्श्व प्रभु जिन अंतर्यामी ॥
 गावो भवि गुण चित्तसे मन प्रीतसे ॥ अंचली ॥
 इद्र सुरासुर नर नरपति जस,
 सेवाकरे शुभ आससे, शुभ वाससे,

आनंद धारी, प्रभु सुख कारी, पार उतारी,
करोनति, गुणतति ॥ पा० १ ॥

वामानंदन परदुःखभंजन,
रंजन प्रभु शुभध्यानसे, शुभ ज्ञानसे,
मंगल माला, सुख विसाला, दीनदयाला,
करो नति गुणतति ॥ पा० २ ॥

आत्म लक्ष्मी हर्ष धरीने,
ध्यावो भवि प्रभु पासको, भव नासको,
मस्तक नामी, बल्लभ स्वामी, आनंद पामी
करो नति गुणतति ॥ पा० ३ ॥

॥ इति ॥

(३) नारोवालमडन श्रीमुनिसुव्रत स्वामी स्तवन ॥

(कानडा-दरवारी)

जिन गुण गाउं मै प्रभु गुण गाउं,
मुनिसुव्रत जिन सीस नमाउं-जिन० ॥ अंचली ॥
तिर्थकर जगदीश शिवंकर, एक अनेकसे लगन लगाउं;
ब्रह्मा विष्णु चिदघन स्वामी,
जिन शिव नाथ निरंजन ध्याउं ॥ जिन० १ ॥
नाम अनंता मूल अनामी, दोष रहित गुणवान जनाउं;
क्रोध मान माया नहीं प्रभुमें,
लोभ काम नहीं लेश बनाउ ॥ जिन० २ ॥
रागचिह्न नहीं स्त्री प्रभु संगे, द्वेष चिह्न नहीं शस्त्र मनाउं;

शांत सुधारस मूर्ति सोहे,
 जय तुम देव चरण चित लाडं ॥ जिन० ३ ॥
 मन वच काया शुद्ध आराधी, निर्गुण ब्रह्म सेवा फल चाडं;
 सादि अनंत स्थिति सिद्ध होके,
 फिर नहीं भव जनि मृत्यु पाडं ॥ जिन० ४ ॥
 आतम लक्ष्मीधर प्रभु दीजे, आतम लक्ष्मी हर्ष भराडं;
 माघ सुदि तेरस बुध वल्लभ,
 नारोवाल उत्तमव खुशी थाडं ॥ जिन० ५ ॥

॥ इति ॥

(४) लालबागमंडन श्रीचिंतामणि पार्श्वनाथ जिन स्तवन ॥

(बाला वेगे आवो रे-देशी)

चिंतामणि स्वामीरे, कहुं शिर नामीरे,
 प्रभु सुनो विनती होजी ।
 पारस प्रभु तुम सम देव न कोय,
 वारिजाडं देख लिया जग जोय-चि० ॥ अंचली ॥
 हम तुम सरिखा नाथजी, जीव न भेद लगाए ।
 तुम निज रूपे रम रहे, हम रलते ससार ।
 वारि प्रभु कर्म तणा ए प्रताप-चिंतामणि० ॥ १ ॥
 काल प्रवाह अनादिको, चेतन कर्म सबंध ।
 दूर किया तुमने प्रभु, हम विचमें रहे वव ।
 वारि प्रभु तुम वर नहीं नहीं शाप-चिंतामणि० ॥२
 क्रोध मान माया अति, लोभ परम ए दोष ।
 अंश नहीं तुममें प्रभु, वीतराग गुण पोष ।

वारि प्रभु चिदघन रूप अमाप-चिंतामणि० ॥ ३ ॥

निर्दोषिके ध्यानसे, ध्याता ध्येय अदोष ।

पारसमणि कंचन करे, गुणी आलंबन जोश ।

वारि प्रभु सेवक सम संग आप-चिंतामणि० ॥ ४ ॥

लालवागमें रम रहे, निजगुण दीनदयाल ।

मोहमयी नगरी खरी, पिण नहीं मोह जंजाल ।

वारि प्रभु ए तुम निज गुण छाप-चिंतामणि० ॥ ५ ॥

आतम सत्ता सारिखी, सब जग जीव स्वभाव ।

आतम लक्ष्मी पामिए, विघटे जीव विभाव ।

वारि प्रभु वल्लभ हर्ष मिलाप-चिंतामणि० ॥ ६ ॥

॥ इति ॥

(५) ॥ श्रीआदिनाथप्रभु स्तवन ॥

(चाल-राम नाम रस पीजे प्याल)

आदि जिनेश्वर स्वामी, जिनजी स्वामी रे स्वामी रे
स्वामी शिव धामी ॥ अंचली ॥

राग नहीं नहीं द्वेष प्रभुमें,

वीतराग पद पामी रे पामी रे पामी ॥ शि० १ ॥

भाव सहित जो प्रभुको आराधे,

प्रभु पद आतम रामी रे रामी रे रामी ॥ शि० २ ॥

इम जानी तुम शरणे आयो,

नाथ निरंजन नामी रे नामी रे नामी ॥ शि० ३ ॥

तारक सेवक प्रभु सम होवे,

मानुं नहीं फिर खामी रे खामी रे खामी ॥ शि० ४ ॥

आतम लक्ष्मी हर्ष अनुपम,
ब्रह्म अंतर्दामी रे यामी रे यामी ॥ जि० ५ ॥
॥ इति ॥

(६) श्रीमुनिसुव्रत स्वामी स्तवन ॥

(चाल-वारीजाड रे सावरिया तोपे वारणा रे)

वारी जाउंरे जिनवरजी तुमपर वारनारे ॥ वारी० अं० ॥
चौतिस अतिशय गुण है वारा, दोष नहीं प्रभु तुममें अठारां ।
पैतीस वाणीके गुण सुंदर धारना रे ॥ वारी० १ ॥
शात सुधा दृष्टि अमी वर्षे, पद्मासन देखी भवी हर्षे ।
वीतराग सम और न देव विचारना रे ॥ वारी० २ ॥
शुद्धालंबन देव जिनेश्वर, तुं शंकर सुखकर परमेश्वर ।
नाम अपूरव मंतर काम विसारना रे ॥ वारी० ३ ॥
सुव्रत स्वामी सुव्रत दाता, दीजे प्रभुजी शिव सुख साता ।
रात दिवस तुम चरणी सेवक तारना रे ॥ वारी० ४ ॥
आतम लक्ष्मी हर्ष धरीने, फल मांगु प्रभु चरन परीने ।
ब्रह्म सेवक आवागमन निवारना रे ॥ वारी० ५ ॥
॥ इति ॥

(७) श्रीज्ञगडिया तीर्थ मडन श्री आदि जिन स्तवन ॥

(चाल-वारी जाउरे सावरिया तोपे वारनारे)

प्रभु आदीश्वर स्वामीजी पार उतारना रे ॥ प्रभु० ॥
तिर्थकर जिनवर अरिहंता, पुरुषोत्तम तारक भगवंता ।
आदिकर निज तीर्थ नाम सु धारना रे ॥ प्रभु० १ ॥
लोक नाथ नायक हित कर्ता, देशक धर्म के भव भय हर्ता ।

मन करुं धरुं शरण प्रभु मोहे तारना रे ॥ प्रभु० २ ॥
 मोह माया मद मान निवारी, राग द्वेष मल दंभ विडारी ।
 तेतराग प्रभु तुम पर जाडं वारना रे ॥ प्रभु० ३ ॥
 तारक जानी शरणे आयो, तारो प्रभु निज सम सुख दायो ।
 तारण तरण प्रभु निज नामको पारना रे ॥ प्रभु० ४ ॥
 तपने जन सब तुमने तारे, मौन किया प्रभु सेवक वारे ।
 तसा नाथ न चाहिये आप विचारना रे ॥ प्रभु० ५ ॥
 तीर्थ झगडिया मंडन स्वामी, आतम लक्ष्मी हर्षे पामी ।
 तल्लभ सेवक आवागमन निवारना रे ॥ प्रभु० ६ ॥

॥ इति ॥

(८) श्रीशांतिनाथ जिन स्तवन ॥

(चाल-अशरण शरण करण सुख सपत)

शांतिनाथ शांति के कर्त्ता, हर्त्ता दुःख दोहग सारा ।
 शांति नहीं नहीं द्वेष अज्ञाना, जग जीवन हित कारा ॥ १ ॥
 शांत चित् आनंद रूप स्वरूपी, सिद्ध अचल पद धारा ।
 शांल अग्नि गाले नहीं वाले, छेदे नहीं हथियारा ॥ २ ॥
 शांतेदोषी अकलंकी प्रभु तुम, सेवक जन मन ठारा ।
 शांतेर्विकारी मुद्रा शांतिकी, धारी उर भ्रम टारा ॥ ३ ॥
 शांतातम लक्ष्मी तुम सम वल्लभ, पावे हर्ष न पारा ।
 शांतास जिन मंडल गंधारा, आलंबन शुद्ध द्वारा ॥ ४ ॥

॥ इति ॥

(९) कठोर मंडन श्रीआदिजिन स्तवन ॥

(माड-चाल-तोरे गमका तराना)

प्रभु आदि जिनंदा, शिव सुख कंदा, तारक दीनदयाल ।

करुणा कर स्वामी, अंतर्यामी, शिव गति गामी, तारक ॥
 वीतराग जय जय जग गुरुजी, जय जगनाथ जिनंद ।
 तुम परभावे प्रभु मुझ होवे, भव निर्वेद अमंद ॥ क० १ ॥
 मार्गानुसारिपणा इष्ट सिद्धि, लोक विरुद्धका त्याग ।
 पूजा गुरुजन अर्थ पराया, करनेमें अति राग ॥ क० २ ॥
 शुभ गुरु जोग वयण तस सेवा, भव पर्यंत अखंड ।
 तुमदर्शन का यह फल मांगु, होवे न आत्म दंड ॥ क० ३ ॥
 कठोर मंडन आप कहावो, पिण नहीं लेश कठोर ।
 जो पद तुमरा सो मुझ दीजो, आशा करुं नहीं ओर ॥४॥
 नाभिर्नंदन प्रभु पर दुःख भंजन, मरु देवा के नंद ।
 आत्म लक्ष्मी हर्ष धरीने, बह्म होत आनंद ॥ क० ५ ॥
 ॥ इति ॥

(१०) श्रीमहावीरस्वामी स्तवन ॥

(चारुनाटक-देशी काउडा तारी कामण वरनारी व्रजमा वासलडी वागी)
 वीरजी तारी पावन करनारी, मनमा आंखलडी लागी ।
 मीठी वली सेवक मन हरनारी, मनमां आंखलडी लागी ।
 भव भय हरनारी तुम सुणवा, वाणी सुखकारी ।
 हुं चाहूं, हुं चाहूं, जिनवर थइने हुशियारी
 मनमां आंखलडी लागी ॥ वीरजी० १ ॥
 दर्शन नर नारी तुम करवा, आवे शुभ धारी ।
 तुं दाता, तुं दाता, शिव सुख थइने शिवचारी
 मनमा आंखलडी लागी ॥ वीरजी० २ ॥
 अघहर उपकारी प्रभु तुम छो, आत्म हितकारी ।

हुं मागुं, हुं मागुं, सुख कर वल्लभ भवपारी
मनमां आंखलडी लागी ॥ वीरजी० ३ ॥

॥ इति ॥

(११) श्रीसामलिया पार्श्वनाथ जिन स्तवन ॥

(देशी-थई प्रेम वश पातलिया)

प्रभु पास जिन सामलिया,
महा पुण्य उदयथी मलिया रे ॥ प्र० अंचली ॥
रीति अनुपम भव तरवानी, प्रभुजी आप प्रकाशी ।
अज अजर अमर अविनाशी ।

निज आतम गुणथी वलिया रे ॥ प्र० १ ॥
क्रोध अरिने क्षमा खडगथी, जेर कस्यो तमे जडथी ।
गयो थई हलको अति खडथी ।

प्रभु शांत वदन तुम कलिया रे ॥ प्र० २ ॥
मान रिपु मार्दव हथिया रे, माया आर्जव धारी ।
सतोपथी लोभ निवारी ।

नहीं विष्णु सम तमे छलिया रे ॥ प्र० ३ ॥
राग द्वेष प्रतिमलने जीती, वीतराग पद लीधुं ।
निज आतम कारज सीधुं ।

जरा जन्म मरण भय टलिया रे ॥ प्रभु० ४ ॥
वामानंदन अंतरजामी, आतमलक्ष्मी दाता ।
वल्लभ हर्षे गुण गाता ।

सहु मनना मनोरथ फलिया रे ॥ प्र० ५ ॥

॥ इति ॥

(१२) विलीमोरा मंडन श्रीशांतिनाथ जिन स्तवन ॥

(देशी-थई प्रेम वश पातलिया)

प्रभु शांति जिन सुखकारी,
 तुज मूर्ति मोहनगारी रे ॥ प्रभु० अंचली ॥
 कामगवी सुरमणि सुरतरुवर, मनवंछित दातारा ।
 तुम उससे अति हितकारा ।
 भवसागर पार उत्तारी रे ॥ प्रभु० १ ॥
 रागद्वेषके चिह न दीसे, औरत शस्त्र प्रचारा ।
 मूर्ति प्रभु तुम अविकारा ।
 प्रभु वीतराग बलिहारी रे ॥ प्रभु० २ ॥
 शांति करी जग नाम लियो शुभ, शांतिनाथ जगस्वामी,
 करुं अर्ज प्रभु शिर नामी ।
 हरो कर्मरोग उपकारी रे ॥ प्रभु० ३ ॥
 दुपम कालमें प्रभु तुम मूर्ति, साथ आगम आधारा,
 सग निश्चय और व्यवहारा ।
 स्वच्छंदाचार निवारी रे ॥ प्रभु० ४ ॥
 आणा तप जप संयम आणा, आणा समकित जानी ।
 आणामें ध्यानी ज्ञानी ।
 करणी शुभ आणाधारी रे ॥ प्रभु० ५ ॥
 अचिरानंदन भवभयभंजन, अर्हन् शिवसुख दाया,
 वंदन करुं मन वच काया ।
 टरे मोहरिपु बल भारी रे ॥ प्रभु० ६ ॥
 विलीमोरा मंडन अघ खंडन, शांति शांतिके धामी

करो निजगुण आत्मरामी ।

वल्लभ मन हर्ष अपारी रे ॥ प्रभु० ७ ॥

॥ इति ॥

(१३) दम्भणवंदर मंडन श्रीआदि जिन स्तवन ॥

(देशी-वाला वेगे आवारे)

आदिजिन स्वामी रे, कहुं शिर नामी रे,

प्रभु सुनो विनती हो जी ।

वारी प्रभु तुम जगदीश जिनंद,

वारी प्रभु मरुदेवाको नंद ॥ आदि० अंचली ॥

युगलाधर्म निवारके, शुद्ध किया व्यवहार,

जीव कर्म दुई टारके, रूप लिया निज धार ।

वारी प्रभु सेवत सुर नर इंद ॥ आदि० १ ॥

दुविध धर्म उपदेशके, वरताया जग धर्म ।

मन वच काया साधके, पामे भवि शिवधर्म ।

वारी प्रभु चिदघन आनंद कंद ॥ आदि० २ ॥

अपने जन तारे सभी, मौन किया हम वार ।

वीतरागमें नवि घटे, निज परको ए विचार ।

वारी प्रभु काटो कलिमल फंद ॥ आदि० ३ ॥

मित्र अनादिके बने, आखिरमें भी एक ।

विचमें छूटा पडगए, तो भी न छोडी टेक ।

वारी प्रभु मुझ मन सागर चंद ॥ आदि० ४ ॥

क्रोधाग्निसे जलरह्यो, छांटो क्षमा जल धार ।

तुम सम शात वतुं प्रभु, होवे जय जयकार ।
 वारी प्रभु दूर होवे कर्मछंद ॥ आदि० ५ ॥
 नाभिनंदन निरखियो, दम्भण बंदर आय ।
 ऊन नहीं कोई वातकी, मे मानुं मनमाय ।
 वारी प्रभु आतम लक्ष्मी लहंद ॥ आदि० ६ ॥
 शंशी मुंनि ग्रंह विधुं पोष मा, वदि अष्टमी गुरुवार ।
 ओच्छव रग वधामणां, जय जय मंगलकार ।
 वारी प्रभु बल्लभ हर्ष अमंद ॥ आदि० ७ ॥

॥ इति ॥

(१४) वगवाडामंडन श्रीअजितनाथ जिन स्तवन ॥

(देशी-मातामरुदेवानानंद)

तारो श्रीजिन अजित जिनंद,
 धारी तुमरा विरुढ मै तुमरे सरणे आयोजी ॥ अं०
 तारणतरण कहाओ प्रभुजी, आप तरे सत्यमेव ।
 जो तारो नहि सेवकजन तो, तारण किसविध देव ॥ ता०
 अजितनाथ प्रभु अजित जिनेश्वर, सेवक अजित करेव ।
 जो निजसेवक निजसम न करे, कौन करे तस सेव ॥ ता०
 मोहचरटसे नहि जीताया, सत्य अजित तुम नाम ।
 मुझमें भी शक्ति प्रभु तुमरी, दृष्टि विन किस काम ॥ ता०
 सुखसपद प्रभु तुम पदकजमें, विलसे मधुकर जेम ।
 सेवक तुमगुण मकरद कारण, रहते निशदिन तेम ॥ ता०
 प्रभुपूजन वदन स्तवनासे, मंगल जय जयकार ।
 आतमलक्ष्मी निजगुण पावे, बल्लभ हर्ष अपार ॥ ता० ॥ ५

वगवाडामंडन प्रभु जिनवर, करुं विनती तुम द्वार ।
जो पद तुमचा सो मुझ होवे, जय जय मंगलकार ॥ ता०
॥ इति ॥

(१५) श्रीअरिहंत देवस्तवन ॥

(देशी-मातामरुदेवाकानद)

त्राता जगजीवन अरिहंत,
सांभली तारी महिमा मारुं मन ठराणुंजी ॥ अं० ॥
देव विरचिया समवसरण प्रभु, वैठा जगदाधार ।
देव देवी नर नारी सोहे, वैठी पर्पदा वार ॥ त्रा० १ ॥
दोष नही दस आठ प्रभुमे, धारे प्रभु गुण वार ।
सकल देवथी सपद न्यारी, वार वार वलिहार ॥ त्रा० २
अतिशय चोत्रीस दीपे प्रभुना, वाणी गुण पणतीस ।
सुर नर नारी तिर्यक् सर्वे, समझे विश्वा वीस ॥ त्रा० ३ ॥
साभली महिमा श्रवणे प्रभुनी, जोवा नयणे चाह ।
सफल थशे धन्य ते दिन घडि पल, थशे बहु वाह वाह ॥
शचीपति शचीसघाते नाचे, राचे गावे गीत ।
दूर टरे भवनाटक ए फल, सम्यग्दृष्टि रीत ॥ त्रा० ५ ॥
हे जिने दीनदयाल प्रभु जग, आत्मराम आधार ।
शिवलक्ष्मी दाता प्रभु आयो, वल्लभ हर्ष अपार ॥ त्रा० ६
॥ इति ॥

(१६) वगवाडामंडन श्रीअजितनाथ जिन स्तवन ॥

(देशी-गिरिवर दर्शन विरला पावे)

तूं मेरे मनमे तूं मेरे दिलमें,
 नाम रटूं पल पलमें हो जिनजी ॥ तूं० अं०
 अजितनाथ सब भयको जीती,
 नाम अजित लियो धार सयलमें ॥ तूं० १ ॥
 द्वादश तरणि सम तनु ठीपे,
 रूप अनुपम भामंडलमें ॥ तूं० २ ॥
 अनंतगुणी प्रभु अनंतवली तुम,
 आत्मरूप न आवे अकलमें ॥ तूं० ३ ॥
 जब आवे चिदरूप अकलमें,
 वो भी होवे तव तुमरी सकलमें ॥ तूं० ४ ॥
 निर्मल शशधर तेजे दिनकर,
 अधिक अधिक जिम मेरु अचलमें ॥ तूं० ५ ॥
 शात वदन प्रभु तुम दर्शनसे,
 मोद होवे शशी निकसे वादलमें ॥ तूं० ६ ॥
 तुम मूर्ति मुझ मन केमेरा,
 फोटू सम स्थिर एक विपलमें ॥ तूं० ७ ॥
 आत्म लक्ष्मी निजगुण पावे,
 बल्लभ नरभव हर्ष सफलमें ॥ तूं० ८ ॥
 वगवाडामंडन प्रभु नामे,
 आनंद मंगल सघ अखिलमें ॥ तूं० ९ ॥

॥ इति ॥

(१७) श्रीगिरनारतीर्थमंडन श्रीनेमिनाथपुष्पांजलि ।

(हरिगीत)

श्री नेमिनाथ जिनन्द दरिसण आप दरिसण जानके,
 आयो प्रभो मै निकट तुमरे आत्मलम्बन मानके ।
 होवे न निष्फल आपका जो करे दरिसण आनके,
 है भावना अति शुद्ध कारण साथ ही श्रद्धानके ॥ १ ॥

जाने न तुमको आप परका ज्ञान नहि होवे कदा,
 वो भूलते जो एक चेतन मात्र ही रटते सदा ।
 निरपेक्ष आत्म एक नाना सर्वथा नहि हो यदा,
 यह सेव्य सेवक भाव कैसे सिद्ध ही होवे तदा ॥ २ ॥

प्रत्यक्ष सेवक मै बनाहूं आप सेव्य बने सही,
 तज पक्षपात विचारते जो सत्य को समझे वही ॥
 नय मार्ग दर्शक आपका जो वचन जानत है कही,
 बस आपको भी वही उत्तम सेव्य मानत है गही ॥ ३ ॥

चउतीस अतिशय वाणिगुण पणतीसको प्रभु धारता,
 गुण वार धारक दोष अठ दश नित्य सग निवारता ॥
 इस रूप उत्तम सेव्य सेवा द्रव्य भाव विचारता,
 गुण सग जिम गुणवान् तिम हो सेव्य सेवक भारता ॥४॥

सुर रत्न तरुवर कुंभ धेनु सात फल दाता सभी,
 पिण सेव्य सेवा जास फलका अंत नहि आता कभी ॥
 अर्हन् विभू अज अलख ज्योति सार्व जिन ताता अभी,
 जगदीश जगदाधार दीनानाथ गुणगाता न भी ॥ ५ ॥

प्रभु तरण तारण दुख निवारण शरण वत्सल आप हो,

मन पाप नहि संताप नहि तस जास मन तुम जाप हो ॥
 तुम नाण दरसण चरण की जस शुद्ध मनमे छाप हो,
 क्षय करी कर्म समूह को वो आप सम निष्पाप हो ॥ ६ ॥
 गुण रतन आगर दया सागर देव जस मन एक है
 तुम नामका है काम उमको जिसे शुद्ध विवेक है ॥
 हो ध्येय तुम मैं धरुं ध्याता ध्यान भेद अनेक है,
 किस भात चाहे कोई मानो यही मेरी टेक है ॥ ७ ॥
 ध्येय ध्याता ध्यान त्रिपुटी एक सम रस पामिए,
 मन वचन काया शुद्ध भावे आप को गिर नामिए ॥
 पर भाव छंडी स्वभाव मंडि चेतना विसरामिए,
 श्री आत्म लक्ष्मी हर्ष वल्लभ पामिए दुख वामिए ॥ ८ ॥
 गिरनार मंडन नेमि जिनके चरणमें पुष्पाजली
 गुरुवार कार्तिक पूर्णिमाको वनी शुभ पुष्पाजली ॥
 सत वीस ऊन हजार दोके सालकी पुष्पांजली,
 हो आत्म लक्ष्मी हर्ष वल्लभ सघको पुष्पाजली ॥ ९ ॥

॥ इति ॥

(१८) श्रीशान्तिनाथ जिनस्तवन ॥

(कव्वाली)

न जाने कि गतं भावि, यदि मा त्रास्यसे स्वामिन् !
 वदन्ति पण्डिता नित्यं, भवन्तं तारकं स्वामिन् ! ध्रुवपदम्
 कृता शान्तिस्त्वयाऽऽगत्या-ऽभिधा शान्तिर्धृता तेन ।
 तथेदानीमपि शान्ति, प्रवर्त्तस्वाऽभित स्वामिन् ! न० १
 त्वमेवार्हन् जिनो बुद्धो, हरिर्ब्रह्मा शिवोसि यत् ।

गुणैर्जन्येऽभिधाने को, विचारो युज्यते स्वामिन् ! न० २
 दृशा त्वामेव पश्यामि, नमामि त्वां स्मरामि त्वाम् ।
 सदा त्वामेव पूजामि, विशेषोक्तेन किं? स्वामिन् ! न० ३
 विभो ! चित्तेप्सितं दाने, फलं दातारमेव त्वाम् ।
 सुरद्रुभ्योऽधिकं जाने, वदामि नानृतं स्वामिन् ! न० ४
 निजात्मानन्दसम्पत्कृत्, जहि दुःखं सुखं देहि ।
 प्रभो ! त्वं बल्लभो नृणा-मिति याचेऽनिशं स्वामिन् ! न०
 ॥ इति ॥

(१९) गजल ताल कव्वाली-(चाल नाटक-आसक्तो होरहाहं)

देवस्त्वमेव भगवन् ज्ञातं मयेति सम्यक् ।
 अन्यो न त्वत्समानो ज्ञातं मयेति सम्यक् ॥ देव० १ ॥
 रागादिदोषरहितो महितो नरामरेन्द्रैः ।
 देवाधिदेव त्वत्तो देवोस्ति नैव सम्यक् ॥ देव० २ ॥
 स्याद्वादी त्वं नयज्ञो नयवादयुक्तवचनैः ।
 व्रूषे पदार्थसार्थं ज्ञातं मयेति सम्यक् ॥ देव० ३ ॥
 वस्तु कथञ्चिदस्ति नास्ति कथञ्चिदेवम् ।
 नित्यं तथा ह्यनित्यं गदितं त्वयेति सम्यक् ॥ देव० ४ ॥
 क्रोधाग्निनातिदग्धं मानाहिनातिजग्धं ।
 वद्धं हि नाथ माया-जालेन हंत सम्यक् ॥ देव० ५ ॥
 लोभाब्धिमग्नमाधि-व्याधिभिः पीडितं माम् ।
 जानासि किं ब्रुवेऽहं पाहि जिनेश सम्यक् ॥ देव० ६ ॥
 मत्तेभसिंहदलने शूरा न मारहनने ।
 कन्दर्पदर्पहरणे शूरस्त्वमेव सम्यक् ॥ देव० ७ ॥

आत्मानमात्मना सह साम्यं कुरु ममार्हन् ।
देह्यात्मलक्ष्मीहर्षं वल्लभदेव सम्यक् ॥ देव० ८ ॥

॥ इति ॥

(२०) (गजल ताल कव्वाली-चाल नाटक-आसक्तो होरहाहं)

करुणासुधाभिभरितं चरितं हि तावकीनम् । करुणा०
ज्ञानेन्दिराविलासिन् त्यक्तेन्दिरेण स्वामिन् ।
कुर्वात्मरूपगामिन् मम रूपमात्मनीनम् ॥ करुणा० १ ॥
वद्धोस्मि मोहजाले महादुःखदे कराले
मिलितोसि नाथ काले कुरु बन्धनैर्विहीनम् ॥ करुणा०
विषयेषु जानुदग्रं दीनं सदा हि मग्नम्
अधुना तवाघ्निलग्रं कुरु नाथ मामदीनम् ॥ करुणा० ३
धेहि कृपां कृपालो देहि सुख दयालो ।
नाशं प्रयातु कालो दृष्टान्धकार इनम् ॥ करुणा० ४ ॥
वल्लभदेवचरणे हर्पात्मलक्ष्मीकरणे
हर्तुं स्वजन्ममरणे मन एव मेऽतिलीनम् ॥ करुणा० ५ ॥

॥ इति ॥

(२१) श्रीगिरनारतीर्थ मडन श्रीनेमिनाथजिन स्तवन ।

(कव्वाली)

प्रभु श्रीनेमि जिन दर्शन, हुए आनंद जयकारी ॥ प्र० ॥
प्रभु तुम दर्शसे मानूं, सफलता नयन दो धारी ।
अगर होवे न तुम दर्शन, नयन दोनो न सुखकारी ॥ प्र० १
विवेकी बन ग्रही दीक्षा, किया सग त्याग ससारी ।
वही विवेक मुझ दीजे, वनूं मैं भी चरण धारी ॥ प्र० २ ॥

घने निर्वलसे अति सवले, ललित चारित्रको पारी ।
 अवस्था मैं भी वो चाहूं, दियो तुम पै जाऊं वारी ॥ प्र० ३
 कियो आतम सोहन ध्याने, करम घाती टरे चारी ।
 ऐसे शुभ ध्यान शोधन को, मुझे दीजे हो ब्रह्मचारी ॥ प्र० ४
 विमल चैतन्य के प्रगटे, हुआ ब्रह्मज्ञान उजियारी ।
 विमल चैतन्य मैं चाहूं, करो उपकार उपकारी ॥ प्र० ५ ॥
 प्रभु विज्ञान के बलसे, परा विद्या को विस्तारी ।
 यही विचार तुम सरना, लिया मैं धार हितकारी ॥ प्र० ६
 विचक्षण नाथ तैं राजुल, तजी मुक्ति वरी नारी ।
 विचक्षण करके सेवकको, भवोदधिसे करो पारी ॥ प्र० ७ ॥
 विलासी आत्म लक्ष्मीके, प्रभु आतम गुण धारी ।
 यही विलास मुझ को भी, करो बक्षीस दातारी ॥ प्र० ८ ॥
 चरण दीक्षा अरु मुक्ति, भए तीनों ही गिरनारी ।
 यही तीनों जो बल्लभको, मिले हो हर्ष नहीं पारी ॥ प्र० ९ ॥
 सहस्र दो कम सताईसे, चैत्र द्वादशी सुदि सारी ।
 कियो बल्लभ प्रभु दर्शन, हुआ आनंद शनिवारी ॥ प्र० १०
 ॥ इति ॥

(२२) श्रीगिरिनारतीर्थमडन श्रीनेमिनाथजिन स्तवन ।

बरवा-ताल कहेरवा (चाल नाटक-मजा देते हैं क्या यार)

अर्ज है हे प्रभु नेमिनाथ, भवजल पार लगानेवाले, अं० ॥
 प्रभु तारणतरण जहाज, सब देवनके सिरताज ।
 करो सेवक वंछित काज, प्रभु गिवमार्ग बतानेवाले-प्र० ॥

धरि मनमें प्रभु तुम आस, मैं दास आया तुम पास ।
 करो दुःख दोहग सब नाम, प्रभु पशुगणके वचानेवाले-प्र०
 किया पुण्य पापका विवेक, लिया धार वचन प्रभु एक ।
 रही जगमें उनकी टेक, ललित प्रभुके गुण गानेवाले-प्र० ३
 वन पंडित सोहन ध्यान, किया त्यागके निज अभिमान ।
 लिया विमलातम शुभ ज्ञान, प्रभु मुक्तिके पानेवाले-प्र० ४
 मेहके कस्तूरी अमान, मन चग उमंग विज्ञान ।
 आवे समवसरण मैदान, विबुध प्रभु पूजा करानेवाले-प्र० ५
 जग भाल तिलक भगवान, नमे विद्याधर तजी मान ।
 विचार विचक्षण जान, मित्र सम तमको हटानेवाले-प्र० ६
 ससार समुद्र वहाण, करुणा सागर गुणखाण ।
 प्रभु अंग वसत प्रमाण, भवी मुक्तिके जाने वाले ॥ प्र० ७
 चिदघन आनंद विलास, निज आत्म प्रभाके विकास ।
 मिटे जन्ममरण भय त्रास, प्रभु प्रभुता पद पानेवाले-प्र० ८
 प्रभु आतम लक्ष्मी नाथ, करो बल्लभ हर्ष सनाथ ।
 लिया पकड प्रभु तुम हाथ, प्रभु भव भ्रमण मिटानेवाले ९
 ॥ इति ॥

(२३) श्रीसिद्धाचलतीर्थ स्तवन ॥

(देशी-धई प्रेमवम पातलिया)

प्रभु आदिजिन महाराया, तुम चरणसरणमें आयारे प्र० अं०
 विमलाचल मंडन जगस्वामी, नामी अंतर्यामी ।
 निजगुणगण आतमरामी, मनवंछित शुभफल दायारे ॥ प्र०

आप प्रतापे तीरथ राजे, तीर्थ तीर्थशिर ताजे ।
 आप तीरथ करवा काजे, प्रभु पूर्व नवाणुं आयारे ॥ प्र० २
 यात्रु देश विदेशसे आवे, भावे पाप खपावे ।
 निश्चय मुक्ति वो जावे, इम तुम आगममें गायारे ॥ प्र० ३
 जो इस तीरथपर भवि आया, सोहन ध्यान लगाया ।
 विमलात्मपद निपजाया, विमलाचल तीर्थ कहायारे ॥ प्र०
 कस्तूरी केसर कर्पूरे, विबुधपति मिल पूजे ।
 महामोहरिपु अति धूजे, शत्रुंजय ध्यान लगायारे ॥ प्र० ५
 विद्याधर विचक्षण आके, मित्र सहित प्रभु सेवे ।
 अजरामर शिवपद लेवे, ससार समुद्र मिटायारे ॥ प्र० ६ ॥
 ऋतु वसंतमें जिम तरु फूले, लोक विलासमे झूले ।
 तिम प्रभुदर्शन अनुकूले, महापुण्य उदय भवि पायारे ॥ प्र०
 आत्म लक्ष्मी तुम दरवारे, लेवा हर्षे आयो ।
 बल्लभ प्रभुदर्शन पायो, करो निजसम आत्मरायारे-प्र० ८
 करै युगं वेदं नयन वीरान्दे, दश साधुके लारे ।
 फाल्गुन कृष्णाष्टमी वारे, गनि बल्लभ दर्शन पायारे-प्र० ९
 ॥ इति ॥

(२४) श्रीसिद्धाचलतीर्थस्तवन ॥

(गजल-कव्वाली-चाल-आसक तो होरहाहू)

प्रभु आदिनाथ स्वामी, तुम चर्ण सीस नामी प्र० अंचली ॥
 देवाधिदेव तुम हो, निर्दोष देव तुम हो ।
 तारक देव तुम हो, तुमरे ही गुण मैं गाऊं ॥ प्र० १ ॥

मंडन तीर्थ तुम ही, तीरथ नाथ तुम ही ।
 दीनाके नाथ तुम ही, सेवक मैं तुम कहाउं ॥ प्र० २ ॥
 पूरव नवाणु आया, रायण वृक्ष छाया ।
 देखत तुमरे पाया, परतख मैं मनाउं ॥ प्र० ३ ॥
 प्रणमे वो धन्य काया, गुण गावे धन्य जीहा ।
 मन धन्य जिसमें तुमरा, शुभ ध्यान मैं लगाउं ॥ ४ ॥
 सर मान हंस चाहे, चातक मेघ पानी ।
 जगनाथ ऐसे हरदम, तुमरी सरण मैं आउं ॥ प्र० ५ ॥
 मोहनमूर्ति तारी, मुझ मनमें आ खडी हो ।
 दृष्टि वहा पडी हो, नहीं वौर जन्म पाउं ॥ प्र० ६ ॥
 आतमलक्ष्मी स्वामी, आतमलक्ष्मी दीजे ।
 वल्लभ हर्ष होवे, नहीं और तुमसे चाउं ॥ प्र० ७ ॥

॥ इति ॥

(२५) श्रीसिद्धाचलजी तीर्थस्तवन ॥

(चाल-इतनासदेशा मोरारे)

गिरिराज दर्श पावेरे, जग पुन्यवंत प्राणी ।
 नहीं और कोई जगमें, तीरथ इसके सानी ॥ गि० १ ॥
 यात्रा करे जे भावेरे, तीर्थक नरक न थावे ।
 शुभ देवनरगति पावे, आखीर मोक्ष जावे ॥ गि० २ ॥
 सिद्धि मुनि अनंतारे, करी जन्म भरण अंता ।
 हुए सिद्ध सादि अनंता, सिद्धाचल ध्यान धरता ॥ गि० ३ ॥
 प्रभु आदिनाथ राजेरे, सन्मुख गणधर साजे ।
 गणधर पुंडरीक काजे, गिरिनाम पुडरिक वाजे ॥ गि० ४ ॥

धन्य धन्य पुंडरिक स्वामीरे, मशहूर नेकनामी ।
 गुरुतुल्य मुद्रा पामी, राखी नहीं कुछ खामी ॥ गि० ५ ॥
 सेवा गुरु फल लेवारे, कीनी तुमे गुरु सेवा ।
 सेवक करे तुम सेवा, दीजो निज सम फल मेवा ॥ गि० ६ ॥
 आतम आनंद कारीरे, प्रभु तुमरी जाउं बलिहारी ।
 चिदलक्ष्मी हर्षधारी, बल्लभ मांगे भव पारी ॥ गि० ७ ॥

॥ इति ॥

(२६) स्तवन ॥

(देशी-प्यारे मोहनीया निभाना होगा)

प्रभु मोहे अपना मनाना होगा,
 मनाना होगा बनाना होगा ॥ प्र० अंचली ॥
 शरणागतवत्सल मै आयाहुं सरणे,
 सेवक जानी निभाना होगा ॥ प्र० १ ॥
 सरणा न तुम विन मोहे किसीका,
 अव तो अपना कहाना होगा ॥ प्र० २ ॥
 जला रहाहै मोहे क्रोध दावानल,
 क्षमावर्षासे बुझाना होगा ॥ प्र० ३ ॥
 मान अहि मोहे खाय रहाहै,
 नम्रता देके बचाना होगा ॥ प्र० ४ ॥
 माया प्रपंच मोहे उलझा रहाहै,
 देके सरलता छुडाना होगा ॥ प्र० ५ ॥
 लोभ सागरमें मै डूब रहाहूं,
 संतोष नावा तरना होगा ॥ प्र० ६ ॥

काम सुभट मेरे पीछे लगाहै,
 दे ब्रह्मचर्य हटाना होगा ॥ प्र० ७ ॥
 ज्ञाताके आगे अधिक क्या कहना,
 आखिर पार लगाना होगा ॥ प्र० ८ ॥
 आत्म लक्ष्मी सहर्ष मनाया,
 बल्लभ अपना बनाना होगा ॥ प्र० ९ ॥
 ॥ इति ॥

(२७) श्रीजुनागढमडन श्रीमहावीरस्वामीस्तवन ।

(गुणो चदाजी सीमधर परमात्म पासे जाजो-देशी)

प्रभुवीर जिनंद विनतडी सेवक की मन अवधारिये ।
 करि याद विरुद सेवकको भवोदधिसे पार उत्तारिये । प्र० ।
 प्रभु तारण तरण कहाते हो, सुरनर किन्नरसे गवाते हो,
 सेवकजन मनको भाते हो ॥ प्र० १ ॥
 करुणासागर अंतरजामी, सत चिद आनद आत्मरामी,
 करु विनती प्रभु मै शिर नामी ॥ प्र० २ ॥
 जिने दीना दुःख प्रभु आप अति,
 उने दीना सुख तुमे दे सुमति,
 मै तो सेवक तुमरा नाथ यति ॥ प्र० ३ ॥
 हरि काम करी हरि नाम धर्यो,
 हरि तिसकारण तुम पाव पर्यो,
 सेवक देखी मन मोद भर्यो ॥ प्र० ४ ॥
 त्रिशला नदन वंदन ज्ञानी,

करी सेवा तरे भव भवि प्रानी,
 धरी शील वनी तपसी दानी ॥ प्र० ५ ॥
 आतम लक्ष्मी निजपददाता, जूनागढ मंडन जगत्राता ।
 हर्षे वल्लभ प्रभु गुण गाता ॥ प्र० ६ ॥
 ॥ इति ॥

(२८) श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवन ॥

० (यमाच-मान मद मनसे परिहरना ।)

पार्श्व प्रभु दिलमें नित्य धरिए,
 छोर कुमति कुपंथ पार्श्वप्रभु दिलमें नित्य धरिए ॥ अंचलि ॥
 धन्य जन्म धन्य वर्ष मास धन्य, धन्य दिवस धरिए ।
 पार्श्व प्रभुको दिदार सार, निर्मल नेत्रें करिए ॥ छोर० १ ॥
 धन्य प्रभु गुण ग्राम करे वो, जिह्वा मुख धरिए ।
 काया निर्मल चित्त शुद्ध, चरणी प्रभुके परिए ॥ छोर० २
 तेइसमा प्रभु पार्श्व जिनेश्वर, तेइस परिहरिए ।
 तेइस धार सुधार निजातम, पारस गुण वरिए ॥ छोर० ३
 नयन सुधारस मेघ वरसता, मन देखी ठरिए ।
 कर्म उपाधि शांत करणको, शांतको अनुसरिए ॥ छोर० ४
 आतम लक्ष्मी प्रभुता प्रगटे, हर्ष धरी तरिए ।
 पास दास कटो पास आस, वल्लभ पूरण करिए ॥ छोर० ५
 ॥ इति ॥

(२९) श्रीपार्श्वनाथजिन स्तवन ॥

(लेलि लेलि पुकारे वनमे ए चाल)

प्रभु पार्श्वनाथ जगस्वामी, घटघटके अंतरजामी ।
 करुं विनती मस्तक नामी, सुनो जगजीवन विसरामी । प्र० १

तुम विन नहीं जग कोई मेरा, मोहे आसरा हरदम तेरा ।
 कीजे करुणानजर एकवेरा, मिटे जनम मरण जगफेरा । प्र०२
 कांति अदभुत वल्लभ थारी, देखी चतुर लहे लाभ भारी ।
 सोहन मुखमुद्रा प्रभु प्यारी, होवे निरखी विमल नरनारी ३
 कस्तूरी प्रभुपूजन अंगे, भवी माने सस्ती उमंगे ।
 प्रभु मेघध्वनिसम गाजे, विज्ञान अनंता विराजे ॥ प्र० ४ ॥
 जिन विद्या विचार न पारा, सुरनरगणपति सब हारा ।
 पुण्यवान परमपद पावे, भावे करुणासमुद्रको ध्यावे । प्र०५
 प्रभु सागरवरगंभीरा, कंचनगिरिसम अतिधीरा ।
 वनी आतमकारज कीना, निजरूप चिदानंद चीना ॥ प्र० ६ ॥
 मुंबई सन एक नैव संत चारा, कार्तिकसुदि पूनम बुधवारा ।
 आत्मलक्ष्मी प्रभुका दीदारा, किया वल्लभ हर्ष अपारा । प्र०७

(३०) मुंबई चैत्यपरिपाटी स्तवन ॥

(जगलो-महावीर तोरे समवसरणकीरे-चाल)

जिनंदा तोरे चरणकमलकीरे, सेवा भवपारउतारी,
 करे द्रव्यभाव नरनारी, साधु भावे अधिकारी
 जिनंदा तोरे चरण कमलकीरे ॥ अंचली ॥
 गोडीपारस ध्याउंरे, महावीर गुण गाउंरे ।

१ इसमें सवत् १९७८ बम्बई शहरमें चतुर्मास रहे साधुओंके नाम प्रकारान्तरसे दिशाएहें ।

२ मुंबई शहरके घरदेहरासरविनाके बडे सतारा मंदिरके मूलनायकका नाम बडे अक्षरोंमें समझना ।

आदिजिन अंतरजामी, शांतिप्रभु शांतिधामी,
 नमिनाथ जिनेश्वर स्वामी ॥ जिनंदा १ ॥
 पांच जिनमंदिररे, पायधोनी उपररे ।
 एक चाल गोडीजी सामे, चिंतामणिपारस नामे,
 सेवक मनवंचित्त पामे ॥ जिनंदा २ ॥
 लालवाग सारारे, पासचिंतामणि प्यारारे ।
 वालकेश्वर आदिजिनंदा, गोडीपारस जिनचंदा,
 सुपार्श्वनाथ सुखकंदा ॥ जिनंदा ३ ॥
 शांतिप्रभु सोहेरे, कोलावे मन मोहेरे, ।
 है मंदिर कोटमें भारी, शांतिप्रभु शांतिकारी,
 दुःख दोहग दूर निवारी ॥ जिनंदा ४ ॥
 महावीर प्रभु राजेरे, वाजार झवेरी गाजेरे ।
 पासे पारसजिन मंदिर, दो मंदिर मांडवीवंदर,
 अनंत आदिजिन सुंदर ॥ जिनंदा ५ ॥
 भायखले वालोरे, आदिनाथ भालोरे ।
 प्रभुदर्शनकी वलिहारि, आतमलक्ष्मी दातारी,
 वल्लभ मन हर्ष अपारी ॥ जिनंदा ६ ॥
 कांतिविजय मुनिरायारे, प्रवर्त्तकपद दीपायारे ।
 यात्रा मुंवाइकी सारी, साधु दोयें दंस और चारी,
 पायो अति आनंद भारी ॥ जिनंदा ७ ॥
 सवत दो हजारारे, छबीस कम धारारे ।
 कार्तिक पूनम बुधवारा, शत्रुंजय पटको जुहारा,
 जिनशासन जग जयकारा ॥ जिनंदा ८ ॥

(३१) मुंबई यात्रा पचीसी

(लावणी-देशी-ऋषभजिनद विमलगिरि)

तीर्थकर गुणगान करणसे, निज आतम उद्धारारे ।
 उत्कृष्टा परिणाम वढे शुभ, तीर्थकरपद धारारे । अंचली
 दर्शन प्रभुका दर्शनशुद्धि, कारण साधन सारारे ।
 जिनदर्शन निज आतमदर्शन, आवागमन निवारारे । ती० १
 सुंदर मुंबई वंदर अंदर, जिनमंदर हैं सतारारे ।
 मूलनायकके नामसे वर्णन, सक्षेपे हितकारारे ॥ ती० २ ॥
 पायधोनीके उपर सोहे, मंदर पांच उदारारे ।
 श्रीगोडीपारस जिनदर्शन, सम्यग दर्शन कारारे ॥ ती० ३ ॥
 सामला पारसनाथ साथमें, भवजल पार उतारारे ।
 पांच प्रमाद निवारण नमीए, ऊपर पांच गभारारे ॥ ती० ४ ॥
 त्रिशलानंदन वीर प्रभुजी, शासनके सरदारारे ।
 दूसरे मंदर नमिथे भावे, वर्धमान सुखकारारे ॥ ती० ५ ॥
 तीसरे मंदर प्रथम जिनेश्वर, ऋषभदेव प्रभु प्यारारे ।
 ऊपर दौय गभारा भावे, नमिए आनंद कारारे ॥ ती० ६ ॥
 शातिनाथ प्रभु शांतिकर्ता, चौथे मंदर धारारे ।
 ऊपर श्रेणीबद्ध जिनेश्वर, नमिए आनंद भारारे ॥ ती० ७ ॥
 इक्कीसमा नमिनाथ जिनेश्वर, भवदुःख भंजनहारारे ।
 ऊपर एक गभारे प्रभुजी, पंचमीगति दातारारे ॥ ती० ८ ॥
 गोडीजीकी चालके सामे, गुलालवाडी मझारारे ।
 चिंतामणि पारस पारसमणि, आनंद मंगल कारारे ॥ ती० ९ ॥

सिद्धगिरि अष्टापद आवूजी, समेतशिखर गिरनारारे ।
 काम नकाशी सुंदर ऊपर, चोमुख प्रतिमा चारारे ॥ ती० १० ॥
 माधोवागके पास प्रभुजी, लालवाग मनोहारारे ।
 श्रीचिंतामणि पार्श्वजिनेश्वर, दर्शनसें अध जारारे । ती ११ ।
 चमक दमक बाजार झवेरी, जिनमंदर दो उदारारे ।
 गोडीपार्श्वजिन नाथ सुहंकर, सेवे नर और नारारे । ती १२
 दूजे मंदर महावीर स्वामी, सावण छठ बुधवारारे ।
 कांतिविजय प्रवर्त्तकहाथे, वास प्रतिष्ठा धारारे । ती १३ ।
 मांडवी बंदर दो जिनमंदर, कच्छीदशा ओसवारारे ।
 अनंतनाथ जिन नमिए भावे, अंत होवे संसारारे । ती १४।
 सुंदर सिद्ध घर रचना सोहे, उपर तीन गभारारे ।
 मन वच काया दर्शन करिए, नीचे ज्ञान भंडारारे । ती १५।
 कच्छी वीसा मंदर दूजा, आदिजिनंद जयकारारे ।
 एक गभारा उपर जिनवर, दर्शन दुख हरनारारे । ती १६।
 चलना समलकर कोटमे प्यारे, वस्तु विविध प्रकारारे ।
 देखना वचना ट्राम मोटरसे, वग्धी और खटारारे । ती १७।
 अचिरानंदन शांति जिनेश्वर, शांति जगत करनारारे ।
 बंदो उपर वीर पारस जिन, आदि सव परिवारारे । ती १८।
 कोलावे शांतिजिन दर्शन, टारे मदन विकारारे ।
 द्रव्यसमुद्र किनारा देखी, भावसमुद्र विचारारे ॥ ती १९ ॥
 उल्लंघी बाजार अनेके, बालकेश्वरका किनारारे ।
 नाथ सुपारस सप्तम जिनवर, दर्शन सत भय टारारे । ती २०।

तीनवत्तीके पासे दूजा, वावू मंदर सारारे ।
 आदिनाथ प्रभु वंदी उपर, पारस आदि जुहारारे । ती २१ ।
 समुद्रकिनारे तीसरा मंदिर, पन्नालाल चमकारारे ।
 श्रीगोडीपारस जिन दर्शन, जगजीवन आधारारे । ती २२ ।
 भांयखले मंदर अति सुंदर, डुंक शत्रुंजय धारारे ।
 मूलनायक आदिजिन सन्मुख, अजितनाथ गुणधारारे ती २३ ।
 प्रदक्षिणामें रायण नीचे, ऋपभ चरण मनोहारारे ।
 वंदो भावे यात्रा पचीसी, मुंबइ हर्ष अपारारे ॥ ती २४ ॥
 वेद मुनि निधि इंदु वर्षे, कातिविजय सरदारारे ।
 आत्म लक्ष्मी हर्षे बलभ, जिनशासन जयकारारे । ती २५ ।

॥ इति ॥

(३२) श्रीशंखेश्वरपार्श्वनाथ जिनस्तवन ॥

(चिंतामणिस्वामीरे-देशी)

संखेसर स्वामीरे पार्श्व प्रभु नामीरे
 भावे करुं वंदना होजी ।
 पारस प्रभु वंदे सुरनर पाय,
 पारस प्रभु सेवे शिवसुख थाय-सखेसर-अंचलि ॥
 काशी देश बनारसी, राजा श्री अश्वसेन ।
 वामा राणी पतिव्रता, विलसे सुख दिन रेन ।
 पारस प्रभु पुरिसादानी कहाय-सं० १ ॥
 दश अवतारी पासजी, जन्मे दशमी पोष ।
 वदि दश दिंशि उत्सव हुआ, घर घर अति-संतोष ।
 पारस प्रभु नाम दियो माय ताय-सं० २ ॥

दश भवको वैरि बन्धो, योगी कमठको जीव ।
 पंचाग्नि तप तापता, करता कष्ट सदीव ।
 पारस प्रभु नगरके बाहिर आय-सं० ३ ॥
 नगर बनारसकी प्रजा, तापस वंदन काज ।
 विध विध सामग्री ग्रही, जाता देख समाज ।
 पारस प्रभु नोकर पूछे बुलाय-सं० ४ ॥
 जानके अवधिज्ञानसे, परजीवन उपकार ।
 देखनके मिस आइया, श्री श्रीपार्श्व कुमार ।
 पारस प्रभु बोले तपसी सुनाय-से० ५ ॥
 कष्ट क्रिया विन ज्ञानके, कष्ट मात्र फल देत ।
 विन जाने नहीं वीजते, वीज कृपिजन खेत ।
 पारस प्रभु जोगी कहे सकपाय-सं० ६ ॥
 तुम क्या जानो धर्मको, सुन हो राज कुमार ।
 क्या जाने विधि योगकी, अश्व खेलावनहार ।
 पारस प्रभु शांति धरी वदे वाय-सं० ७ ॥
 दया धर्मको मूल है, तुझ तपमें नहीं सोय ।
 जलते तुझ इस काष्ठमें, नाग दुःखी है जोय ।
 पारस प्रभु दीना काष्ठ फडाय-सं० ८ ॥
 नाग निकाला तडफता, दिया मंत्र नवकार ।
 चमत्कार देखी भणे, जग पारस जयकार ।
 पारस प्रभु धरणींद्र नाग वनाय-सं० ९ ॥
 कमठ तपी अज्ञान तप, मेघमाली हुआ देव ।
 छूटी नहीं सिध्यात्वसे, अज्ञानीकी देव ।

पारस प्रभु साथे वैर वधाय-सं० १० ॥
 दान देइ वरसी प्रभु, त्यागन कर ससार ।
 आतम लक्ष्मी कारणे, लीनो सयम धार ।
 पारस प्रभु वल्लभ हर्ष मनाय-स० ११ ॥

॥ द्वितीय विभाग-ढाल दूसरी ॥

(देशी-बलिहारी बलिहारी)

बलिहारी हितकारी उपकारी जगनाथ हो सुखकारी
 पारस प्रभु दर्शन आनंद पामिएजी । अंचली ॥
 चरण करण साधी, आधी न व्याधि उपाधि ।
 विचरता निर्मम निरहंकारी-जगनाथ० १ ॥
 ध्यानमें खडे ध्यानी, आयो कमठ मानी ।
 दिए उपसर्ग विविध प्रकारी-जगनाथ० २ ॥
 मुसलधार घर्षे, विजली चमकारे हर्षे ।
 गर्जता आया पूर भारी-जगनाथ० ३ ॥
 थीर मेरु सम धीर, नासा तक आयो नीर ।
 धरणींद्र आयो आसन चारी-जगनाथ० ४ ॥
 नागका रूप करी, छत्र फणासे धरी ।
 कमल चरण नीचे धारी-जगनाथ० ५ ॥
 कमठ भगायो मारी, शरणागत माया हारी ।
 माफ कसूर करो मारी-जगनाथ० ६ ॥
 खामी अपराध वामी, मिथ्या समकित पामी ।
 तारो उपकारी मुझ अपकारी-जगनाथ० ७ ॥
 कमठे तकलीफ दीनी, धरणींद्रे भक्ति किनी ।
 नाथ दोनों पर समता वारी-जगनाथ० ८ ॥

मन वच काया शुद्ध आराधे, नर नारीको वृंद-से० ७ ॥
 आत्म लक्ष्मी निज गुण प्रगटे, बल्लभ हर्ष अमंद-से० ८ ॥
 ॥ इति ॥

(३५) करचलिया मंडन श्रीसंभवनाथ जिन स्तवन ॥

(मल्लि जिन नाथजी व्रत लीजेरे-देशी)

संभव जिन नाथ जी सुख कारी रे,
 करे दर्शन धन्य नर नारी संभव० अंचली ॥
 नृप जितारी कुल चंदारे, माता सेना राणीना नंदारे,
 सेवे सुर नर मुनि पति वृंदा-संभव० ॥ १ ॥
 प्रभु चोत्रीस अतिशय धारी रे, गुण पांत्रीस वाणी सारीरे,
 दिये दोष अढार निवारी-संभव० ॥ २ ॥
 प्रभु रागी नही ने हूं रागी रे, मारी पाछल माया लागी रे,
 तुम दर्शन थी मति जागी-संभव० ॥ ३ ॥
 नरभव सामग्री पामी रे, पाम्यो दर्शन पुण्ये स्वामी रे,
 करुं विनती प्रभु शिर नामी-संभव० ॥ ४ ॥
 हवे रागी थयो तुम केरो रे, हूं छूं तुम चरणांनो चैरो रे,
 मारो टालो प्रभु भव फेरो-संभव० ॥ ५ ॥
 तमे परमात्म पद लीधुं रे, निज आत्म कारज कीधुं रे,
 चित्त में पण तेमां छे दीधुं-संभव० ॥ ६ ॥
 प्रभु संभवनाथजी मलियारे, दुःखरोग सोग सहु टलियारे,
 मारा मनना मनोरथ फलिया-संभव० ॥ ७ ॥
 ओगणीसो इकोतेर सारा रे, सुदि वैशाख छठ गुरुवारारे,
 थयो करचलिया जयकारा-संभव० ॥ ८ ॥

प्रभु दर्शन आनंद कारीरे, आतम लक्ष्मी उर धारी रे,
मांगे हर्ष वल्लभ भव पारी-संभव० ॥ ९ ॥

॥ इति ॥

(३६) झगडीया तीर्थमंडन श्रीआदिजिनस्तवन ॥

(गरबो-देशी-पूनमनादनी खीली पूरी अहीरे ।)

आदिनाथ जिनेसर सेवक पार उतारनारे ।

अपना तारण तरण विरुद सदा सभारनारे ॥ अं० ॥

युगला धर्म निवारियो, द्रव्य थकी प्रभु आप ।

वैसे भाव निवारिए, चेतन जड सताप ।

फिर नहीं अंतर कोई हम तुम रत्ती भारनारे-आ० १॥

कर्मउपाधि छोडके, हम तुम एक स्वरूप ।

द्रव्यार्थिक शुद्ध नय करी, चेतन शुद्ध स्वरूप ।

कर्म उपाधि कारण चरना उचरना विचारनारे-आ० २

राम रमे निजरूपमें, रहम करे सो रहीमें ।

पारस परसे रूपको, इस विध नाम असीम ।

इक इक गुणको लेकर नाम अनामी धारनारे-आ० ३

सोहं तत्त्वमसि विभू, पाक अनलहक जात ।

एक अनेक जिनेसरु, शाश्वत सिद्ध अजात ।

पाना तुझ आलंबन रूप निजातम धारनारे-आ० ॥४॥

तीर्थ झगडीया मंडनो, खंडन जग जंजाल ।

नंदन नाभिरायको, मरुदेवाको लाल ।

आतम लक्ष्मी हर्षे वल्लभ आतम वारनारे-आ० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

(३७) वेरावल वंदर मंडन श्रीसुमतिनाथ जिनस्तवन ॥

(लावणी-मराठी)

सुमति नाथ प्रभु सुमति दाता, त्राता सुमति प्राणी रे ।
 गाता सुमति ज्ञानी वानी, सुमति मनमें आनी रे-सु० १॥
 सुमति मारग सेवन करके, कुमति मार्ग परिहरता रे ।
 कुगति दूर हरी भवि प्राणी, सुगतिमें पग धरता रे-सु० २
 सुमतिनाथ पंचम प्रभु भजके, पंचाश्रवको तजता रे-।
 संवर पांचको धारी मारग, पंचम गतिका सजता रे-सु० ३
 भावे पंचम प्रभुको नमके, पाच प्रमादको वमता रे ।
 पांच महाव्रत विधिसे धारी, पांच आचारमें रमता रे-सु० ४
 पंचम साधुपदको साधी, पंच परमेष्ठि सिमरता रे ।
 समिति पांच प्रभुकी आराधी, पंचम ज्ञानको वरता रे-सु० ५
 पंचम प्रभुके प्रभावसे पंचम, ज्ञानगतिको धरता रे ।
 पंच प्रपंच जगतके छोरी, चिदघन रूप विचरता रे-सु० ६
 वेरावल वंदर मंदरमें, पंचम प्रभुका दिदारा रे ।
 आतम लक्ष्मी कारण कीना, वल्लभ हर्ष अपारा रे-सु० ७॥

॥ इति ॥

(३८) सोरठ-वनथली मंडन श्रीशीतलनाथ जिनस्तवन ।

(देशी-मल्लिजिन नाथजी व्रत लीजेरे)

शीतल जिन नाथजी मुनें तारो रे ।

भवसिधु पार उतारो-शीतल जिन० अंचली ॥

प्रभु दक्षिणावर्त्तनो कंबू रे, धर्म सार्थतणो तूं तंबू रे,

भव दव शमवाने अंबू-शीतल जिन० ॥ १ ॥

प्रभु त्रण अक्षरनुं नाम रे, पण अनंत गुणोनुं धाम रे,
 जगजीवने दे विसराम-शीतल जिन० ॥ २ ॥
 भवी शीतल नाथने ध्यावे रे, जोडी हाथने माथ नमावे रे,
 गुण शीतलता प्रभु पावे-शीतल जिन० ॥ ३ ॥
 प्रभु नाम स्थापना दीसे रे, द्रव्य राजू सात विसेसे रे,
 भाव भावे भवी मन ईसे-शीतल जिन० ॥ ४ ॥
 प्रभु देवकरणनी शक्ति रे, करे नर नारी शुभ भक्ति रे,
 लहे फल तस अंते मुक्ति-शीतल जिन० ॥ ५ ॥
 वनथली मंडन जिनराया रे, मुज मनथली मांही समाया रे,
 रेहजो अविचल आतमराया-शीतल जिन० ॥ ६ ॥
 कर मुनि निधि इंदु वरसे रे, आतमलक्ष्मी अति हरसे रे,
 वल्लभ शीतल गुण फरसे-शीतल जिन० ॥ ७ ॥

॥ इति ॥

(३९) मंगलपुर-मागरोल मंडन श्रीपार्श्वनाथ जिनस्तवन ॥

(माढ-मेरा गमका तराना-चाल)

मंगल पुर मंडन भवदुख खंडन पार्श्वनाथ महाराज,
 प्रभु वामानंदन मदन निकंदन करुं नित्य वदन पार्श्व०-
 पुरिसादानी पार्श्व जिनेश्वर, तेवीसमा भगवंत ।
 भावअरिने दूर करी धरी, सज्ञा श्रीअरिहंत-म० ॥ १ ॥
 अरिहंत सिमरु अरिहंत सेबु, ध्यान धरु अरिहंत ।
 अरिहंत थावा कारणे प्रभु, करु करमनो अत-म०-॥ २ ॥
 तेवीसमा प्रभु ध्यान धरीने, त्यागुं विषय तेवीस ।
 तेवीस सूत्रकृतांग भणीने, कदी करु नहीं रीस-म०-३ ॥

कर्त्ता मंगलमें प्रभु मंगल, धरता मंगल वृंद ।
 हर्त्ता अपमंगल मंगलपद, दीजे मोहे जिनंद-मं० ॥ ४ ॥
 धन्य दिवस घडी धन्य जनम मुझ, धन्य छे मुझने आज ।
 जाग्यो अनुभव आज अपूरव, पाया दरस जिनराज मं० ५
 पासरहित नव पल्लव पारस, दास हरो भव पास ।
 मंगल पुर पारस प्रभु भेटी, चाहुं मंगल पुर वास-मं० ॥ ६ ॥
 ओगणीसो तोतेर मृगपूनम, शांति सनात प्रचार ।
 आत्म लक्ष्मी शांति प्रगटी, वल्लभ हर्ष अपार-मं० ॥ ७ ॥
 ॥ इति ॥

(४०) प्रभास पाटण चैत्यपरिपाटी स्तवन ॥

(जगलो-महावीर तोरे समवसरणकीरे-चाल)

जिनंदा तोरे चरण कमलकीरे,
 सेवा भव पार उतारी, दुख दोहग दूर निवारी ।
 सेवक शिव पद दातारी-जिनंदा० अंचली ॥
 आदिनाथ नमिण्णरे, पाप सब गमिण्णरे ।
 भव अटवीमें नवि भमिण्ण, पर रूप विभावको वमिण्ण,
 निज आत्म रूपमें रमिण्ण-जिनंदा० ॥ १ ॥
 अजित नाथ ध्याउं रे, अजित पद पाउं रे ।
 निशदिन प्रभुके गुण गाउं, गुणियनसे गुणियन थाउं,
 आत्म शक्ति प्रगटाउं, जिनंदा० ॥ २ ॥
 महावीर जिन चंदारे, शिव सुख कंदारे ।
 सेवे नर नारी वृंदा, प्रभु दर्शन होत आनदा,
 टरे नमत्तां भवभव फंदा-जिनंदा० ॥ ३ ॥

मल्लिनाथ भजिए रे, राग द्वेष तजिएरे ।
 पर दल बल पलमें हरिए, मुक्ति जयश्रीको वरिए,
 फिर जन्म मरण नवि करिए-जिनंदा० ॥ ४ ॥
 पार्श्वनाथ स्वामीरे, दादा पद धामीरे ।
 घट घटके अंतर्यामी, करो निजसम आतमरामी,
 मांगु ए मस्तक नामी-जिनंदा० ॥ ५ ॥
 सुविधि जिन भेटीरे, कुविधि सब मेटीरे ।
 त्यागी तृष्णा मोहचेटी, अविरति कुमतिको फेटी,
 मै धारी निज गुण पेटी-जिनंदा० ॥ ६ ॥
 चंद्रप्रभ राजेरे, तीर्थ पति गाजेरे ।
 सब देवनके सिरताजे, दर्शनसे अघ तम भाजे,
 गुण ज्ञान अपूर्व छाजे-जिनंदा० ॥ ७ ॥
 शांति जिन दातारे, शांति सुख सातारे ।
 शांति शांतिगुण गाता, सुख शांति शिव पद पाता,
 शांति चरणी मै राता-जिनंदा० ॥ ८ ॥
 बालब्रह्मचारीरे, जग उपकारीरे ।
 श्री नेमिनाथ बलिहारी, करुं वंदन वार हजारी,
 पाउं भवजलधि पारी-जिनंदा० ॥ ९ ॥
 संवत शिखि चारारे, युग युग्म धारारे ।
 निर्वाण वीर निरधारा, पोहदसमी दिन बुधवारा,
 किये दर्शन आनंदकारा-जिनंदा० ॥ १० ॥
 यात्रा भवतारीरे, दर्शन शुद्धिकारीरे ।

प्रभास पाटण सुखकारी, आतमलक्ष्मी उरधारी,
वल्लभ मन हर्ष अपारी-जिनंदा० ॥ ११ ॥

॥ इति ॥

(४१) उना (सोरठ) चैत्यपरीपाटी स्तवन ॥

(जगलो-महावीरतोरे समवसरणकीरे-चाल)

जिनंदा तोरे चरणकमलकीरे,
सेवा देवाधिदेवा, करते नर नरपति देवा,
शिवसुख अमृतफल लेवा-जिनंदा० ॥ अंचली ॥
उना सहर राजेरे, पांच प्रभु साजेरे ।
आया मैं तुम दरवाजे, पाया दर्शन प्रभु आजे,
पंचमी गति लेवा काजे-जिनंदा० ॥ १ ॥
आदि जिन स्वामीरे, सादि सांत वामीरे ।
पद सादि अनंता पामी, हुए सत चित्त आनंद धामी
मांगु ए पद सिर नामी-जिनंदा० ॥ २ ॥
भूमिगृह अंदररे, प्रभु दोय सुंदररे ।
श्रीपार्श्व अमिझरा मोहे, आदि प्रभु मूर्त्ति सोहे,
अंतर्दृष्टि पडिवोहे,-जिनंदा० ॥ ३ ॥
भूमिगृह वारेरे, दीपे दोय गभारेरे ।
कुंथु जिन साताकारी, मल्लि जिन आनंद धारी,
प्रणमुं भावे भय वारी-जिनंदा० ॥ ४ ॥
द्वितीय चैत्य धारीरे, श्रीसंभव जिन जुहारीरे ।
संभव पज्जव उर धारी, असंभव पज्जव वारी,
अभ्यंतर दृष्टि विचारी-जिनंदा० ॥ ५ ॥

नमुं प्रभु शांतिरे, टरे भव भ्रांतिरे ।
 शांति जिन शांति कारी, अशांति दूर निवारी,
 दो शांतिपद दातारी-जिनंदा० ॥ ६ ॥
 समवसरण छोटारे, दर्शन फल मोटारे ।
 एक पासे सभव स्वामी, करी दर्शन आनंद पामी,
 अड मंगल जोडी स्हामी-जिनंदा० ॥ ७ ॥
 चोथे चैत्य सोहेरे, सेवक मन मोहेरे ।
 प्रभु पारस पुरिसादानी, दानी ध्यानी अति ज्ञानी,
 जग और न जास समानी-जिनंदा० ॥ ८ ॥
 बालब्रह्मचारीरे, जग उपकारीरे ।
 मुद्रा प्रभु शात सुधारी, नेमीश्वर राजुल तारी,
 जग आवागमन निवारी-जिनंदा ॥ ९ ॥
 आत्मानंद धारीरे, शिव लक्ष्मी सारीरे ।
 ओगणीसो तोतेर वर्षे, पाया दर्शन पौपी हर्षे,
 बल्लभ भवजलधि तरसे-जिनंदा० ॥ १० ॥

॥ इति ॥

(४२) अजारा मंडनश्रीपार्श्वनाथ जिन स्तवन ॥

(देशी-मुदर सामलीया)

सरणा धार लिया, चिदघन आतमरामी
 रूप पिछान लिया, पास अजारा स्वामी-स० अंचली ॥
 तेवीममा प्रभु पार्श्व कहाया, पुरिसादानी नाम धराया,
 घट घटके विसरामी-सरणा धार लिया ॥ १ ॥

कल्याणक प्रभु पांच तुमारे, आराधकको पार उतारे,
 कर निजसम शिवगामी-सरणा धार लिया ॥ २ ॥
 जिनवरको जिन वन कर ध्यावे, ध्याता ध्यानसे जिनपद पावे,
 अजरामर पद धामी-सरणा धार लिया ॥ ३ ॥
 प्रभु दर्शनमे पद् दर्शन है, पद् दर्शनमें न प्रभु दर्शन है,
 नहि नदीमें नदीस्वामी-सरणा धार लिया ॥ ४ ॥
 पद् दर्शन एकांग मनावे, प्रभु दर्शन सर्वांग क्हावे,
 जय जय अंतर्यामी-सरणा धार लिया ॥ ५ ॥
 पुण्य उदय प्रभु दर्शन पायो, आत्म लक्ष्मी हर्ष सवायो,
 भेद न सेवक स्वामी-सरणा धार लिया ॥ ६ ॥
 ओगणीसो तोतेर पोपमासे, यात्रा लाभ मल्यो उह्लासे,
 बल्लभ आत्मरामी-सरणा धार लिया ॥ ७ ॥

॥ इति ॥

(४३) दीवचंदर तीर्थ स्तवन ॥

(लावणी-देशी-ऋषभ जिनद विमलगिरि मडन)

दीव चंदरमें श्रीजिनमदर, यात्रा आनंदकारी है ।
 तीन गभारे अंदर सुंदर, मूर्ति मोहन गारी है ॥ अंचली ॥
 नैमिनाथ बालाब्रह्मचारी, मदन कदनके जारी है ।
 दर्शन ब्रह्मचर्य गुणधारी, आनंद मंगल कारी है-दीव०१
 शांतिनाथ शांतिके कर्ता, जगजीवन उपकारी है ।
 शांतिकारण शांतिप्रभु सेवा, भवदव ताप निवारी है-दीव०२
 नवलक्खा पारस प्रभु सोहे, मोहे नर और नारी है ।
 मोह कामको दूर निवारी, निर्मोही पद धारी है-दीव०३

श्रीजिनराज चरण सेवासे, निज आतम उद्ध
जो जस सेवे तस सम होवे, अभ्यंतर अधिकारी
आतम लक्ष्मी हर्ष प्रदर्शक, ऐतिहासिक चित्र
वल्लभ सुंदर निज मंदिरमे, देखे प्रभु दिलदारी
॥ इति ॥

(४४) देलवाडा मंडन श्रीचिंतामणिपार्श्व जिन
(देशी विमलाचल विमला प्राणी)

चिंतामणि पासजी नित्य वंदो ।
भवभवनां पाप निकंदो-चिंतामणि-अंचली ॥

प्रभु तेवीसमा जिन राया, अश्वसेन वामादेवी जा
अहि लंछन चरण सुहाया, देवदेवी मली हुलराया-
चैतर वदि चोथ सुहावे, देवलोकथकी चवी आवे ।
कल्याणक च्यवन कहावे, देवदेवी मली गुणगावे-
दशमी वदि पोपनी सारी, जनमे प्रभु आनंदकारी ।
जगजीवन अति उपकारी, गावे मंगल सुर नरनारी-चि
देई दान प्रभु बन्या दानी, वदि पोप एकादशी मानी
लेई दीक्षा बन्या प्रभु ध्यानी, करी मोहकरमनी हानि-चि
वदि चोथ चैतरनी जानो, प्रभु केवलज्ञान वखानो ।
अतिशय सपूर्णनो टाणो, धन्य दर्श करे रकराणो-चि०
थापी तीरथ चार प्रकारी, अष्टमी श्रावण उजियारी ।
वर्या कर्म खपी शिवनारी, दिया आवागमन निवारी-चि०
आराधे कल्याणक भावे, आतम लक्ष्मी फल पावे ।
धरी हर्ष वल्लभ गुणगावे, देलवाडे दरस प्रभु थावे-चि०७

॥ इति ॥

(४५) ॥ महुवा मंडन श्रीजीवतस्वामी वीर प्रभु स्तवन ॥

(देशी-गिरिवर दरिसन विरला पावे)

प्रभु दर्शन कोई भविजन पावे,

आत्म दर्शन जेहथी थावे-प्रभु० ॥ १ ॥

दर्शनथी दर्शन गुण प्रगटे,

जिन दर्शन विन दर्शन नावे-प्रभु० ॥ २ ॥

प्रभु दर्शन विन जीव अभविया,

उपरिम त्रैवेयक सुधी जावे-प्रभु० ॥ ३ ॥

पण आत्म दर्शन विन प्रगटे,

चार गतिमां गोतां खावे-प्रभु० ॥ ४ ॥

प्रभु दर्शन महावीरनुं दर्शन,

स्यादवाद वस्तु वतलावे-प्रभु० ॥ ५ ॥

जीवत स्वामीना दर्शन करतां,

मधुमती नगरीमां आनंद आवे-प्रभु० ॥ ६ ॥

आत्म लक्ष्मी निजगुण प्रगटे,

वल्लभ प्रभु दर्शन हर्पावे-प्रभु० ॥ ७ ॥

॥ इति ॥

(४६) दाठा मंडन श्रीशांतिनाथ जिन स्तवन ॥

(देशी-थई प्रेम वश पातलीया)

प्रभु शांति जिन सुखकारी,

तुमचरण सरण बलिहारीरे-प्रभु० अंचली ॥

शांतिनाथ प्रभु शांति करता, करता जगजन साता ।

हरता जगजनकी असता, जाडं शांतिनाथ बलिहारीरे-प्र० १

नाम शांति और स्थापना शांति, द्रव्य शांति भाव शांति ।
 अज अचर अमर अम्रंति, शांतिजिन शांतिकारीरे—प्र०२
 नाम अनुपम काम अनुपम, धाम अनुपम धारी ।
 अनुपम प्रभु सेवा सारी, अनुपम फल शिव दातारीरे—प्र०३
 सोलमा प्रभुकी सेवा करके, सोल कपायने हरसुं ।
 उपसर्ग सहन सोल करसुं, वनसुं निजरूप विहारीरे—प्र०४
 शांति करण कारण प्रभु शांति, दाठा नगर मझारी ।
 आतम लक्ष्मी उरधारी, बल्लभ मन हर्ष अपारीरे—प्रभु० ५
 ॥ इति ॥

(४७) तालध्वज-तलाजा तीर्थ स्तवन ॥

(निदानी ताल धीपचधी)

कररे कररे कररे कररे सुमति जिन
 दर्शन शुद्ध मन कररे—अंचली ॥
 तालध्वज गिरि मडन प्रभुजी, खडन अघदल कररे ।
 अभ्यंतर शत्रुने जीती, नाम शत्रुंजय धररे ४—सु० ॥ १ ॥
 सुमति नाथ प्रभु सुमति दाता, कुमति कुगति पथ हररे ।
 समिति गुप्तिथी सुगति साथी, अचर अटर पद वररे ४—सु०२
 पंचम प्रभु पंचमगति स्वामी, पंचम ज्ञान प्रखररे ।
 पायो पाच महाव्रत साथी, आश्रव पाच विखररे ४—सु०॥३॥
 हुं प्रभु दीन तुं दीनदयालु, कर करुणा दीन पररे ।
 नाथ सेवकने निजसम कीजे, तारक विरुद सिमररे ४—सु०४
 पुण्योदय भटकत प्रभु पायो, आतम लक्ष्मी धररे ।
 हर्ष धरी बल्लभ गुण गावे, जावे भवजल तररे ४—सु० ॥५॥

(४८) ॥ अगासीतीर्थ मंडन श्रीमुनिसुव्रतस्वामी स्तवन ॥

(देशी-भजनियोंकी । वाला वेगे आवोरे)

सरणे तुम आयारे, शिवसुर दायारे,

स्वामी सुनो विनती हो जी ।

मुनि सुव्रत नाथ अरज अवधार,

करुणासिंधु सेवक पार उतार ॥ सरणे० अंचली ॥

जगदीश्वर जगनाथजी, जगबंधु जगस्वाम ।

जगतारक जगवत्सला, जगनायक जिन नाम ।

करुणासिंधु अपना विरुद संभार ॥ सरणे० ॥ १ ॥

वीतराग निर्दोष है, तीर्थकर भगवान ।

चार अनंता पायके, चिदधन सुखकी खान ।

करुणासिंधु अजर अमर पद धार ॥ सरणे० ॥ २ ॥

दुरित टरे दरिसन किये, बंदन वांछित दाय ।

पूजन लक्ष्मी कारणे, कल्पतरु सम भाय ।

करुणासिंधु तूं जगजीव आधार ॥ सरणे० ॥ ३ ॥

क्रोध मान माया रति, लोभ प्रेम भय हास ।

मत्सर अरति शोक मद, झूठ अदत्त विलास ।

करुणासिंधु हिंसा दूर निवार ॥ सरणे० ॥ ४ ॥

नीद अज्ञान अठार ए, दोष नहीं तुम देव ।

दोषरहित होने लिए, करते जन तुम सेव ।

करुणासिंधु गुणमणि रयण भंडार ॥ सरणे० ॥ ५ ॥

आत्मलक्ष्मी पामिया, हे जिन दीनदयाल ।

१ सेवकको दीजिए, सरण पख्यो तुम वाल ।
 ऋणासिधु पुरुपोत्तम आचार ॥ सरणे० ॥ ६ ॥
 दु रिसि निधि चंद्रमा, मौन एकादशी सार ।
 तीर्थ अगासीमें हुआ, मंगल जय जयकार ।
 ऋणासिंधु बल्लभ हर्ष अपार ॥ सरणे० ॥ ७ ॥

॥ इति ॥

(४९) ॥ अगासी तीर्थमंडन श्रीमुनिसुव्रतस्वामी स्तवन ॥
 (लावणी-ऋषभजिनद विमलगिरिमंडन-देशी)

मुनिसुव्रत जिनतीर्थ सुहंकर, नाम अगासी धारारे ।
 सुंदर मंदर अंदर प्रभुजी, दीपे रूप उदारारे ॥ मु० अं० ॥
 गीपाल रास चरित्र प्रबंधे, सोपारा अधिकारारे ।
 स्तुपाल तेजपालने कीना, सुंदर तीर्थ उद्धारारे ॥ मु० १॥
 काल परिवर्तनसे होया, तीर्थ विच्छेद विचारारे ।
 कालासोपारा गामसे अंतर, माइल अगासी चारारे । मु० २॥
 मुनिसुव्रत नेमिनाथ सुपारस, प्रगट हुए सोपारारे ।
 सेठ मोतीशा जहाज भरीने, आया सिधु मझारारे ॥ मु० ३॥
 आ ममुद्रे उपद्रव भारी, सेठ किया निरवारारे ।
 कहा पहुंचुं शांतिसे वनाडं, मठिर जैन उदारारे ॥ मु० ४ ॥
 अहचे अगासी दैवयोगसे, जिन शासन जयकारारे ।
 भूर्ति लाधी प्रतिज्ञा सावी, सफल किया अवतारारे । मु० ५॥
 काल जमावे काल पकावे, काल करे सहारारे ।
 काल परिवर्तन वस्तुका, अदल बदल आचारारे ॥ मु० ६ ॥

अलवेली मुंबई नगरीमें, करते जैन व्यापारारे ।
 सुरती आदि मिल सब कीना, नूतन मंदिर सारारे ॥ मु० ७ ॥
 भवस्थिति परिपाक होनेसे, निश्चय धर्म विचारारे ।
 वाह्यनिमित्त निश्चयका साधन, शुद्ध उचित व्यवहारारे ॥ मु० ८ ॥
 निश्चय धर्म आत्म दर्शन है, प्रभुदर्शन उजियारारे ।
 कारण योगे कारज निपजे, तीरथ तारण हारारे ॥ मु० ९ ॥
 कांति प्रभुकी अदभुत सुंदर, कांतिविजय सरदारारे ।
 तीरथ यात्राकारण आए, साधु संग अगियारारे ॥ मु० १० ॥
 बल्लभ प्रभुदर्शन जो होवे, चतुर लहे लाभ भारारे ।
 विमलात्म कस्तूर सुगंधी, भाव उमग सहारारे ॥ मु० ११ ॥
 मेघध्वनि गाजे विज्ञानी, विद्या रूप विचारारे ।
 गुणि सगत गुणी होनेकारण, पावे अति पुण्यवारारे ॥ मु० १२ ॥
 वेद मुनि निधि इंदु वर्षे, माधवदि सोमवारारे ।
 आत्मलक्ष्मी चउदस यात्रा, बल्लभ हर्ष अपारारे ॥ मु० १३ ॥

॥ इति ॥

(५०) होरी ।

पास गोडी दरवारारे आज खेलीए होरी-अंचली ।
 होरी होरी करत सब जगमें, अध्यात्म न विचारारे ॥ आ० १ ॥
 धूर उडाना गारी गाना, नहीं सज्जन आचारारे ॥ आ० २ ॥
 कर्मकी धूर उडाओ प्यारे, मोहको सग निवारारे ॥ आ० ३ ॥
 ज्ञान रग समता पिचकारी, छांटो सुमता नारारे ॥ आ० ४ ॥
 ज्ञान ध्यान तप जप आगीमें, जारारे ॥ अ

दिव्यतेज चिन्मय सिद्ध प्रगटे, आवागमन निवाररे ॥ आ०
आत्मलक्ष्मी होरी खेली, वल्लभ हर्ष अपाररे ॥ आ० ७ ॥

॥ इति ॥

- (५१) सुरत-सगरामपुरा मडन श्रीवासुपूज्य स्वामि स्तवन ॥
(जगलो-महावीर तोरे समवसरण कीरे)

जिनंदा तोरे चरण कमलकीरे
सुर अमरी चार प्रकारी, भक्ति भावे नर नारी,
करे पावे भवजल पारी, जिनदा-अंचली ॥
करुणानिधि स्वामीरे, घट घट विसरामीरे ।

प्रभुवासुपूज्य जिनराया,
पुण्ये तुम दर्शन पाया,
भविजनगण मनमे भाया-जिनंदा० ॥ १ ॥

शातरूप धारीरे, मूर्ति मनोहारीरे ।
रहो और अतिशय दूरे ।

तुझ मुद्रा जगति धूरे,
देखत आनंदरस पूरे-जिनंदा० ॥ २ ॥

दाता प्रभु शातिरे, सुदर सोहे कातिरे ।
चाहे चित्त सेवा थारी,

माने मन मेलो भारी,
चक्षु चाहे दिदारी-जिनदा० ॥ ३ ॥

दर्शन प्रभु थावेरे, दुरित दूर जावेरे ।
वदन वाञ्छित दातारी,

पूजन भवपार उतारी,
जिनवर सुरतरु वलिहारी-जिनदा० ॥ ४ ॥

दास आस पूरोरे, कर्म रोग चूरोरे ।
 जगनाथ अनाथ आधारी,
 तारक निज विरुद संभारी,
 तारो सेवक जयकारी-जिनंदा० ॥ ५ ॥
 सवत निधि कायारे, ग्रह विधु थायारे ।
 अक्षय तृतिथा कवि चारी,
 रवि राज योग बलकारी,
 प्रतिष्ठा होई सारी-जिनंदा० ॥ ६ ॥
 सुरत शहर मडनरे, प्रभु अघ खंडनरे ।
 सगरामपुरा चैत्य सोहे,
 आत्म लक्ष्मी जिन मोहे,
 बल्लभ हर्षे नमे तोहे-जिनंदा० ॥ ७ ॥
 ॥ इति ॥

(५२) श्रीआदिनाथजिनस्तवन ॥

॥ मालमोश-त्रिताल ॥

प्रभु आदिनाथ जगनाथ तार
 कहु वारवार मुज करुणा धार-प्र० अंचली ॥
 मैं रागी प्रभु तुम हो विरागी
 लगन प्रभु मोहे तुमरी लागी
 और नहीं जग देव सार-प्रभु० ॥ १ ॥
 मैं कामी प्रभु तुम निष्कामी
 कामना मुज तुजमें जगस्वामी
 करो अकाम वंचित दातार-प्रभु० ॥ २ ॥

अपने जन सब तुमने तारे
 मौन किया क्यों मेरे वारे
 तार नाथ निज पर निवार-प्रभु० ॥ ३ ॥
 तुम मूर्ति भरतेश्वर थापी
 दरस करी तरते परतापी
 हुए तीर्थ जग अति विथार-प्रभु० ॥ ४ ॥
 शत्रुंजय आवू कैलासे
 राणकपुर कुल्पाक विकासे
 तीर्थ झगडिआ नाथ धार-प्रभु० ॥ ५ ॥
 केसरीया मेन्नाणा कावी
 आतम लक्ष्मी तीजोरी चावी
 हर्ष तीर्थ बल्लभ जुहार-प्रभु० ॥ ६ ॥

॥ इति ॥

(१) ॥ श्रीजंतुस्वामि सत्सहाय ॥

। दोहरा ।

वंदी वीर जिनंदको, सोहम तस पटधार ।
 तस पटधर जंवू गणी, पभणु तम अधिकार ॥ १ ॥
 गुणिजन गुण भविजन गही, वनिए गुणिजन आप ।
 आतम अनुभवके लखे, मिटे हृदय सताप ॥ २ ॥
 राजगृही नगरी वसे, ऋषभदत्त सहुकार ।
 शीलवति सती धारणी, पतिव्रता तस नार ॥ ३ ॥
 तम कूखे ब्रह्मदेवसु, मिह सुपन अनुनार ।
 पूर्ण समय सुत जनमियो, नामे जतु कुमार ॥ ४ ॥

क्रमसे यौवन पामियो, मातपिता ससनेह ।
कन्या अड सगपन करे, संसारे सुख एह ॥ ५ ॥

। देशी-चैतमं सोहाग सहियो ।

संसारमे सुख मानिया जन कल्यना मनमें धरी,
एक औरत और दौलत दोय वातें जग खरी ।
क्रोध मानरु लोभ माया चारके वस दुःख परी,
धन साधु मुनिवर ए उपाधि जानके जिन परिहरी ॥ १ ॥

हरि चक्री हलधर वज्रपाणि पूज्य श्रीजगदीसरु,
महावीर स्वामी शिष्य सोहम स्वामी पंचम गणधरु ।
आए विचरते नगरी राजगृही भविजन हितकरु,
सुन आयो जंबुकुमार वंदी बैठो पासे जगगुरु ॥ २ ॥

गुरुराज भापे देशना भववेष नाना जानिए,
देव नारक तिरी मानव चार ए गति मानिए ।
जीव हैं सब एक सरिसे कर्म भिन्न बखानिए,
इस भाति नाना जीव योनि भेद दिलमें आनिए ॥ ३ ॥

आनिए दिल वीर वाणी रूप आतम धारिए,
कर्म बंधके पंच कारण पंच आश्रव वारिए ।
काम म्होटो सुभट खोटो मूल जडसे उखारिए,
ज्ञान आतम ब्रह्म रूपे ब्रह्मचर्य विचारिए ॥ ४ ॥

विचार करी मन शुद्ध जंबु पास गुरुव्रत आदरे,
ब्रह्मचर्य अखंड वाकी मात आणा वाद रे ।
गुरुराज वंदी मन आनंदी करे वाणी याद रे,
घर आय विनवे मातपितुको नमी विनये पाद रे ॥ ५ ॥

। देशी-वणजारेकी ।

जयु ।

सुनो मातपिता अर्ज म्हारी, लेउंगा मैं सयमधारी-अं०
 सोहम गणधर फरमाया, है झूठी जगकी माया,
 धन्य जन्म सफल तस काया, लिया सयम जिसने धारी-सु०
 मैं लाख चौरासी फिरिया, कर्मोंके वसमें परिया,
 नहीं कर्ज कोइ सुधरिया, अब लेउंगा कार्य सुधारी-सु०
 माता पिता ।

सुन लायक पुत्र हमारा, अंगे तू अति सुकुमारा-अंचली ।
 लघु वय है अभी तुझ जाया, संसार सुख नहीं पाया,
 पालना मन वच और काया, सयम खाडाकी धारा-सु० ३
 पादचारी होके विचरना, सथारा भूमी करना,
 नित्य ध्यान धर्मका धरना, नित्य पालना पांच आचारा-सु० ४
 पंच महाव्रत भारको वहना, बावीस परिसह सहना,
 कटुवयण न मुखसे कहना, करना गौचरिये आहारा-सु० ५
 जयु ।

सुनो मातपिता अर्ज म्हारी, लेउंगा मैं सयम धारी-अं०
 सोहमगुरु वाणी जानी, ससार दुःखोंकी खानी,
 क्षण क्षण रूपादि हानि, जग थिर नहीं एक विचारी-सु० ६
 संयम कायर दुःखदाई, सूरे मन तेज सवाई,
 दिन दिन अति आनंद पाई, विचरे जग सिंह विहारी-सु०
 माता पिता ।

सुन लायक पुत्र हमारा, सुकुमारा

कहे मातपिता लाचारी, परणो सुत आठों नारी,
रहे बोली जगमे हमारी, पीछे तुमरा अधिकारा-सु० ८ ॥

जबु ।

सुनो मात पिता अर्ज म्हारी, लेडंगा मै संयम धारी-अं०
संसारमें मैं नहीं वसना, नारी विन फासी फसना,
होवे नहीं जातमे हसना, कहदो सबंधी पुकारी-सु० ९ ॥

कुडम वेवाई ।

होगा मुनि जंबु कुमारा, त्यागन करके संसारा-अंचली ।
ऋषभदत्तने जाय सुनाया, आठ कन्याके मायताया,
सुनी वात करे निज जाया, कहो पुत्री क्या तुम धारा-हो०

कन्या ।

सती एक पतिकी नारी, जगमें ए वात अति प्यारी-अंचली ।
मिल सब कन्याने विचारा, लिया धार पति एकवारा,
आजीवित नाथ हमारा, कहा मातपिता उच्चारी-स०॥११॥
हम नाथ है जंबुकुमारा, पति मारग मार्ग हमारा,
रागी त्यागी ससारा, करो लग्नकी आप तैयारी-स०॥१२॥
सब मिल कहे सेठको आके, करो लग्न तैयारी जाके,
मंजूर है सब कन्याके, आनंद मगल जयकारी-स०॥१३॥

। लावणी । मराठी ।

बालब्रह्मचारी जंबु मुनिजी, धन धन तुम अवतारारे ।
मन वच काया नाम जपे तुम, जन्म सफल तस धारारे-अं०
लग्न तैयारी करके सबने, ठाठ माठ किया भारारे ।
पाणिग्रहण आठोसे कर घर, आया जंबुकुमारारे-वा० ॥१॥

आठों स्त्री पतिसन्मुख आईं, सजी सोले सिणगारारे ।
 अउठ कोटिमें एक रोममें, जंबु मन न विकारारे-वा०॥२॥
 पतिव्रता सुनो सती सिरोमणि, पालो अपना उच्चारारे ।
 दीक्षा हम सग लीजे कीजे, निज आतम उद्धारारे-वा०॥३॥
 हाथ जोडकर अरज गुजारें, धन योवन चमकारारे ।
 मनबंधित क्रीडा कर कीजे, योवन सफल हमारारे-वा०४॥
 योवन वय रूपादि सुंदर, अवसर नाथ ए सारारे ।
 भोगविलास विलसी वृद्धवयमें, लेसुं सयम प्यारारे-वा०५॥
 जंबु कहे वृद्धवयमें पूरण, होवे नहीं मन धारारे ।
 साधन धर्म न रग जगतमें, पक्के पान मझारारे-वा०॥६॥
 इम जानी मानी जिन वानी, छोरो सकल विचारारे ।
 सफल करौ नरभव सुरमणि सम, मिले न वारवारारे-वा०७॥
 आठों स्त्रीको बोध दिया इस, अवसर चौर उदारारे ।
 चौरी कारण आया प्रभवा, चौरोका सरदारारे-वा०॥८॥
 विद्यासे सोए सब घरके, सोया न जंबुकुमारारे ।
 पुण्यवान पर जोर चले नहीं, विद्या मंत्र प्रचारारे-वा०॥९॥
 धन लेने लगे चौर मिली सब, मैं इनका रखवारारे ।
 ले नहीं सकते मेरे बैठे, जंबु वचन उच्चारारे-वा०॥१०॥
 स्तंभित होगए चौर सभी मन, प्रभवा करत विचारारे ।
 मुझसे भी उत्तम इस नरमें, है विद्या बल भारारे-वा०११॥
 मुझ विद्या लेई निज विद्या देई, कीजे मुझ उपकारारे ।
 जंबु कहे सुन प्रभवा प्यारे, करना नहीं मैं व्यापारारे-वा०१२॥
 दौलत औरत मात पिता तज, होना मैं अनगारारे ।

क्या करनी विद्या मोहे तोरी, वृद्धि करे संसारारे-वा० १३
 नमन करी प्रभवा कहे मुझको, काम न रुचता तुम्हारारे ।
 मिली वस्तु छोरी अणदीठी, करनी आस असारारे-वा० १४
 सुख ससार विषय मन माना, नारी स्नेह अपारारे ।
 पुत्र प्रसूत हुए फिर लीजो, संयम तज परिवारारे-वा० १५
 नारी खारी नरककी मानुं, विषय विषम दुःखकारारे ।
 पुत्र परम बंधन जग जानुं, कारिमा सब परिवारारे-वा० १६
 सुनी उपदेश प्रभव वैरागे, भीनो हर्ष न पारारे ।
 तुम मुझ धर्माचार्य गुरु तुम, तुम मुझ तारण हारारे-वा० १७
 मात तात निज नारी सारी, श्वसुर सासु परिवारारे ।
 पांचसौ तस्कर सब प्रतिवोधी, त्याग दिया ससारारे-वा० १८
 सोहम गणधर गुरु किया माथे, साथे सब परिवारारे ।
 पांच महाव्रत विधिसे पाली, टाली सब अतिचारारे-वा० १९
 अष्ट कर्म क्षय करी गए मुक्ति, वीर पीछे साठ चारारे ।
 जंबु मुनि धन्य मातपिता धन्य, धन्य सकल परिवारारे-वा०
 तपगच्छनायक विजयानंदसूरि, सिमरी मन उपकारारे ।
 आतम लक्ष्मी हर्षे वल्लभ, गाया जंबु कुमारारे-वा० २१ ॥

। दोहरा ।

वेद मुनि ग्रह चंद्रमा, पोष सुदि सोमवार ।

पूर्ण किया द्वितीया तिथि, मुंबइ यह अधिकार ॥ १ ॥

॥ इति ॥

(२) ॥ श्री मनकमुनिजीकी सज्जाय ॥

(वाल्हावेगे आवारे-भजनियोंकी चाल)

भक्तिभाव धारीरे, जगजयकारीरे,
मुनिगुण गाइए हो जी ।

मुनिगुण गातां हर्ष अपार,
 वारीजाउं होवे भवोदधिपार-भक्ति-अंचली ॥
 शय्यंभव सूरि नमुं, जिनपडिमाको देख ।
 वमन करी मिथ्यात्वको, पाए समकित रेख ।

वारीजाउं त्यागन कर ससार,
 वारीजाउ लीनो सयम भार,
 वारीजाउं गर्भवती घर नार,
 वारीजाउं मोह न कीनो लगार-भक्ति-॥ १ ॥

पूर्णसमय सुत जनमियो, रूपगुणे अभिराम ।
 स्वजन सवधी सब मिली, मनक दियो तस नाम ।

वारीजाउं नदन आनंदकंद,
 वारीजाउं माता कुमुद मन चंद,
 वारीजाउ दिन दिन वृद्धि लहद,
 वारीजाउं माता हर्ष धरद-भक्ति-॥ २ ॥

क्रमसे वयलायक हुआ, मात मनोरथ साथ ।
 नाथ नहीं जस माथपर, पुण्य जगतमें नाथ ।

वारीजाउं एकदिन पूछे मात,
 वारीजाउं कहा गए मुझ तात,
 वारीजाउ मात कही सब वात,
 वारीजाउं साधु हुए तुझ तात-भक्ति-॥ ३ ॥

तात मिलनके भावसे, लेइ आज्ञा निजमात ।
 चलते चलते आइयो, मनक नगर जिहा तात ।

वारीजाउं दैवयोग मुनिराय,
 वारीजाउं थंडिलभूमि जाय,
 वारीजाउं देखी मनक हुलसाय,
 वारीजाउं पूछे नमी मुनिपाय-भक्ति-॥ ४ ॥

शय्यंभव मुनिरायको, जानत हो मुनि आप ।
 महेर करी मुझको कहो, लागत है मुझ वाप ।

वारीजाउं मुनिवर मनमें विचार,
 वारीजाउं वचन कहे अतिसार,
 वारीजाउं वो हम मित्र उदार,
 वारीजाउं फेर न इसमें लगा-भक्ति-॥ ५ ॥

साथ चलो हम मित्रके, पुत्र न जानो भेद ।
 पढो गुणो करणी करो, जनन मरन मिटे खेद ।

वारीजाउं वचन सुनी मुनिराय,
 वारीजाउं मनक चल्यो हर्पाय,
 वारीजाउं मुनिवर स्थानमे आय,
 वारीजाउं कियो दीक्षित समझाय-भक्ति-॥ ६ ॥

अत्पायु गुरु जानके, मनकमुनिके हेतु ।
 दशवैकालिक विरचियो, भवसागरमें सेतु ।

वारीजाउं मनकमुनि पद् मास,
 वारीजाउं पाली संयम रास,
 वारीजाउं अमरपुरि कियो वास,
 वारीजाउं गुरुजी होए उदास-भक्ति-॥ ७ ॥

अश्रुपात गुरु देखके, कहे मुनिगण कर जोड ।
किसकारण इतना प्रभो, मोह महातम तोड ।

वारीजाउं मोह न मन लवलेस,
वारीजाउं मनक धरी मुनिवेस,
वारीजाउं सिद्ध कियो निज देस,
वारीजाउं अश्रु हर्षविसेस-भक्ति-॥ ८ ॥

ससारी सुत होयके, धर्मी सुत वन्वो आय ।
अल्पसमय कारज कियो, तन मन आनंद थाय ।

वारीजाउं बोले सुनी मुनिवृंद,
वारीजाउं धन्य तुम धन्य तुम नंद,
वारीजाउं जगजीवन आनंद,
वारीजाउं होवे पढते छंद-भक्ति-॥ ९ ॥

जान करी गुरु हम नहीं, करते तुम सम जान ।
भक्ति मनकमुनिरायको, देते सब सन्मान ।

वारीजाउं गुरु कहे शिष्य विनीत,
वारीजाउं धन्य तुम जन्म पुनीत,
वारीजाउं धर्मीजनकी ए रीत,
वारीजाउं सुरनर गावे गीत-भक्ति-॥ १० ॥

पिण आल्पायु जानके, मनकमुनि अनगार,
कारण तुम नवि दाखियो, तस आतम उद्धार ।

वारीजाउं ग्रंथ रच्यो श्रीकार,
वारीजाउं पूरवज्ञान आधार,

वारीजाउं अल्पसमय हितकार,

वारीजाउं अब संक्रमणविचार-भक्ति-॥ ११ ॥

संघ मुनि विनति करी, आप परम उपकार ।

आगामि मुनिके लिए, ग्रंथ रहो जयकार ।

वारीजाउं अरज गुरु अवधार,

वारीजाउं दान दिया ग्रंथ सार,

वारीजाउं सघ किया सत्कार,

वारीजाउं वार वार बलिहार-भक्ति-॥ १२ ॥

मनकमुनि गुण गानसैं, आतम निर्मल थाय ।

इम जानी भवि कीजिएं, करी शुद्ध मन वच काय ।

वारीजाउं मुनि गुणरयणभंडार,

वारीजाउं आतम लक्ष्मीदातार,

वारीजाउं गावो पावो भवपार,

वारीजाउं बल्लभ हर्ष अपार-भक्ति-॥ १३ ॥

॥ इति ॥

(३) ॥ वैराग्यपद-सञ्ज्ञाय ॥

(मुखज क्या देखे दर्पनमे-देशी)

जिया शोच कछु निज मनमें,

तेरो कौन है आ जगवनमें-जिया-अंचली ॥

चूं माने मै सबसे ऊंचा, फूला फिरत है मगनमें ।

कूकर सूकर रासभ अंत्यज, सब कोड ऊंच लगनमें-जि० १॥

ऊपरसे वन उनके मुखडा, देखत है दरपनमें ।

अंदर गंदू भरा कमाँका, धूर परी तुज तनमें-जिया० २ ॥

हूं मैं क्या मुझ क्या है करनी, शोच नहीं एक खिनमें ।
 दौलत औरत खातर तारी, लागरही है गगनमें—जि०३ ॥
 धनपति निर्धन ठाकर चाकर, ऊंच नीच सब जनमें ।
 मिथाकी खाक बने माटीमें, हिंदुकी राख अगनमें—जि०४ ॥
 गू मूतन और रमत गमतमें, निर्लज्ज बन बचपनमें ।
 चटक मटक विपयो वस परके, खोई उमर जोवनमें—जि०५
 अब क्या होवे वनगए बूढे, धार ली लाठी करनमें ।
 बोलनकी मुखमे चलनेकी, ताकत न रही चरनमें—जि०६ ॥
 मात तात सुत दारा बंधु, देत मदद न मरनमें ।
 परकी खातर अपना चूके, धिक् धिक् तुझ समझनमें—जि०७
 आखिर काम नाम प्रभु आवे, चेतन चेत स्मरनमें ।
 आत्म लक्ष्मी हर्ष अनुपम, बल्लभ प्रभुके भजनमे—जि०८ ॥
 ॥ इति ॥

(४) ॥ गुरुस्तुतिरूप सङ्गाय ॥

(देशी-वारनाकी)

वारीजाउंरे सदगुरुजी तुमपर वारनाजी । अंचली ॥
 आत्मरामजी नाम धराया, आत्मको आराम बताया ।
 आत्म रामसमा सुखदाया, अंतर घटमें धारनाजी—वा०१ ॥
 मिथ्यामततम दिनकर जाना, कामज्वर धन्वंतरी माना ।
 सत् चित् आनंद पदका पाना, सागरलोभ निवारनाजी २
 बाह्य निमित्त गुरु उपकारी, कारण मुख्य निजातम धारी ।
 आत्म ही आत्मपद कारी, सीधा अर्थ विचारनाजी—वा०३

घडी घडी पल पल गुरुजी ध्याउं, मनमे वाणीसे गुण गाउं ।
 कायासे निज सीस नमाउं, रूप पराया छारनाजी-वा०४ ॥
 पूर्ण कृपा श्रीगुरुकी थावे, आतम परमातम पद पावे ।
 विजयानंद वधाई गावे, आतम बल्लभ तारनाजी-वा०५ ॥

॥ इति ॥

कलदारस्वरूप ।

(मान मायाना करनारारे—देशी)

सुखकारा जगत सुखकारारे एक देखा अजब कलदारा ।
 मन मोहे टनन टनकारारे—एक देखा—अंचली ॥
 पास होवे कलदार जिन्होंके, वे ही जगत सरदारा ।
 गुणी नहीं पिण गुणी कहावे, जन्म सफल संसारारे—ए०१॥
 वेक विल्डींगे हाट हवेली, कलदारका चमकारा ।
 राजे महाराजे खालम खाली, कलदार विन भंडारारे—ए०२॥
 कलदारसे कुलवान कहावे, कलदारसे मिले दारा ।
 कलदार रोटी कलदार कपडे, कलदार स्त्री शृंगारारे—ए०३॥
 कलदार मोटर कलदार बग्घी, कलदार गज हुशियारा ।
 कलदार घोडा कलदार पाला, कलदार सब व्यवहारारे—४ ॥
 कलदार जे पी कलदार नाइट, कलदार मामलतदारा ।
 कलदार प्लीडर कलदार एंटलो, कलदार कुल मुखतारारे—५॥
 कलदार गाडी कलदार वाडी, कलदार होटल सारा ।
 कलदार खुरसी कलदार गादी, कलदार बैठनहारारे—ए० ६॥
 कलदार विद्या कलदार हुन्नर, कलदार सिजमतगारा ।
 कलदार सूरत कलदार बुद्धि, कलदार बोलनवारारे—ए० ७॥

कलदार बेटा कलदार बापु, कलदार भाइ प्यारा ।
 कलदार मामा कलदार काका, कलदार साला सारारे-ए० ८
 कलदार बाबू कलदार राजा, कलदार सेठ साहुकारा ।
 कलदार बत्ती कलदार दीवा, कलदार विन अंधारारे-ए० ९॥
 कलदार दौलत कलदार औरत, कलदार बस जग सारा ।
 कलदार कलदार कलदार कलदार, कलदार जगजयकारारे
 बस नहीं कलदारके साधु, आतम लक्ष्मी आधारार ।
 कलदार विन मुनि बल्लभ जगको, हर्ष अनुपम धारारे-ए०

॥ इति ॥



श्री १०८ श्रीमद्विजयानंदमुरि शिष्य महोपाध्याय

श्रीमद् लक्ष्मीविजय शिष्य मुनि महाराज

श्रीहंसविजयजी विरचित स्तवन संग्रह ।

(१) ॥ कावी तीर्थस्तवन ॥

(तीर्थनी आशातना नवी करीये ॥ ए देशी ॥

कावी तीर्थ यात्रा सदा दिल धरीये ।

हारे दिल धरीयेरे दिल धरीये ॥

हारे दिल धरीने काया थकी करीये ।

हारे तरीये ससार ॥ कावी० १ ॥

तरीये जेथी ते तीर्थ छे एम जाणो ।

हारे एवुं प्रकाशे त्रिभुवन राणो ॥

हारे महावीर प्रभु जग भाणो ।

हारे सुणे छे गणधार ॥ कावी० २ ॥

तीर्थ सेवा फल कारणे सघ जावे ।

हारे पादराथी चतुर्विध भावे ॥

हारे पहेलो पडाव साधीमां थावे ।

हारे तिहां आदि जिनंद ॥ कावी० ३ ॥

वीजो पडाव रणु गामनो चळी थाय ।

हारे त्रीजो वडु गाममा कराय ॥

हारे नवपदजीनी पूजा भणाय ।

हारे प्रभु प्रतिमा मंगाय ॥ कावी० ४ ॥

मोभामा चौथो पडाव जईने कीधो,
हारे सघ भक्तिनो लाहो लीधो ॥

हारे मुनि वचनामृत रस पीधो ।

हारे देवदर्शन थाय ॥ कावी० ५ ॥

वणछरा गामे मुकाम पाचमुं कीधु ।

हारे तिहां चैत्य पुराणुं प्रसीधु ॥

हारे देखी नरभवनुं फल लीधुं ।

हारे पुण्यना ए प्रभाव ॥ कावी० ६ ॥

प्राचीन प्रतिमा चार तीहा तो विराजे ।

हारे पाचमा चोमुखजी छाजे ॥

हारे मूलनायक गोभे समाजे ।

हारे चितामणि पास ॥ कावी० ७ ॥

छठे मुकामे आवीया मन चंगे ।

हारे मासररोड माहे सुरगे ॥

हारे सामैयुं सज्युं त्याना सघे ।

हारे भेव्या शाति जिनंद ॥ कावी० ८ ॥

पूजा भणावी वे मोटकी हितकारी ।

हारे साधर्मावात्सल्य वे भारी ॥

हारे देरा उपासरानी सारी ।

हारे टीप दीधी भराय ॥ कावी० ९ ॥

सातमा मुकामे आवीयो सघ सारो ।

हारे शाति जिन शाति कारो ॥

हारे अणखी गाममां बहु प्यारो ।

हारे गादीये पधराय ॥ कावी० १० ॥

आठमा मुकामे आवीया नोवारा ।

हारे नवमे सारोद सुखकारा ॥

हारे त्याना देवलमां शोभे अपारा ।

हारे वासुपूज्य जिनंद ॥ कावी० ११ ॥

दशमे नार थई आवीया गाम कावी ।

हारे चे देवल दीठां त्यां आवी ॥

हारे तेनी उत्पत्ति आपुं वतावी ।

हारे शिलालेख अनुसार ॥ कावी० १२ ॥

वाढुक गांधी वडनगर वसनारो ।

हारे पोपटी हीरादेवी भरतारो ॥

हारे खंभात आवी वस्यो सारो ।

हारे थयो बहु धनवान ॥ कावी० १३ ॥

कावी गत्रुंजय तीर्थ हतुं नामधारी ।

हारे काष्ट माटी इंटोनुं भारी ॥

हारे तेनी स्थिति देखीने नठारी ।

हारे तेनुं दिल दुःखाय ॥ कावी० १४ ॥

आदिनाथ प्रासाद नवो तेणे कीधो ।

हारे निज लक्ष्मीनो लाहो लीधो ॥

हारे वीजो धर्मनाथनो प्रसीधो ।

हारे प्रामाद मनोहार ॥ कावी० १५ ॥

पोपटी पुत्र कुंवरजीए ते वनाच्यो ।

हारे सदी सत्तर माहे चणाव्यो ॥

हारे देहरी वावनथी गणाव्यो ।

हारे रत्नतिलक छे नाम ॥ कावी० १६ ॥

पादरानिवासी लल्लु खीमचंदभाई ।

हारे तेना पुत्रो लाव्या सघे आंड ॥

हारे साधु अगीयार साथ सुहाई ।

हारे साधवियो चौद ॥ कावी० १७ ॥

ओगणीसें चुवोत्तेरनी शुभ साले ।

हारे पोप कृष्ण पक्ष रढीयाले ॥

हारे तिथि त्रीज चोध सुकाले ।

हारे करी यात्रा उदार ॥ कावी० १८ ॥

विजयानंद सूरिरायना शिष्य सारा ।

हारे श्रीलक्ष्मीविजय गुरु प्यारा ॥

हारे तस हस रचे हितकारा ।

हारे प्रभु स्तवन श्रीकार ॥ कावी० १८ ॥

॥ इति ॥

(२) मासररोड मंडन श्रीशातिनाथस्तवन ॥

(थई प्रेमवश पातलीआ मारा मनना मालिक मलीयारे थई ए चाल)

श्रीशातिनाथ महाराया, मासररोडमें प्रभु पायारे-श्रीगां०

हसंगतिगामी जगस्वामी पदखंड सपैत पामी ।

तृणपरे तुमे तेह विरामी ॥ मासर० १ ॥

- हारे अणखी गाममां बहु प्यारो ।
 हारे गादीये पधराय ॥ कावी० १० ॥
 आठमा मुकामे आवीया नोवारा ।
 हारे नवमे सारोद सुखकारा ॥
 हारे त्यांना देवलमां गोभे अपारा ।
 हारे वासुपूज्य जिनंद ॥ कावी० ११ ॥
 दशमे नार थई आवीया गाम कावी ।
 हारे वे देवल दीठां त्यां आवी ॥
 हारे तेनी उत्पत्ति आपुं वतावी ।
 हारे शिलालेख अनुसार ॥ कावी० १२ ॥
 वाढुक गांधी वडनगर वसनारो ।
 हारे पोपटी हीरादेवी भरतारो ॥
 हारे खंभात आवी वस्यो सारो ।
 हारे थयो बहु धनवान ॥ कावी० १३ ॥
 कावी शत्रुंजय तीर्थ हतुं नामधारी ।
 हारे काष्ट माटी इंटोनुं भारी ॥
 हारे तेनी स्थिति देखीने नठारी ।
 हारे तेनु दिल दुःखाय ॥ कावी० १४ ॥
 आदिनाथ प्रासाद नवो तेणे कीधो ।
 हारे निज लक्ष्मीनो लाहो लीधो ॥
 हारे बीजो धर्मनाथनो प्रसीधो ।
 हारे प्रासाद मनोहार ॥ कावी० १५ ॥

पोपटी पुत्र कुंवरजीए ते वनाव्यो ।

हारे सदी सत्तर माहे चणाव्यो ॥

हारे देहरी वावनथी गणाव्यो ।

हारे रत्नतिलक छे नाम ॥ कावी० १६ ॥

पादरानिवासी लल्लु खीमचंदभाई ।

हारे तेना पुत्रो लाव्या सधे आई ॥

हारे साधु अगीयार साथ सुहाई ।

हारे साधवियो चौढ ॥ कावी० १७ ॥

ओगणीसें चुवोत्तेरनी शुभ साले ।

हारे पोष कृष्ण पक्ष रढीयाले ॥

हारे तिथि त्रीज चोथ सुकाले ।

हारे करी यात्रा उदार ॥ कावी० १८ ॥

विजयानंद सूरिरायना शिष्य सारा ।

हारे श्रीलक्ष्मीविजय गुरु प्यारा ॥

हारे तस हस रचे हितकारा ।

हारे प्रभु स्तवन श्रीकार ॥ कावी० १८ ॥

॥ इति ॥

(२) मासररोड मंडन श्रीशातिनाथस्तवन ॥

(थई प्रेमवश पातलीजा मारा मनता माणिक मलीयारे थई ए चाल)

श्रीशातिनाथ महाराया, मासररोडमें प्रभु पायारे-श्रीगां०

हसंगतिगामी जगस्वामी पदखड सपंत पामी ।

तृणपरे तुमे तेह विरामी ॥ मासर० १ ॥

मौतीकीमाला अतिहि विशाला । त्यागी हृदयसें बहाला,
नहि राग रंगका चाला ॥ मा० २ ॥

उत्तमैता धारी सुखकारी, वारवार बलिहारी ।
चोसठ हजार तजी नारी ॥ मा० ३ ॥

शांत आकारा निर्विकारा, मुखकमल मनोहारा ।
लागे सोम साम्यता धारा ॥ मा० ४ ॥

गुंथी कुसुमकी माल रसाला, परिमल गुण विसाला
करे पूजन हरि धरी ख्याला ॥ मा० ५ ॥

भाग्य उदय पामी शिर नामी । आरतिउतारे सुख कामी ।
कंपूर धरी अभिरामी ॥ मा० ६ ॥

शंभुके स्वामी अंतर जामी, हंस वदे इच्छामि ।
सेवामां न रहे कुछ खामी ॥ मा० ७ ॥

॥ इति ॥



श्री १०८ श्रीप्रवर्त्तकजी महाराज श्रीकातिविजयजी
शिष्य पंडित चतुरविजयजीकृत स्तवनादि संग्रह ।

॥ श्रीमन्महावीरस्वामिचैत्यवन्दनम् ॥

(इतविलम्बितम् ।)

मुदितमानवदानववन्दित !

निहितनीतिपयोत्पथवर्जित ! ।

चपलचामरराजिविराजित !

तुहिनकान्तिमुखोरुवलान्वित ! ॥ १ ॥

रतिधवाधिकरूपशुभोदय !

विदितमोहमहीपमहोदय !

जगति विश्रुतराजकुलोद्भव !

यतिपते ! प्रथिताद्भुतवैभव ! ॥ २ ॥

विविधदुःखभृतां भविना सुखं

रचय वीरविभो ! व्यसनोज्झितम् ।

चिटरुणं चतुरस्य मनोगृहे

तमहर च विभो ! प्रकटीकुरु ॥३॥ त्रिभिर्विशेषकम्

॥ इति ॥

॥ श्रीपार्श्वजिनस्तवनम् ॥

(श्लोकम्)

जिनराज ! सदा तव मे शरणं,

शरणागतवत्सल पार्श्वविभो ! ।

गुणिनां च ददासि शिवं सुभगं,
 सुभगेत्यवगत्य ततस्तरसा ॥ १ ॥
 अहमागत आसु ! भवच्चरणं,
 चरणे मम देहि मतिं विमलाम् ।
 विमलं मम मानसमीश ! कुरु,
 यदि चेत्तव दानगुणोऽवितथः ॥ २ ॥
 गुणिनां भविनां विभवं कुरुपे,
 किमु चित्रमिदं तदहो ! मुनिप ! ॥
 मुनिपापमिमं यदि तारयसि,
 भवतीश ! तदा तव तारकता ॥ ३ ॥
 मदमानयुतं व्यसनैर्व्यथितं,
 मथितारिगणेश ! निधाय कृपाम् ।
 समये भणित्ताच्चरणाद्विमुखं,
 जिन ! तारय मां गुणहीनमिमम् ॥ ४ ॥
 चरितं मम तीर्थपते ! गहनं,
 भणतीति नियोज्य कर्गौ चतुरः ।
 भवसागरपर्यटन परमं,
 परमेश्वर ! वारय वारय मे ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

॥ अथ पासणाहथुर्ह ॥

(उपजाति)

विभावमुत्तं सुहभावजुत्तं, सेवे सया सासयठाणपत्तं ।
 पयावनिन्नासियसत्तुमाणं, पास पयासं सुगुणिक्रठाणं ॥ १ ॥

अणिच्चससारविलासमुत्ता, सिद्धा सया केवलनाणजुत्ता ।
 सुहावहा दितु मइं मुणिदा, सब्बे जिणंदा सुरविंदवंदा ॥२
 तिलोयसार भवदुक्खवार, कल्लाणकार जियवादिवार ।
 वदे सया सब्बमयपहाणं, मयं जिणाणं सरणं बुहाणं ॥३॥
 जिणिददेवाणणणिग्गयस्स, जा सामिणी वीणहरा सुयस्स ।
 सा राउ नाणं मम सुद्धवत्था, चाएसरी पुत्थयवग्गहत्था ॥४
 ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीवीरप्रभुस्तुति ॥ उपजाति ॥

सूर सुधीर जिय कम्मवीर, सतं महंतं भुवणिकवीर ।
 सुवण्णवण्णं सिरिवद्धमाणं, भत्तीइ वंदे सिरिवद्धमाणं ॥१॥
 वियक्खणा लक्खणलक्खियगा, आणंदकंदा गयमोहसगा ।
 भव्वाण ते दित्तु मुयं जिणंदा, कल्लाणवल्लीण विसालकंदा ॥२
 मोहंधयारमि पईवकप्पं, धिवेयरुक्खं कुरनीरकप्पं ।
 जिणागम जीवटया निहाणं, नमामि निच्चं तिजगप्पहाणं ॥३
 सिद्धाइया पच्चमुहे निसन्ना, निच्च सकण्णा चउरे पसन्ना ।
 पलासवन्ना नयनाइसत्था, सुहाय सा अम्ह सया पसत्था ॥ ४
 ॥ इति ॥

॥ श्रीवीरस्तुति ॥

(हतविलम्बितम् ।)

वदनकान्तिविभासितदिङ्मुख !

मुनिजनोच्चयसेवितपत्कज ! ।

भवभृता भवभावविभासक !

वितर मे जिनवीर ! सुवाञ्छितम् ॥ १ ॥

जगति गीतगुणा गुणिनां गणै-

विंपुलसिद्धिवधूहृदयङ्गमाः ।

विशदमार्गविकाशनतत्परा

जिनवरा जनतापविभेदकाः ॥ २ ॥

जिनवराननपद्मविनिर्गता

नयगमादिमहोर्मिविभासुरा ।

सुगहना मुनिहंससुसेविता

जयतु सत्यजला वचनापगा ॥ ३ ॥

सुरगणैः सततं कृतसेवना

भयदसिहकृतासनकासना ।

हरति विघ्नगणं भविनां च या

जयतु सा खलु शासननिर्जरी ॥ ४ ॥

॥ इति वीरस्तुति ॥

॥ श्रीसिद्धचक्रस्तुतिः ॥

(शिखाणि)

महावीरेण श्रीचरमजिनराजेन जगदे

पर यन्माहात्म्यं जगति विदितं चित्रजनकम् ।

महाव्याधिव्याघोरगभयविनाशेऽप्यलमल

स्तुवे तान्यौत्सुक्यात्खलु नवपदान्याशु विधिना ॥ १ ॥

सुरेन्द्राद्यैर्वन्द्या भविजनमलक्षालनघनाः

तथा मानोत्तुङ्गक्षितिधरविनाशे पविनिभाः ।

जगुः सार्वा सर्वे वरनवपदाराधनवशा-

ज्जना भव्या भेजुः पदमविचलं शान्तहृदयाः ॥ २ ॥

सुमिथ्यात्वध्वान्ते रविकरनिभं बोधजनकं

तथा गर्जद्वाद्विरदनिकरे केसरिनिभम् ।

मुनिव्रातैर्ध्यात नवपदपदार्थादिकथकं

सुरैर्वन्द्यं वन्दे प्रवचनमहं सौख्यजनकम् ॥ ३ ॥

अधिष्ठात्री देवी सुरगणनता सुन्दरविभा

स्फुरत्सौर्यो देवो नवपदरतो देवमहितः ।

सुरीदेवावेतौ भुवि विमलमङ्गस्य सततं

तथा विघ्नव्रातं चतुरविजयस्यापि हरताम् ॥ ४ ॥

॥ इति सिद्धचक्रस्तुति ॥

॥ अथ पर्युपणापर्वस्तुतिः ॥

(शाङ्खविकीर्षितम्)

भो भो भव्यजनाः ! सदा यदि शिवे वाञ्छा तदा पर्वणो

भक्त्या पर्युपणाभिधस्य कुरुत स्वाराधनं सादरम् ।

द्रव्यार्चां सुमचन्दनैः स्तुतिभरैः कृत्वा च भावार्चनां

मानुष्यं सफलं विधत्त सुमहैरहन्मतोल्लासकै ॥ १ ॥

कृत्वा मांस्तिथिदिग्भगाब्धिवसुदिग्युग्मोपवासोश्छुभान्

रम्यार्चां च विधत्त भो ! भवहरा तीर्थङ्कराणां नवाम् ।

कृत्वा पष्ठतपोऽन्तिमेशितुरलं श्रुत्वा चरित्रं मुदा

वीरेन्दोर्जनुरुत्सवे कुरुत सूल्लुध्वनीन् भो जनाः ! ॥२॥

जीवानामवनं विधत्त सुधियः ! कृत्वाष्टमं नागव-

द्भाव्या निर्मलभावना भविजनैः कैवल्यलक्ष्मीकृते ।

कल्याणानि जिनस्य भो ! गणभृतां वादं च पार्श्वप्रभु-

नेम्याद्यन्तरकाणि भो ! शृणुत सन्नाभेयवृत्तं तथा ॥३॥

साध्वाचारमखण्डितं पिवत सन्मौलं च सूत्रं श्रवै-

श्रैत्यानां परिपाटिकां तनुत च स्वालोचनां वार्षिकीम्
जन्तून् क्षाम्यत वत्सलं कुरुत भोः ! साधर्मिकाणां मुदा
विघ्नौघं चतुरस्य वा हरतु सा सङ्घस्य सिद्धायिका ॥४

॥ इति ॥

॥ अथ दीपमालिकापर्वस्तुतिः ॥

(स्रग्धरा)

ऊर्जामायां जगामामृतपदमतुलं योऽमरा यं भजन्ते

हृद्रम्या मोक्षकाले भविजनमनहृद्देशना येन दत्ता ।

यस्मै नित्यं नमन्ति प्रवचनमसमं प्रादुरासीच्च यस्मा-

द्वर्या भा यस्य यस्मिन् विमलगुणगणो वीरनेता स पातु

अष्टद्रव्यैर्जिनाना भववनदहनं पूजनं पावनं त-

त्सावद्यत्यागरूपं शमरसजनकं पौषधं चापि रम्यम् ।

कल्याणाना च जापं वरविधिविशदं देवतावन्दनं च

कृत्वा दीपालिकायां बहुभविकजना लेभिरे मोक्षलक्ष्मीम्

येन प्रादुर्भवन्तं जिनमुखकमलाद्गोमरन्दं निपीय

चादिव्रातैरजेया नयगमगहना गुम्फिता द्वादशाङ्गी ।

यस्मात्प्राप्य प्रसादं मुनिजननिवहाः शाश्वतं स्थानमापु-

र्यो लब्ध्याऽष्टापदाद्रौ जिनगणमनमद्गौतमं तं नमामि

आरूढा भीष्मसिंहं सुरजननिकरैः सेविता या नितान्तं

विघ्नव्रातं जनानां जिनपमतभृतां या हरत्यादरेण ।

इत्यासैर्वर्णिता या सुचतुरविजयेनागमे येन दृष्टा

देवी सिद्धायिका सा जयतु जिनरता स्रग्धरा

॥ इति ॥

॥ मङ्गलाष्टकम् ॥

(शार्दूलविक्रीडितम् ।)

नाभेयादिजिनोत्तमा जितभया विश्वे सदा पावनाः

सौभाग्यावलिकारकाः सुखकरास्तीर्थङ्कराः शङ्कराः ।

विश्वानन्दकरास्तमोदिनकराः कन्दर्पदर्पापहा

रोगातङ्कहरा जनस्य सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥ १ ॥

सिद्धाः शान्तरसाः स्वभावविमलाः शान्तिं दधाना जने

सिद्धानन्तचतुष्टया जनिजरामृत्यादिभिर्वर्जिताः ।

राजन्तः शमिना मनोऽमलगृहे ध्यातानि कर्माणि यै-

र्ये ख्याता भुवनेऽखिले खलु तके कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥ २ ॥

विख्याता भुवि पुण्डरीकगणिनः श्रीगौतमाद्यास्तथा

सूरीशा गुणशालिनो जिनमते श्रीभद्रबाह्यादयः ।

अङ्गोपाङ्गविशारदा गुणयुताः श्रीपाठकाः पापहा

दान्ताक्षा मुनयोऽनघाः खलु समे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥ ३ ॥

सम्मेतार्बुदरैवतामरगिरिश्रीचित्रकूटाचलाः

श्रीसिद्धाचलपावकौ गजपदस्तारङ्गवैभारकौ ।

श्रीकैलासनगोत्तमो हिमगिरिश्चम्पा प्रभासादयो

विश्वे तीर्थमतल्लिकाः खलु समे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥ ४ ॥

श्रीजम्बूमुनिवज्रसिंहगिरयः श्रीस्थूलभद्रादयः

सन्तः श्रेष्ठिसुदर्शनादय इमे गङ्गोर्मिशीलाञ्चिताः ।

श्रीसङ्घो गुणसेवधिः प्रवचनाधारो जिनैर्वर्णितो

धर्म, सर्वदयामयः खलु समे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥ ५ ॥

ब्राह्मी चन्दनवालिका च सुलसा सीता सुभद्राऽञ्जना

सेना शीलवती शिवा द्रुपदजा कुन्ती कलावत्यपि ।

रेणा राजिमती तथा नलनृपप्राणप्रिया देवकी

सत्योऽन्या अपि शोभनाः खलु समाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ६
श्रीनाभिप्रमुखा जिनेन्द्रपितरः सिद्धार्थभूपस्तथा

विख्याता जिनमातरो जगति याः सौभाग्यभाग्यप्रदाः ।
चक्रास्त्रा भरतेश्वराश्च भरतश्रीब्रह्मदेत्तादयः

शिष्टा ये श्रुतपारगाः खलु समे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥७॥
शौर्यस्वाः प्रतिविष्णुविष्णुवलिनो मोक्षेच्छवो ये तथा

सङ्घे शान्तिकराः सदा गुणिरताश्चक्रेश्वरीमुख्यकाः ।
श्रीमातङ्गकपर्दिमुख्यविवुधाः सम्यग्दृशा विघ्नहाः

सर्वे ते जिनशासनोन्नतिकराः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥८॥

(वसन्ततिलका)

नित्यं प्रभातसमये समचित्तवृत्ति-

र्यो मङ्गलाष्टकमिदं शुचिधीरधीते ।

अत्यन्तशुद्धमनसश्चतुरस्य तस्य

प्रादुर्भविष्यति हृदि प्रवरात्मकान्तिः ॥ ९ ॥

॥ इति ॥

॥ श्रीमद्-हेमचन्द्राचार्यस्तुतिः ॥

(त्रोटकम्)

शुचिवाणिजवंशवियन्मिहिर, शरवर्षमिते व्रतभारधरम् ।

जनवाञ्छितपूरणकल्पतरुं, प्रणमामि सदा प्रभुहेमगुरुम् ॥१॥

वररूपधर जनमोदकर, विजितेन्द्रियवर्गमगर्वगिरम् ।

रचिताद्भुतशास्त्रमपास्तशरुं, प्रणमामि सदा प्रभुहेमगुरुम् ॥२॥

मुनिवृन्दनृपं भुवने विदितं, बुधलोकमतं नृपवृन्दनतम् ।

विदितागमतत्त्वमभिज्ञगुरुं, प्रणमामि सदा प्रभुहेमगुरुम् ॥३॥

नृपवोधकर गुणरत्नधर, भुवने भविनामुपकारकरम् ।
 कविगर्वहर दितमानतरुं, प्रणमामि सदा प्रभुहेमगुरुम् ॥ ४
 मथितोन्मदमन्मथमादभर, जितवादिगणं गतदोषभरम् ।
 मतिवैभवनिर्जितदेवगुरुं, प्रणमामि सदा प्रभुहेमगुरुम् ॥ ५
 भुवनोद्भटकर्मभटातिरथं, भविनामथ दर्शितमोक्षपथम् ।
 करुणामृतसिक्तसुधर्मतरुं, प्रणमामि सदा प्रभुहेमगुरुम् ॥ ६

(वसन्ततिलका ।)

इत्थं स्तुतो मुनिपतिर्गुरुहेमचन्द्र-
 श्चन्द्रांशुनिर्मलयशाश्वतुरेण भक्त्या ।
 पञ्चासरेशभवने प्रथितावदातो
 नित्यं तनोतु भविसद्गानि मङ्गलानि ॥ ७ ॥

॥ इति ॥

॥ श्रीमुनिसुव्रतस्वामीनुं स्तवन ॥

(अरणिकमुनिवर चाल्या गोचरी । ए देशी)

मुनिसुव्रतजिन तुज मुज अंतरु,
 किम भागे भगवंतजी आंकणी ।
 भवसागर प्रभु ते सेहेजे तयो,
 हुं भवदरिये नाथजी ।
 सुख अनंतां तमे प्रभु भोगवो,
 मुजने नहि तस लेगजी ॥ मुनि० ॥ १ ॥
 ज्ञान अनंतुरे प्रभु तुजने सदा,
 लोकालोक प्रकाशजी ।

अज्ञाने करी हूं मुझ्यो घणुं,
 मारगमां जिम अंधजी ॥ मुनि० ॥ २ ॥
 दरशन चारित्रादिक गुण घणा,
 तेहनो तुं भंडारजी ।
 मुजथी सघला ते अलगा रह्या,
 रंकथकी जिम भोगजी ॥ मुनि० ॥ ३ ॥
 मोहादिक जे भावसुभटघणा,
 जित्या तें निरधारजी ।
 तेह तणे वश पडिओ हूं सदा,
 छोडावो जगनाथजी ॥ मुनि० ॥ ४ ॥
 राग द्वेष मुज मन मंदिर वसे,
 नाठा तुजथी तेहजी ।
 आठकरमनो मुजने भय घणो,
 ते तो तुजथी त्रासेजी ॥ मुनि० ॥ ५ ॥
 एम अनंता गुण प्रभु ताहरा,
 कहेतां नावे पारजी ।
 मुजमां अवगुण तेम अनंत छे,
 शुं कहु तुजने नाथजी ॥ मुनि० ॥ ६ ॥
 तुज दरशनथी मुज कारज सयुं,
 अंतर थासे दूरजी ।
 निर्मल आत्मकांतिप्रकाशथी,
 चतुर थसे निजरूपजी ॥ मुनि० ॥ ७ ॥

॥ श्री महावीरस्वामिनुं स्तवन ॥

(अजित जिनदसु प्रीतडी । ए देशी)

वीरजिणंदसुं विनती,

मुज सुणजो हो, नीकी अरदास के ।

तुज दरशन विना नाथजी,

हुं भमियो हो, भव वनमा अनाथके ॥ वीर० ॥१॥

सूक्ष्म वादर भेद जे,

थावरना हो, भाख्या चावीस के ।

काल अनंतो तेहमा,

हुं वसीओ हो, निश्चय जिनराज के ॥ वीर० ॥२॥

छेदन भेदन ताडना,

हुं पाम्यो हो, परवशता जोग के ।

जिम तिम विकलेंद्रि पणु,

मुज मलीयुं हो, आपदसुं गेह के ॥ वीर० ॥ ३ ॥

तिर्यच नारकने भवे,

दुःखराशि हो, सहि में विकराल के ।

करमलघुता योगथी,

हुं पाम्यो हो, नर निर्जर देह के ॥ वीर० ॥ ४ ॥

मान लोभ मद मोहथी,

रडवडीयो हो, वली नरक निगोदके ।

एम अनंता भव कर्या,

तुज शासन हो, विना सघला फोगके ॥ वीर० ॥५॥

पुण्य उदय पामी करी,
 तुज शासन हो, आव्युं मुज हाथ के ।
 दुख दोहग दूरे टल्यां,
 पामी स्वामी हो, मुज शिरनो ताजके ॥ वीर० ॥ ६ ॥
 शरण पळ्यो हं ताहरे,
 मुज करजो हो, निज सदृशरूप के ।
 आतम कांति उल्लासथी,
 तुज सेवा हो, नही छोडे चतुरके ॥ वीर० ॥ ७ ॥

॥ इति ॥ ,

मातर तीर्थका स्तवन ।

(भैरवी-कव्वाली । वीनानाथ अवके दया दिलमे लाभो-देशी)

कृपानाथ अर्हन् प्रभु मुझको तारो,
 सरण है मुझे नाथ तूं ही आधारो ।
 जगन्नाथ तारकपनेको विचारो-सरण-अंचली०
 पंचम विन पंचमगति, होवे नहीं निरधार ।
 इम जानी पंचम प्रभु, लियो हृदयमें धार ।
 मेरे पंच परमाद दूरे निवारो-सरण०-॥ १ ॥
 पंच पंचको त्यागके, कियो पंचसे राग ।
 पंचेंद्रिय निग्रह करी, पंचभिदा धुन लाग ।
 हुए शुद्ध तैसे ही मुझको सुधारो-सरण०- ॥ २ ॥
 पंच दूर करी पंचका, दिया शुद्ध उपदेश ।
 पंच पदे धुरि राजता, जैसे ज्योति दिनेश ।
 धरुं ध्यान तुमरा यही जन्म सारो-सर ॥

सुमति सुमतिको दीजिए, लीजिए सुजस अपार ।
 रीजिए सेवक भक्तिसे, कीजिए भवजलपार ।
 वली कर्मबलको पटकके पछारो—सरण० ॥ ४ ॥
 मात्र तीरथमंडनो, सुमतिनाथ भगवान ।
 आत्मलक्ष्मी कारणो, वल्लभ हर्ष अमान ।
 कियो देव साचा मं तुमरो दिदारो—सरण० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥



गवैया-प्राणसुरविरचितस्तवनसंग्रह ।

(१) श्रीमहावीरस्वामिस्तवन ॥

(रागिणी- पहाडी-लावणी महावीर चरनमें-देशी)

महावीर जिनवर मेहरवानी, मुझसे तनिक करनाजी-म० अं।

तुमनाथ जगतमे बलिया, भवसंकट दूर हरनाजी-म० ॥१॥

तुमदयासिंधु कहलाते, मोरे शिरपर कर धरनाजी-म० ॥२॥

मै भवोभव भववन भटकी, तुमरा लिया सरनाजी-म० ॥३॥

हम तुम कइ भवकी सगाई, वो ध्यानमें धरनाजी-म० ॥४॥

मेरे कर्मकी कठिन कहानी, मै क्या करूं वरनाजी-म० ॥५॥

मेरे प्राणके प्यारे प्रभुजी, तेरे चहुं चरनाजी-म० ॥६॥

॥ इति ॥

(२) श्रीशातिनाथ जिनस्तवन ॥

(विहाग-ताल-अद्दा-नयना कटारीरे लागीलो-देशी)

मोरे मंदिरमें आओ आओ महाराज-अंचली ॥

मोरे मंदिरमें जब तुम नाही, आ बसते चार चंडाल मांही

मेरो चले ना इलाज-मोरे० अंचली ॥

मुझको बनाकर मित्र मेरो माल धन सब खागयो,

ऐसो अधमीं मोह कपटी जालमें लिपटागयो ।

कंकर हीरो परखी न जान्यो, अंध बनी वो मित्र ही मान्यो,

मेरो गयो सुखसाज-मोरे० ॥१॥

क्रोध क्रूर कृतघ्न सब कर्त्तव्यमें साथी कियो,

जाति सुधारम छोड मैंने क्रोध विष प्यालो पियो ।

सुमति सियानी हैये न आनी, कुमति कुटलको रानी प्रमानी

भवमें फिरूं खोय लाज-मोरे० ॥२॥

लालच लगाकर लोभने लूटा सरे बाजारमें,
 किससे करुं फिरियाद को मिलता नहीं ससारमें ।
 सब जगजनमन वो ही भायो, यही समझकर मैं गभरायो,
 आयो तोरे घर आज-मोरे० ॥ ३ ॥

मुझको मैं समझा मैं ही हूं मुझसा नहीं कोउ जहानमें,
 आगेकी थी क्या होगी क्या उसका किया नहीं ध्यानमें ।
 अब पछताउं किससे सुनाउं, मनमें मुझाउं अब कहां जाउं
 तुंही मेरो सिरताज-मोरे० ॥ ४ ॥

प्रभु तार या अब मार मैं तैयार चार हजार हूं,
 मेरो अभी है एक या ससारमें आधार तू ।
 प्राणके प्यारा पार उतारा, नाथ हमारा काज सुधारा,
 जयजय जपू जिनराज-मोरे० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

(३) श्रीशांतिजिनस्तवन ॥

(पील-कहरवा । कनैया मोसे खेले होरी-देशी)

श्रीशांति जिनेश्वर साहिवजीसे स्नेह लगाना,
 स्नेह लगाना स्नेह लगाना स्नेह प्रभुसे सदा निभाना-शां०अं ।
 जग सरवर जिम कमल है प्रभु तिम, भ्रमर रग मन लाना ।
 प्रभुगुण अनुप सुगंध रगमें, अपना रग मिलाना-श्रीशां०१॥
 सोयरहा जीव काल अनादि, अब उसको ही जगाना ।
 लूटतहै धन मोह लूटारा, खाली करत खजाना-श्री०॥२॥
 तृष्णा नारके वस हो मागत, घरघर भीख दीवाना ।
 वाको अत न आयो न आवे, काहेको जनम गवाना-श्री०३

कूड कपट घट भीतर जवतक, होवत नाही ज्ञाना ।
 आपको आपही सोचके अपना, सच्चा रूप दिखाना—श्री०४
 जिनवर भाषित तत्त्व पदारथ, दिलसे नाही भुलाना ।
 प्राण परमसुख कारण निशदिन, गाओ प्रभुका गाना—श्री०५

॥ इति ॥

(४) श्रीनेमिनाथजिनस्तवन ॥

(पील्ल-खीमटा । हारे राजा तिहारी नजरिया-देशी)

मोहे प्यारा प्रभुने विसार दियोरे ।

क्या मैं करुं कहां जाऊं अरे—मोहे प्यारा० अंचली ॥

प्रीत विसारी भवभवकेरी, जवसे गये फिर नजर न फेरी,

मोरे स्वामीने कैसो ये काम कियोरे—क्या० ॥ १ ॥

दौलत औरत माल खजाना, सोही मेरे मन मिट्टीसा माना,

मोपे दाताने कियो कठिन हियोरे—क्या० ॥ २ ॥

जग जंजालमे क्यों लिपटाऊं, भेष धरी भगवतको मनाऊं,

मैंने दिल ये दुनियासे उठाय लियोरे—क्या० ॥ ३ ॥

शिवपुरवासी है अविनासी!, एक ही तेरे दरसका प्यासी,

प्राणप्यारा जिनंदा जुग जुग जियोरे—क्या० ॥ ४ ॥

॥ इति ॥

(५) श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवन ॥

(मोरठ-दादरा । काहु सोतनके घर चलम रहे-देशी)

तीन भुवनके सिरदार पार मोहे उतारजी

वामाकेनंदन आयो मैं वंदन तुमरे दुचारजी

दरसन तुमे देत नहीं, खवर हमरी लेत नहीं,

अदधि विच आन फस्यो हूं, मोहे उगारजी—तीन० ॥१॥

भव अंधेरी रैन भरी, उनमें सुझत नाहीं जरी,
 विपता मोपै आन परी, अनुचरपर नजर करी,
 झगमगे प्रभु ज्योत तेरी, भवअंधेरी दियो उखेरी,
 जगतमें जिनराज मेरो, प्राण आधारजी । तीन० ॥ २ ॥

॥ इति ॥

(६) श्रीपार्श्वनाथ जिनस्तवन ।

(पहाडी-लावणी । परदेशी सैया नेहा लगाये)

जो घरी जाए प्रभुके ध्यानमें धन धन भवि मानो,
 सारमें सार एही संसारमे विचारमें आचारमे
 येह वात प्रमानो—जो घरी० अंचली ॥
 मोह मदारी मनुष्यको, मर्कट ज्यूं ही बनाय ।
 हरघरी हरपल हुकमसे, विध विध नाच नचाय ।
 करावत सबको सलामी, उमरभर वैसी गुलामी,
 अमूल्य नरभव जग पामी, ऐसा अवसर खोना नहीं—
 संसारमें विचारमें आचारमें येह वात प्रमानो । जो० ॥१॥
 बाहिर सुखके कारणे, अनेक कष्ट सहाय ।
 सहसमें एक हिसावसे, धर्ममें डिग न भराय ।
 धर्मसे सपत पाई, वाकी कछु करले कमाई,
 धर्म विन रहे न सदाई, प्राण परम सुख चाहे जो—
 संसारमें विचारमें आचारमें येह वात प्रमानो । जो० ॥२॥

॥ इति ॥

(७) श्रीआदिनाथ स्तवन ॥

(शीशोटी-दादरा । जाओ जाओ सैया मोसे न बोलो)

मानो मानो मेरी इतनी अरज है जग तारक री ।
 वीत गई सो गई अब विगरी आप सुधारकरी । मानो० अं॥

आयो मैं आस धरी, तुमें छोड़ुं न एक घरी ।
 आपजो ऐसे अनोखे रहो मेरो कौन उद्धारक री । मा० १॥
 देर करो न जरी, मोहे पीडत कर्म अरी ।
 प्राणके पालनहार जपुं तुम नाम मुबारक री । मा० ॥२॥
 ॥ इति ॥

(८) श्रीआदिनाथ जिनस्तवन ।

(भैरवी—कव्वाली । मैं तो जाउ या मुस्तफा कहते कहते)

दीनानाथ अवके दया दिलमें लाओ ।
 महामोह फंदेसे मइका छुडाओ ।
 आनादि जो अरिहा प्रभुजी कहाओ । म० अंचली ॥
 मैं जगवासी जीव हूं, जीवन धर्म अजान ।
 जीवनकी जंजालमे, और कियो नही ध्यान ।
 अधर्मीको धर्मी हेधर्मी बनाओ ॥ महा० १ ॥
 वाल उमरमें मनुपको, जैसो हो व्यवहार ।
 मानो वाल अजान मैं, तुम जगत्पिता आधार ।
 परमपद पानेकी पोथी पढाओ ॥ महा० २ ॥
 जगतगुरु जगनाथजी, जगके तारन हार ।
 जो होवे तुमरी कृपा, तो रुलना मिटे ससार ।
 करमके कटकको पटकके हटाओ ॥ महा० ३ ॥
 लख चौरासी अगनमें, जरत मरत हरवार ।
 धर्म नीर चिन जगतमें, कोई नहीं आधार ।
 कठिन मेरे भवकी अगनको बुझाओ ॥ महा० ४ ॥
 मृगजल सम जग आसकी, प्यासमें रह्यो शुभ

ज्यूं आगे आगे चलूं, दूर ही दूर दिखाय ।
 प्रभु देशनामृत पानी पिलाओ ॥ महा० ५ ॥
 मुझसम अधम अनेक ही, तारे तुंही जगदेव ।
 अब एक और ही तारिए, हे देवाधिदेव ।
 मेरे प्राणको आप जैसो बनाओ ॥ महा० ६ ॥

(९) श्रीवीतराग देवस्तवन ।

(भीमपलासी-दादरा । रामबाण वाग्या होय ते जाणे)

राग वीतराग मोहे लागत है प्यारो ।
 कोई गावत है महा पुण्यवारो,
 कोई सुनत है महा भाग्यवारो ॥ राग० अंचली ॥
 छ तीस राग रागिनीसे, एही राग है न्यारो ।
 तान ताल सुर लयकी संपूर्णता,
 जाने कोई समकितवारो ॥ राग० १ ॥
 आहत अनाहत भेद नादके, ज्यूं निश्चय व्यवहारो ।
 भेद अनाहत रागभवि तुमे, घटके भीतर धारो ॥ राग० २ ॥
 धनको राग तिरियाको राग, राग राग जग सारो ।
 प्रभुको राग वीतरागको माग, भवि तुमे ज्ञानसे विचारो ३ ॥
 रात दिनन व्यवहारिक धुनमे, निश्चय राग ना विसारो ।
 जैसे तारे बहुत हैं नभमें, रवि विन जग अंधियारो ॥ रा० ४ ॥
 राग सहित प्रभु रागको जो भवी, निशदिन करत उचारो ।
 दिन दिन बढ़ते पुण्य प्रभावसे,
 होवे निज प्राणको सुधारो ॥ राग० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

आधो मै आस धरी, तुमें छोड़ुं न एक धरी ।
 आपजो ऐसे अनोखे रहो मेरो कौन उद्धारक री । मा० १ ॥
 देर करो न जरी, मोहे पीडत कर्म अरी ।
 प्राणके पालनहार जपुं तुम नाम मुवारक री । मा० ॥ २ ॥

॥ इति ॥

(८) श्रीआदिनाथ जिनस्तवन ।

(मैरवी—कव्वाली । मैं सो जाउ या मुस्तफा कहते कहते)

दीनानाथ अबके दया दिलमें लाओ ।
 महामोह फंदेसे मइका छुडाओ ।
 आनादि जो अरिहा प्रभुजी कहाओ । म० अंचली ॥
 मैं जगवासी जीव हूं, जीवन धर्म अजान ।
 जीवनकी जंजालमें, और कियो नही ध्यान ।
 अधर्मीको धर्मी हेधर्मी बनाओ ॥ महा० १ ॥
 बाल उमरमें मनुपको, जैसो हो व्यवहार ।
 मानो बाल अजान मै, तुम जगत्पिता आधार ।
 परमपद पानेकी पोथी पढाओ ॥ महा० २ ॥
 जगतगुरु जगनाथजी, जगके तारन हार ।
 जो होवे तुमरी कृपा, तो रुलना मिटे ससार ।
 करमके कटकको पटकके हटाओ ॥ महा० ३ ॥
 लख चौरासी अगनमें, जरत मरत हरवार ।
 धर्म नीर विन जगतमें, कोई नहीं आधार ।
 कठिन मेरे भवकी अगनको बुझाओ ॥ महा० ४ ॥
 मृगजल सम जग आसकी, प्यासमें रह्यो लुभाय ।

ज्यूं आगे आगे चलूं, दूर ही दूर दिखाय ।
 प्रभु देशनामृत पानी पिलाओ ॥ महा० ५ ॥
 मुझसम अधम अनेक ही, तारे तुंही जगदेव ।
 अब एक और ही तारिए, हे देवाधिदेव ।
 मेरे प्राणको आप जैसो बनाओ ॥ महा० ६ ॥

(९) श्रीवीतराग देवस्तवन ।

(भीमपलासी-दादरा । रामवाण वाग्या होय ते जाणे)

राग वीतराग मोहे लागत है प्यारो ।
 कोई गावत है महा पुण्यवारो,
 कोई सुनत है महा भाग्यवारो ॥ राग० अंचली ॥
 छ तीस राग रागिनीसे, एही राग है न्यारो ।
 तान ताल सुर लयकी सपूर्णता,
 जाने कोई समकितवारो ॥ राग० १ ॥
 आहत अनाहत भेद नादके, ज्यू निश्चय व्यवहारो ।
 भेद अनाहत रागभवि तुमे, घटके भीतर धारो ॥राग०२॥
 धनको राग तिरियाको राग, राग राग जग सारो ।
 प्रभुको राग वीतरागको माग, भवि तुमे ज्ञानसे विचारो३॥
 रात दिनन व्यवहारिक धुनमें, निश्चय राग ना विसारो ।
 जैसे तारे बहुत हैं नभमे, रवि विन जग अंधियारो ॥रा०४॥
 राग सहित प्रभु रागको जो भवी, निशदिन करत उचारो ।
 दिन दिन बढ़ते पुण्य प्रभावसे,
 होवे निज प्राणको सुधारो ॥ राग० ॥ ५ ॥

॥ इति ॥

